



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 18, 2008/माघ 29, 1929

No. 244]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 18, 2008/MAGHA 29, 1929

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2008

का.आ. 354(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1075(अ), तारीख 3 जुलाई, 2007, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा बिहार राज्य के मधुबनी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 के 0.000 कि.मी. से 310.000 कि.मी. तक के भूखंड (मुजफ्फरपुर-पूर्णिया सेक्शन) का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि) के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 9 अगस्त, 2007 को "दैनिक जागरण" और "हिन्दुस्तान" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

81 d

बिहार राज्य के मधुबनी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं०- 57 के 0.000 कि० मी० से 310.000 कि० मी० (मुजफ्फरपुर - पूर्णिया संचरण) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राप्तकर्ता/हितवादी (व्यक्तियों के नाम)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1. मधुबनी	1. पण्डौल	(1) नरपतनगर	1892	निजी	कृषि	0.132	राम प्रसाद यादव पिता स्व. ठक्को यादव
				1893	निजी	कृषि	0.103	प्रभु यादव पिता स्व. दोरीक यादव हती, राजकुमार यादव पिता स्व. दोरीक यादव हती एवं रामलाल यादव पिता स्व. दोरीक यादव हती
				1891	निजी	कृषि	0.060	मो० फारूक पिता स्व. मो० जैनुल अदलपुर
				1890	निजी	कृषि	0.073	मो० मोहीम पिता स्व. तस्लीम अदलपुर एवं राम प्रसाद यादव पिता स्व. ठक्को यादव हती
				1889	निजी	कृषि	0.048	राम प्रसाद यादव पिता स्व. ठक्को यादव हती, मो० फारूक पिता स्व. मो० जैनुल अदलपुर एवं गुलटेन यादव पिता स्व. ठक्को यादव हती
				1888	सरकारी	सड़क	0.049	बिहार सरकार
				1886	निजी	कृषि	0.115	रामचन्द्र यादव पिता स्व. सोनेलाल यादव हती, मसोमान बानो जीजे स्व. मो० युनूस सीमा
				1883	निजी	कृषि	0.024	कुशो यादव पिता स्व. किशुन यादव हती
				1884	निजी	कृषि	0.020	कुशो यादव पिता स्व. किशुन यादव हती एवं बीबी जरीना जीजे स्व. अब्बास सीमा
				1885	निजी	कृषि	0.012	कुशो यादव पिता स्व. किशुन यादव हती
				1887	निजी	कृषि	0.016	कुशो यादव पिता स्व. किशुन यादव हती
				1882	निजी	कृषि	0.070	महेन्द्र चौपाल एवं उपेन्द्र चौपाल एवं राजेन्द्र चौपाल पिता स्व. मंगल चौपाल हती
				1881	निजी	कृषि	0.061	रामचन्द्र यादव पिता स्व. सोनेलाल यादव हती, मो. मंजूर पिता स्व. युनूस हती, महेन्द्र चौपाल एवं राजेन्द्र चौपाल पिता स्व. मंगल चौपाल हती
				1880	सरकारी	सड़क	0.016	बिहार सरकार
				2030	निजी	कृषि	0.004	गुलटेन यादव पिता स्व. ठक्को यादव हती
				1876	निजी	कृषि	0.076	चन्द्र प्रकाश सिंह पिता स्व. सूरज ना. सिंह नरपतनगर, गुलटेन यादव पिता स्व. ठक्को यादव हती
				1878	निजी	कृषि	0.073	विद्यानाथ साह पिता स्व. लक्ष्मी साह हती
				1877	निजी	कृषि	0.032	चन्द्र प्रकाश सिंह पिता स्व. सूरज ना. सिंह नरपतनगर
				1869	निजी	कृषि	0.016	गुलटेन यादव पिता स्व. ठक्को यादव हती
				1875	निजी	कृषि	0.016	गुलटेन यादव पिता स्व. ठक्को यादव हती
				1874	निजी	कृषि	0.036	कुशो यादव पिता अन-नाँन हती
				1873	निजी	कृषि	0.039	मो. तैयब पिता स्व. मो. जैनुल सीमा, लाल मो. पिता स्व. मो. खलील सीमा
				1871	निजी	कृषि	0.033	फकीर मो. पिता स्व. बब्बन सरदार सीमा
				1872	निजी	कृषि	0.012	मो. मुदूसीर पिता स्व. मो. अतुल रहमान सीमा
				1856	निजी	कृषि	0.065	मो. फरीर पिता स्व. शमशूल हक, मो. तैयब पिता स्व. मो. सब्दुल सीमा, मो. अरमान पिता स्व. मो. हबीब सीमा
				1857	निजी	कृषि	0.021	मो. अरमान पिता स्व. मो. हबीब सीमा
				1852	निजी	कृषि	0.006	मो. तैयब पिता स्व. मो. जैनुल सीमा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1858	निजी	कृषि	0.044	मो. अलाउद्दीन पिता स्व. मो. कासीम सीमा, मो. शम्बीर पिता स्व. अब्दुल हाकीम सीमा
				1859	निजी	कृषि	0.049	मो. इमामुद्दीन पिता स्व. अली हुसेन सीमा
				1860	निजी	कृषि	0.112	मो. अरमान एवं मो. शमीम पिता स्व. मो. हबीब एवं मो. अब्दुल मजीद, मो. मंजूर पिता स्व. मो. अमीर सीमा, मो. दास्तीगीर पिता स्व. मो. वाली सीमा
				1866	निजी	कृषि	0.020	मो. इदरीस पिता स्व. मो. इतवारी सीमा
				1854	निजी	कृषि	0.081	मो. दास्तीगीर पिता स्व. मो. वाली सीमा
				1846	निजी	कृषि	0.016	मो. हारून पिता स्व. मो. यासीन सीमा
				1843	निजी	कृषि	0.026	रामप्रवेश यादव पिता स्व. दुनीलाल यादव हती
				1844	निजी	कृषि	0.016	मो. जहीर पिता स्व. मो. खलील सीमा
				1842	निजी	कृषि	0.012	रामप्रवेश यादव पिता स्व. दुनीलाल यादव हती
				1841	निजी	कृषि	0.004	मो. इदरीस एवं मो. जहीर पिता स्व. नबी सीमा
				1838	निजी	कृषि	0.006	गुलटेन यादव पिता स्व. ठक्को यादव हती
				1845	निजी	कृषि	0.008	नूर मो. पिता स्व. मो. गुलाब सीमा, मो. तबरेज पिता स्व. मो. मोती सीमा
				1848	निजी	कृषि	0.008	मो. सुलेमान पिता स्व. नबी सीमा
				1853	निजी	कृषि	0.020	मो. जलील पिता स्व. मो. हुसैनी सीमा
				1865	निजी	कृषि	0.026	मो. गवासुद्दीन पिता स्व. मो. मंजूर सीमा
				1862	निजी	कृषि	0.036	मो. तैयब पिता स्व. मो. सब्बुल सीमा, ईद मो. पिता स्व. मो. अब्बास सीमा
				1861	निजी	कृषि	0.041	मो. इदरीस पिता स्व. मो. नबी सीमा
				1813	निजी	कृषि	0.044	मो. तैयब पिता स्व. जैनुल हक सीमा, मो. छेदी पिता स्व. मो. पलट सीमा
				1814	निजी	कृषि	0.020	लाल मो. पिता स्व. पलट सीमा
				1812	निजी	कृषि	0.016	मो. मुस्लीम एवं मो. हुसेन पिता स्व. मो. महबूब एवं स्व. मो. दनीयाल सीमा
				1811	निजी	कृषि	0.028	मो. मुस्लीम एवं मो. हुसेन पिता स्व. मो. महबूब एवं स्व. मो. दनीयाल सीमा
				1808	निजी	कृषि	0.028	मो. अरमान पिता स्व. मो. हबीब सीमा
				1807	निजी	कृषि	0.018	मो. जाकीर पिता स्व. गुलाम रसूल सीमा
				1806	निजी	कृषि	0.008	मो. सलामत एवं मो. इस्लाम पिता स्व. रामजनी, फुलहसन पिता स्व. मो. मनसेर सीमा, नूर मो. पिता स्व. मो. मनीर सीमा
				1805	निजी	कृषि	0.032	नूर मो. पिता स्व. मो. गुलाब सीमा, अब्दुल रसीद पिता स्व. युनूस सीमा, मो. तबरेज पिता स्व. मो. मोती सीमा
				1804	निजी	कृषि	0.066	मो. जलील पिता स्व. मो. हुसैनी सीमा
				1810	निजी	कृषि	0.068	मो. अब्दुल पिता स्व. बसीरुद्दीन सीमा
				1803	निजी	कृषि	0.081	मो. इदरीस एवं मो. सुलेमान पिता स्व. मो. नबी सीमा
				1743	निजी	कृषि	0.012	मो. इमामुद्दीन पिता स्व. अली हुसेन सीमा
				1744	निजी	कृषि	0.032	मो. तैयब पिता स्व. मो. सब्बुल सीमा
				1740	निजी	कृषि	0.010	मो. फिरोज पिता स्व. मो. शफीक सीमा
				1745	निजी	कृषि	0.032	मो. अहमदुल्ला पिता स्व. मो. सलीम सीमा
				1801	निजी	कृषि	0.048	मो. अहमदुल्ला पिता स्व. मो. सलीम सीमा
				1802	निजी	कृषि	0.051	मो. मेहंदी एवं मो. मंगल पिता स्व. मो. क्यरी सीमा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1746	निजी	कृषि	0.059	अब्दुल रसीद पिता स्व. मो. युनूस सीमा, नूर मो. पिता स्व. मो. गुलाब सीमा, मो. अब्दुल पिता स्व. मो. बसीरुद्दीन सीमा
				1800	निजी	कृषि	0.024	मो. अब्दुल पिता स्व. बसीरुद्दीन सीमा
				1799	निजी	कृषि	0.012	मो. अब्दुल पिता स्व. मो. सलीम सीमा
				1750	निजी	कृषि	0.004	मो. अब्दुल रसीद पिता स्व. मो. युनूस सीमा
				1749	निजी	कृषि	0.028	सबीर हुसेन पिता स्व. अब्दुल हाकीम सीमा
				1748	निजी	कृषि	0.055	मो. मुलेमान पिता स्व. नथु सीमा
				1747	निजी	कृषि	0.059	मो. मुलेमान पिता स्व. नथु सीमा
				1741	निजी	कृषि	0.063	जुबेर आलम पिता स्व. खुशीद आलम सीमा
				1486	निजी	कृषि	0.060	मो. इबराहूल हक एवं मो. इहातेरमुल हक पिता स्व. मो. अजीजुल हक सीमा
				1739	निजी	कृषि	0.177	मो. इदरीस एवं मो. मुस्तफा पिता स्व. मो. मंगल सीमा
				1487	निजी	कृषि	0.054	मो. मुस्तफा सीमा, सोबेरा खातून जौजे सबीर हुसेन सीमा, मो. तनवीर पिता स्व. अब्दुल बहाव सीमा
				1485	निजी	कृषि	0.075	बीबी जरीना जौजे स्व. अब्बास सीमा, शिवशंकर यादव पिता स्व. परमेश्वर यादव हती
				1513	निजी	कृषि	0.041	मो. इबराह पिता स्व. अब्दुल अजीज सीमा
				1509	निजी	कृषि	0.008	मो. अलाउद्दीन पिता स्व. मो. कासीम सीमा
				1508	निजी	कृषि	0.007	मो. बिलट पिता स्व. मो. जीवछ सीमा
				1506	निजी	कृषि	0.007	मो. रफाकात पिता स्व. मो. हाफीज सीमा
				1515	निजी	कृषि	0.012	मो. अब्दुल कादिर पिता स्व. मो. सलीम सीमा
				1514	निजी	कृषि	0.008	मो. अलाउद्दीन पिता स्व. मो. कासीम सीमा
				1510	निजी	कृषि	0.020	मसोमात हसबुनीसा जौजे तुफजुल हुसेन सीमा
				1517	निजी	कृषि	0.004	मसोमात हसबुनीसा जौजे तुफजुल हुसेन सीमा
				1482	निजी	कृषि	0.031	मसोमात हसबुनीसा जौजे तुफजुल हुसेन सीमा
				1518	निजी	कृषि	0.072	मो. जलील पिता स्व. मो. हुसैनी सीमा
				1483	निजी	कृषि	0.008	मो. सबीर हुसेन पिता स्व. मो. हाकीम सीमा
				1481	निजी	कृषि	0.036	मो. तैयब पिता स्व. मो. जैनुल सीमा
				1480	निजी	कृषि	0.012	सदरे आलम पिता स्व. मो. युसूफ सीमा
				1479	निजी	कृषि	0.024	सदरे आलम पिता स्व. मो. युसूफ सीमा
				1471	निजी	कृषि	0.041	मो. अनीसुल हक पिता स्व. मो. मेहदी जान सीमा
				1478	निजी	कृषि	0.129	फकीर मो. पिता स्व. बब्बन सरदार सीमा
				1523	निजी	कृषि	0.008	मो. अनीसुल हक पिता स्व. मो. मेहदी जान सीमा
				1526	निजी	कृषि	0.036	मो. इजराहुल नदाफ पिता स्व. अब्दुल सत्तार सीमा, मो. फिरोज आलम पिता स्व. मो. सफीक सीमा
				1528	निजी	कृषि	0.016	मो. अब्दुल रसीद पिता स्व. मो. बसिरुद्दीन सीमा
				1527	निजी	कृषि	0.032	मो. बिलट पिता स्व. मो. जीवछ सीमा
				1477	निजी	कृषि	0.109	मो. सीधन पिता स्व. नूर मो. सीमा, मो. फिरोज आलम पिता स्व. मो. सफीक सीमा, मो. इजराहुल नदाफ पिता स्व. अब्दुल सत्तार सीमा
				1473	निजी	कृषि	0.024	मो. युनूस पिता स्व. अमीर सीमा, सदरे आलम पिता स्व. मो. युसूफ सीमा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1472	निजी	कृषि	0.032	सदरे आलम पिता स्व. मो. युसूफ सीमा, मो. हलीम पिता मो. मुद्दी सीमा
				1470	निजी	कृषि	0.020	लैन्ड प्रसाद सिंहा पिता स्व. विश्वनाथ सिंहा नरपतनगर
				1474	निजी	कृषि	0.028	मो. बिलट पिता स्व. मो. जीवछ सीमा
				1475	निजी	कृषि	0.028	मो. हारून पिता स्व. मो. यासीन सीमा
				1476	निजी	कृषि	0.045	मो. बिलट पिता स्व. मो. जीवछ सीमा, मो. युनूस पिता स्व. मो. युनूस सीमा
				1531	निजी	कृषि	0.024	मो. बिलट पिता स्व. मो. जीवछ सीमा
				1443	निजी	कृषि	0.073	मो. बिलट पिता स्व. मो. जीवछ सीमा, मो. जहीर पिता स्व. मो. खलील सीमा
				1442	निजी	कृषि	0.020	मो. सुलेमान पिता स्व. नथु सीमा
				1438	निजी	कृषि	0.044	मो. दास्तीगौर पिता स्व. मो. वाली सीमा
				1437	निजी	कृषि	0.041	मो. कालीमुल्लाह पिता स्व. मो. सलीम सीमा
				1444	निजी	कृषि	0.112	मो. गयासुद्दीन पिता स्व. मो. मंजूर सीमा
				1445	निजी	कृषि	0.020	हाफीज मो. जाकीर पिता स्व. अली हुसेन सीमा
				1447	निजी	कृषि	0.008	मो. अब्दुर्रुल हक पिता स्व. अजीजुल हक सीमा
				1414	निजी	कृषि	0.125	मो. उवेद आलम पिता स्व. कुरसेदे आलम सीमा, मो. सलालुद्दीन पिता स्व. मो. जमशेद सीमा
				1436	निजी	कृषि	0.042	मो. अहमदुल्ला पिता स्व. मो. सलीम सीमा
				1435	निजी	कृषि	0.012	मो. असलम पिता स्व. मो. यासीन सरदार सीमा
				1416	निजी	कृषि	0.027	मो. इलियास पिता स्व. अब्दुल करीम सीमा
				1412	निजी	कृषि	0.046	मो. सर्फुद्दीन पिता स्व. मो. जमशेद सीमा, मो. सर्फुद्दीन पिता स्व. मो. जमशेद सीमा
				1413	निजी	कृषि	0.068	मो. सर्फुद्दीन पिता स्व. मो. जमशेद सीमा, मो. असलम पिता स्व. मो. यासीन सरदार सीमा
				1415	निजी	कृषि	0.012	मो. असलम पिता स्व. मो. यासीन सरदार सीमा
				1411	निजी	कृषि	0.016	मो. बदरुल हक पिता स्व. अब्दुल मजीद सीमा, मो. बदरुल हक पिता स्व. अब्दुल मजीद सीमा
				1401	निजी	कृषि	0.020	मो. असलम पिता स्व. मो. यासीन सरदार सीमा
				1406	निजी	कृषि	0.012	मो. कैश पिता स्व. मो. अब्दुल सत्तार सीमा
				1402	निजी	कृषि	0.083	बारीदा खानून जौजे स्व. अब्दुल हमीद सीमा
				1403	निजी	कृषि	0.103	मो. हसीम पिता स्व. इस्माईल सीमा, मो. शमीम पिता स्व. अब्दुल सकुल सीमा
				5600	निजी	कृषि	0.012	मो. सुलेमान पिता स्व. मो. नथु सीमा
				1809	निजी	कृषि	0.073	मो. सलामत पिता इस्लाम
				1360	निजी	कृषि	0.008	मो. इमतयाज अहमद पिता स्व. मो. इलियास सीमा
				1359	निजी	कृषि	0.113	मो. सुलेमान पिता स्व. मो. नथु सीमा
				1350	निजी	कृषि	0.026	परमेश्वर साह पिता स्व. शौकी साह सीमा
				1349	निजी	कृषि	0.083	बादरुल हक पिता स्व. अब्दुल मजीद सीमा
				1352	निजी	कृषि	0.020	फिरोज आलम पिता स्व. मो. शफीक सीमा
				1353	निजी	कृषि	0.026	मो. इलियास पिता स्व. नबी जान सीमा
				1351	निजी	कृषि	0.046	परमेश्वर साह पिता स्व. शौकी साह सीमा
				1358	निजी	कृषि	0.026	मो. शमीम पिता स्व. अब्दुल साकुर सीमा
				1357	निजी	कृषि	0.012	मो. शमीम पिता स्व. अब्दुल साकुर सीमा
				1356	निजी	कृषि	0.012	मो. शमीम पिता स्व. अब्दुल साकुर सीमा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1355	निजी	कृषि	0.024	इदरीस नदाफ पिता स्व. अब्दुल नदाफ सीमा
				1354	निजी	कृषि	0.016	हाजरा बेगम जौजे जैनुल हक सीमा
				1347	निजी	कृषि	0.035	मो. शाहबुद्दीन पिता स्व. मो. जमशेद सीमा, इदरीस नदाफ पिता स्व. अब्दुल नदाफ सीमा
				1846	निजी	कृषि	0.026	मो. हारून पिता स्व. मो. यासीन सीमा
				2199	निजी	कृषि	0.012	मुसै साह पिता स्व. प्रेमलाल साह
				1149	सरकारी	सड़क	0.082	बिहार सरकार
				1132	निजी	कृषि	0.081	जितेन्द्र कुमार सिंह पिता स्व. गौरीशंकर सिंह नरपतनगर, रविन्द्र सिंह पिता स्व. प्रेमलाल सिंह नरपतनगर
				1135	निजी	कृषि	0.026	मीणा देवी पत्नी हरेन्द्र प्रसाद सिंह नरपतनगर
				1136	निजी	कृषि	0.008	योगेन्द्र सिंह पिता स्व. केदार नाथ सिंह नरपतनगर
				1134	निजी	कृषि	0.041	गायत्री देवी, बीणा देवी एवं चन्द्रप्रभा देवी पुत्री रामेश्वर सिंह नरपतनगर
				1133	निजी	कृषि	0.107	गोपाल साह पिता स्व. जामुन साह नरपतनगर
				1111	निजी	कृषि	0.032	डा. हरेन्द्र प्रसाद सिंह पिता स्व. यदुनन्दन सिंह नरपतनगर
				1113	निजी	कृषि	0.036	डा. हरेन्द्र प्रसाद सिंह पिता स्व. यदुनन्दन सिंह नरपतनगर, राजेन्द्र सिंह एवं विशेषर सिंह एवं गजेन्द्र सिंह पिता स्व. यदुनन्दन सिंह नरपतनगर
				1112	निजी	कृषि	0.032	डा. हरेन्द्र प्रसाद सिंह पिता स्व. यदुनन्दन सिंह नरपतनगर, राजेन्द्र सिंह एवं विशेषर सिंह एवं गजेन्द्र सिंह पिता स्व. यदुनन्दन सिंह नरपतनगर
				1120	निजी	कृषि	0.107	सुभाष कुमार सिंह पिता स्व. विजय प्रसाद सिंह नरपतनगर, राजकिशोर सिंह पिता स्व. फुलेश्वर सिंह नरपतनगर
				1121	निजी	कृषि	0.054	विश्वम्भर प्रसाद सिंह पिता स्व. यदुनन्दन सिंह नरपतनगर
				1122	निजी	कृषि	0.055	जितेन्द्र कुमार सिंह पिता स्व. गौरीशंकर सिंह नरपतनगर
				1124	निजी	कृषि	0.016	विश्वम्भर प्रसाद सिंह पिता स्व. यदुनन्दन सिंह नरपतनगर
				1119	निजी	कृषि	0.089	बिमल सिंह जौजे सुरेश प्रसाद नरपतनगर
				1114	निजी	कृषि	0.045	चन्द्रकान्त झा पिता स्व. गणेश झा नरपतनगर
				1118	निजी	कृषि	0.045	राजकुमार मिश्रा पिता स्व. ग्याकांत मिश्रा नरपतनगर
				1115	निजी	कृषि	0.016	रामेश्वर झा एवं लक्ष्मीश्वर झा एवं विद्यानन्द झा एवं मदन झा पिता स्व. नन्द झा नरपतनगर
				1116	निजी	कृषि	0.028	अमरेन्द्र झा एवं मधुकान्त झा पिता स्व. सत्यनारायण झा नरपतनगर, मुसै झा पिता स्व. मोतिलाल झा नरपतनगर
				1117	निजी	कृषि	0.008	राजकुमार मिश्रा पिता स्व. सर्वदेव झा नरपतनगर
				1104	निजी	कृषि	0.016	बाबुजी ठाकुर पिता स्व. हरिनन्दन ठाकुर नरपतनगर
				1102	निजी	कृषि	0.026	महेश प्रसाद सिंह पिता स्व. उदीत सिंह नरपतनगर
				888	निजी	कृषि	0.182	कैलास प्रसाद सिंह एवं श्यामनन्दन प्रसाद सिंह पिता स्व. गंगा प्रसाद सिंह नरपतनगर, यतीन्द्र कुमार मिश्रा पिता स्व. रघुनाथ मिश्रा नरपतनगर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2327	निजी	कृषि	0.187	यतीन्द्र कुमार मिश्रा पिता स्व. रघुनाथ मिश्रा नरपतनगर, विनोदानन्द मिश्रा पिता स्व. विश्वनाथ मिश्रा नरपतनगर
				2325	निजी	कृषि	0.076	कृष्ण कुमार सिंह पिता स्व. काली प्रसाद सिंह नरपतनगर
				2324	निजी	कृषि	0.053	प्रमोद कुमार सिंह एवं सुशील कुमार सिंह पिता स्व. सुरेन्द्र प्रसाद सिंह नरपतनगर
				2315	निजी	कृषि	0.031	कृष्ण कुमार सिंह एवं सुनील कुमार सिंह पिता स्व. काली प्रसाद सिंह नरपतनगर
				2314	निजी	कृषि	0.014	आदित्य नारायण सिंह पिता स्व. हरदेव सिंह एवं विश्वनाथ सिंह पिता स्व. रामधर सिंह नरपतनगर
				2316	निजी	कृषि	0.002	धीरेन्द्र कुमार सिंह पिता स्व. त्रिभुवन प्रसाद सिंह नरपतनगर
				2323	निजी	कृषि	0.012	राजकिशोर सिंह पिता स्व. फुलेश्वर सिंह नरपतनगर, सुभाष कुमार सिंह पिता स्व. विजय प्रसाद सिंह नरपतनगर
				2326	निजी	कृषि	0.060	सुनील कुमार सिंह पिता स्व. दर्पनारायण सिंह नरपतनगर
				889	निजी	कृषि	0.024	रूबी देवी जौजे हीरा मंडल नरपतनगर
				890	निजी	कृषि	0.020	मो. नासीर सीमा
				891	निजी	कृषि	0.012	मो. नासीर सीमा
				895	निजी	कृषि	0.024	अवधेश मंडल पिता रामबिलास मंडल नरपतनगर
				896	निजी	कृषि	0.011	सुन्दर मंडल नरपत नगर
				884	निजी	कृषि	0.028	जीतेन्द्र कुमार सिंह पिता स्व. गौरीशंकर सिंह नरपतनगर
				885	निजी	कृषि	0.035	कैलास प्रसाद सिंह एवं श्यामनन्दन प्रसाद सिंह पिता स्व. गंगा प्रसाद सिंह नरपतनगर
				886	निजी	कृषि	0.093	गायत्री देवी, बीणा देवी एवं चन्द्रप्रभा देवी पिता रामेश्वर सिंह नरपतनगर
				887	निजी	कृषि	0.123	गजेन्द्र प्रसाद सिंह पिता स्व. यदुनन्दन सिंह नरपतनगर
				2331	निजी	कृषि	0.010	विपिन बिहारी सिंह पिता स्व. भोगेश्वर सिंह
				2329	निजी	कृषि	0.010	विपिन बिहारी सिंह पिता स्व. भोगेश्वर सिंह
				883	निजी	कृषि	0.600	राधानन्दन सिंह पिता स्व. त्रिवेणी सिंह नरपतनगर, राधानन्दन सिंह पिता स्व. त्रिवेणी सिंह नरपतनगर
				851	निजी	कृषि	0.012	मो. मुस्कीम पिता स्व. अयुब सीमा
				868	निजी	कृषि	0.060	जमीला खातून जौजे स्व. अयुब सीमा
				869	निजी	कृषि	0.016	गायत्री देवी, वीणा देवी, चन्द्रप्रभा देवी पिता रामेश्वर सिंह नरपतनगर
				880	निजी	कृषि	0.008	जाकरी हुसैन पिता अली हुसैन
				874	निजी	कृषि	0.006	योगेन्द्र सिंह पिता स्व. केदार नाथ सिंह नरपतनगर
				873	निजी	कृषि	0.027	योगेन्द्र सिंह पिता स्व. केदार नाथ सिंह नरपतनगर
				872	निजी	कृषि	0.029	विनोदानन्दन मिश्रा पिता स्व. विश्वनाथ मिश्रा नरपतनगर
				870	निजी	कृषि	0.060	विनोदानन्दन मिश्रा पिता स्व. विश्वनाथ मिश्रा नरपतनगर, शेख जैनुल पिता स्व. मो. तस्लीम सीमा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				871	निजी	कृषि	0.020	विनोदानन्दन मिश्रा पिता स्व. विश्वनाथ मिश्रा नरपतनगर, गोपाल झा एवं धनेश्वर झा पिता स्व. कुंजीलाल झा नरपतनगर
				1839	निजी	कृषि	0.008	लाल मो. पिता मो. खलील
				5612	निजी	कृषि	0.012	जैनुल हक पिता तस्लीम
				5613	निजी	कृषि	0.008	जैनुल हक पिता तस्लीम
				1434	निजी	कृषि	0.020	जैनुल हक पिता तस्लीम
				1446	निजी	कृषि	0.004	मो. इरफान पिता अब्दुल रहमान
				1361	निजी	कृषि	0.008	मो. इलियास पिता नबी जान
				1404	निजी	कृषि	0.072	मो. सबीर पिता अब्दुल बहाब, मो. कालीमुल्ला पिता मो. सलीम
				1840	निजी	कृषि	0.006	लाल मो. पिता मो. खलील
				1483	निजी	कृषि	0.014	मो. सबीर हुसेन पिता स्व. मो. हाकीम
				892	निजी	कृषि	0.006	मो. जासीर अहमद पिता अब्दुल साकुर
			(2) मोकरमपुर	7801	निजी	कृषि	0.013	देवचन्द्र झा एवं जयचन्द्र झा पिता शंभु नारायण झा
				7802	निजी	कृषि	0.013	मधुकान्त झा पिता स्व. सत्यनारायण झा
				7803	निजी	कृषि	0.013	शिवशंकर झा पिता स्व. बदुक झा
				7806	निजी	कृषि	0.010	लक्ष्मीश्वर झा पिता स्व. नन्द झा
				7805	निजी	कृषि	0.022	काशीनाथ झा पिता स्व. महावीर झा
				7771	निजी	कृषि	0.002	श्रीकान्त झा पिता स्व. राधाकान्त झा
				7770	निजी	कृषि	0.014	उपेन्द्र झा पिता स्व. लीलकान्त झा
				7807	निजी	कृषि	0.034	चन्द्रनारायण झा पिता स्व. गणेश झा
				7800	निजी	कृषि	0.002	वेदनन्द झा पिता स्व. दुकुलाल झा साकीम देहे
				7804	निजी	कृषि	0.008	राजेन्द्र झा पिता सुकदेव झा
				7814	निजी	कृषि	0.020	विनोदानन्द मिश्रा पिता स्व. विश्वनाथ मिश्रा
				7813	निजी	कृषि	0.015	काशीनाथ झा पिता स्व. महावीर झा
				7812	निजी	कृषि	0.020	काशीनाथ झा पिता स्व. महावीर झा
				7811	निजी	कृषि	0.026	देवचन्द्र झा एवं जयचन्द्र झा पिता शुभ नारायण झा
				7810	निजी	कृषि	0.026	कृष्णकान्त मिश्रा एवं विष्णुकान्त मिश्रा एवं भद्रकान्त मिश्रा पिता स्व. उमाकान्त मिश्रा
				7808	निजी	कृषि	0.018	दयानन्द झा पिता स्व. कामेश्वर झा
				7809	निजी	कृषि	0.020	वेदनन्द झा पिता स्व. दुकुलाल झा साकीम देहे
				7767	निजी	कृषि	0.058	हेमकर झा पिता स्व. जयकान्त झा, चन्द्रमोहन झा पिता स्व. दिवाकर झा
				7823	निजी	कृषि	0.042	राजकुमार मिश्रा पिता स्व. गयाकान्त मिश्रा
				7824	निजी	कृषि	0.064	विनोदानन्द मिश्रा पिता स्व. गयाकान्त मिश्रा
				7825	निजी	कृषि	0.036	गजेन्द्र झा पिता स्व. संतलाल झा
				7826	निजी	कृषि	0.012	दयानन्द झा पिता स्व. कामेश्वर झा
				7827	निजी	कृषि	0.012	वेदनन्द झा पिता स्व. दुकुलाल झा साकीम देहे
				7828	निजी	कृषि	0.012	देवचन्द्र झा एवं जयचन्द्र झा पिता शंभु नारायण झा
				7786	निजी	कृषि	0.020	हेमकर झा पिता स्व. जयकान्त झा
				7761	निजी	कृषि	0.004	गोपाल सिंह पिता स्व. भूपेन्द्र सिंह

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				7829	निजी	कृषि	0.081	हेमकर झा एवं चन्द्रमोहन झा पिता स्व. जयकान्त झा एवं स्व. दिवाकर झा
				7830	निजी	कृषि	0.041	चन्द्रनारायण झा पिता स्व. गणेश झा, गजेन्द्र झा पिता स्व. संतलाल झा
				7831	निजी	कृषि	0.040	मुक्तीनाथ मिश्रा पिता स्व. कान्तीर मिश्रा, उपेन्द्र झा पिता स्व. लीलकान्त झा
				7832	निजी	कृषि	0.032	श्रीकान्त झा पिता स्व. राधाकान्त झा
				7833	निजी	कृषि	0.064	चन्द्रमोहन झा पिता स्व. दिवाकर झा
				7834	निजी	कृषि	0.032	शिवकान्त झा पिता स्व. बटुक झा
				7765	निजी	कृषि	0.208	हरिवंश नारायण सिंह एवं राजेश रौशन पिता स्व. प्रियवर्ती सिंह एवं स्व. रघुवंशनारायण सिंह
				7762	निजी	कृषि	0.008	मुरलीधर सिंह पिता स्व. शिव नारायण सिंह
				7763	निजी	कृषि	0.040	हरिवंश नारायण सिंह एवं राजेश रौशन पिता स्व. प्रियवर्ती सिंह एवं स्व. रघुवंशनारायण सिंह
				7764	निजी	कृषि	0.048	रघुबेन्द्र प्रसाद सिंह पिता बज किशोर सिंह, कौशलेन्द्र प्रसाद सिंह पिता स्व. लाल किशोर सिंह
				7759	निजी	कृषि	0.028	आदित्य नारायण सिंह पिता स्व. जयमंगल प्रसाद सिंह
				7842	निजी	कृषि	0.076	बिहार सरकार
				7897	निजी	कृषि	0.108	राधानन्दन सिंह पिता स्व. त्रिवेणी सिंह, संजय सिंह एवं मृत्युंजय सिंह पिता स्व. श्यामनन्द सिंह, कन्हैया सिंह पिता स्व. त्रिवेणी सिंह
				7928	निजी	कृषि	0.280	बिनोदानन्द मिश्रा एवं ब्रजेश कुमार मिश्रा पिता स्व. विश्वनाथ मिश्रा एवं यदुनाथ मिश्रा, यतीन्द्र कुमार मिश्रा पिता स्व. रघुनाथ मिश्रा
				7898	निजी	कृषि	0.108	यतीन्द्र कुमार मिश्रा पिता स्व. रघुनाथ मिश्रा
				7899	निजी	कृषि	0.044	आदित्यनारायण सिंह पिता स्व. हरदेव सिंह
				7900	निजी	कृषि	0.020	विश्वनाथ सिंह पिता स्व. रामधीर सिंह
				7901	निजी	कृषि	0.048	सुरेश प्रसाद सिंह पिता स्व. नयुनी सिंह
				7905	निजी	कृषि	0.012	चन्द्रनारायण झा पिता स्व. गणेश झा
				7904	निजी	कृषि	0.020	वेदनन्द झा, दयानन्द झा एवं जयचन्द्र झा पिता स्व. दुकुलाल झा एवं स्व. कामेश्वर झा एवं स्व. शुभ नारायण झा साक्षीम देहे
				7903	निजी	कृषि	0.056	हेमकर झा एवं सुधाकर झा पिता स्व. जयकान्त झा एवं स्व. दिवाकर झा एवं स्व. कालीकान्त झा
				7910	निजी	कृषि	0.052	काशीनाथ झा पिता स्व. महावीर झा
				7913	निजी	कृषि	0.002	मुक्तीनाथ मिश्रा पिता स्व. कान्तीर मिश्रा
				7912	निजी	कृषि	0.002	मुक्तीनाथ मिश्रा पिता स्व. कान्तीर मिश्रा
				7911	निजी	कृषि	0.052	सुधाकर झा पिता स्व. कालीकान्त झा
				7902	निजी	कृषि	0.064	हेमकर झा पिता स्व. जयकान्त झा एवं दिवाकर झा
				7945	निजी	कृषि	0.040	ब्रजेश कुमार मिश्रा पिता स्व. यदुनन्दन मिश्रा
				7944	निजी	कृषि	0.081	ब्रजेश कुमार मिश्रा पिता स्व. यदुनन्दन मिश्रा
				7941	निजी	कृषि	0.076	मुक्तीनाथ मिश्रा पिता स्व. कान्तीर मिश्रा, उपेन्द्र झा पिता स्व. लीलकान्त झा
				7940	निजी	कृषि	0.044	श्रीकान्त झा पिता स्व. राधाकान्त झा, धनेश्वर झा पिता स्व. कुंजलाल झा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				7942	निजी	कृषि	0.097	ब्रजेश कुमार मिश्रा पिता स्व. यदुनाथ मिश्रा
				7939	निजी	कृषि	0.008	विश्वनाथ सिंह पिता स्व. रामधीर सिंह
				7943	निजी	कृषि	0.120	यतीन्द्र कुमार मिश्रा पिता स्व. रघुनाथ मिश्रा
				7766	निजी	कृषि	0.024	हेमकर झा पिता जयकान्त झा
		(3) कनकपुर		411	निजी	कृषि	0.046	विश्वनाथ सिंह पिता स्व. रामधीर सिंह, नरपतनगर
				412	निजी	कृषि	0.060	पंकज मंडल पिता स्व. रामसेवक मंडल नरपतनगर
				429	निजी	कृषि	0.058	यतीन्द्र कुमार मिश्रा पिता स्व. रघुनाथ मिश्रा, नरपतनगर
				428	निजी	कृषि	0.068	चन्द्रेश्वर मंडल पिता स्व. अच्छे मंडल, नरपतनगर
				413	निजी	कृषि	0.056	विश्वनाथ सिंह पिता स्व. रामधीर सिंह, नरपतनगर
				414	निजी	कृषि	0.081	विश्वनाथ सिंह पिता स्व. रामधीर सिंह, नरपतनगर
				415	निजी	कृषि	0.020	जवाहर यादव पिता स्व. मौजे यादव, कनकपुर एवं नधुनी यादव पिता स्व. बुधन यादव कनकपुर
				416	निजी	कृषि	0.016	जवाहर यादव पिता स्व. मौजे यादव, कनकपुर
				421	निजी	कृषि	0.016	रामविलास यादव पिता स्व. सोतीलाल यादव, कनकपुर
				424	निजी	कृषि	0.016	जवाहर यादव पिता स्व. मौजे यादव, कनकपुर
				422	निजी	कृषि	0.012	रामविलास यादव पिता स्व. सोतीलाल यादव, कनकपुर
				423	निजी	कृषि	0.012	सीताराम मंडल पिता स्व. उचीत लाल मंडल, कनकपुर एवं मसोमात जया देवी पत्नी अज्ञात, नरपतनगर
				425	निजी	कृषि	0.036	लक्ष्मी यादव पिता स्व. उचीत यादव, कनकपुर
				427	निजी	कृषि	0.110	सीताराम मंडल पिता स्व. उचीत लाल मंडल, कनकपुर एवं मसोमात जया देवी पत्नी अज्ञात, नरपतनगर
				426	निजी	कृषि	0.006	लक्ष्मी यादव पिता स्व. उचीत यादव, कनकपुर
				420	निजी	कृषि	0.038	भुशरण यादव पिता स्व. जया हरeram यादव डीहटोल कनकपुर एवं जयनारायण यादव पिता स्व. जगेश्वर यादव साकीम देहे
				419	निजी	कृषि	0.006	मकसुदन यादव पिता स्व. लखन यादव साकीम देहे
				418	निजी	कृषि	0.032	मदन ठाकुर पिता डोमू ठाकुर साकीम देहे
				417	निजी	कृषि	0.093	देवेन्द्र प्रसाद सिंह पिता स्व. वृजनन्दन सिंह, नरपतनगर
				441	निजी	कृषि	0.028	सरयुग ठाकुर पिता स्व. कनकेश्वर ठाकुर, कनकपुर
				442	निजी	कृषि	0.036	शशीभूषण ठाकुर पिता स्व. गंगा ठाकुर, कनकपुर
				433	निजी	कृषि	0.020	रामसेवक यादव पिता स्व. छीतु यादव, कनकपुर
				400	निजी	कृषि	0.132	आनन्द मोहन झा पिता स्व. दिवाकर झा, नरपतनगर
				399	निजी	कृषि	0.041	पंकज मंडल पिता स्व. रामसेवक मंडल नरपतनगर
				393	निजी	कृषि	0.032	पंकज मंडल पिता स्व. रामसेवक मंडल नरपतनगर
				390	निजी	कृषि	0.044	रामलगन यादव पिता स्व. कपिलेश्वर यादव साकीम देहे
				389	निजी	कृषि	0.032	विद्यानाथ यादव पिता स्व. डोमू यादव साकीम देहे
				387	निजी	कृषि	0.031	संजय कुमार यादव पिता अगनू यादव साकीम देहे
				388	निजी	कृषि	0.028	रामलोचन यादव पिता स्व. हरिनन्दन यादव साकीम देहे
				371	निजी	गैर-कृषि	0.712	अभय कुमार झा पिता सत्य नारायण झा साकीम देहे एवं निर्भय झा पिता सत्यनारायण झा साकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				990	निजी	कृषि	0.096	चरित्र यादव पिता स्व. बुचकून यादव साकीम देहे एवं रोहित यादव
				893	निजी	कृषि	0.004	भूशरण यादव पिता स्व. जय हरeram यादव डिहटोल, कनकपुर
				927	सरकारी	सड़क	0.024	बिहार सरकार
				937	निजी	कृषि	0.042	भूशरण यादव एवं अरूण यादव पिता स्व. जय हरeram यादव डिहटोल, कनकपुर
				1092	निजी	कृषि	0.006	प्रदीप यादव पिता स्व. हरिनन्दन यादव साकीम देहे
				1093	निजी	कृषि	0.034	राजकिशोर यादव पिता स्व. बुटन यादव साकीम देहे एवं रामशीष यादव पिता स्व. बुटन यादव साकीम देहे
				1104	निजी	कृषि	0.051	चन्द्रप्रकाश सिंह पिता स्व. शहीद सुरज नारायण सिंह, नरपतनगर
				1142	निजी	कृषि	0.016	संजय कुमार यादव पिता अगनू यादव साकीम देहे
				1143	निजी	कृषि	0.077	संजय कुमार यादव पिता अगनू यादव साकीम देहे
				1204	निजी	कृषि	0.014	अशोक यादव पिता जामुन यादव साकीम देहे
				1145	निजी	कृषि	0.012	संजय कुमार यादव पिता अगनू यादव साकीम देहे
				1146	निजी	कृषि	0.013	रामलोचन यादव पिता स्व. हरिनन्दन यादव साकीम देहे
				1147	निजी	कृषि	0.016	रामलोचन यादव पिता स्व. हरिनन्दन यादव साकीम देहे
				1186	निजी	कृषि	0.145	राजकुमार पासवान पिता स्व. जीतन पासवान साकीम देहे एवं राजेन्द्र पासवान पिता स्व. शौकी पासवान साकीम देहे एवं रामशीष यादव पिता बुटन यादव साकीम देहे एवं शीतल पासवान पिता स्व. अक्लू पासवान साकीम देहे
				1185	निजी	कृषि	0.027	संजय कुमार यादव पिता अगनू यादव साकीम देहे
				1167	निजी	कृषि	0.061	संजय कुमार यादव पिता अगनू यादव साकीम देहे
				1165	निजी	कृषि	0.078	मसोमात यमुना देवी एवं मोतीउर रहमान पिता स्व. अब्दुल रहमान साकीम देहे
				1164	निजी	कृषि	0.042	अधनु यादव पिता स्व. रघुनन्दन यादव साकीम देहे
				1163	निजी	कृषि	0.070	अधनु यादव पिता स्व. रघुनन्दन यादव साकीम देहे
				1159	सरकारी	कृषि	0.004	बिहार सरकार
				1162	निजी	कृषि	0.105	जनक यादव पिता स्व. किराय यादव साकीम देहे एवं पूर्वी कोशी नहर
				1160	निजी	कृषि	0.012	पूर्वी कोशी नहर
				1396	निजी	कृषि	0.041	रामाधीन यादव पिता स्व. भीलय यादव साकीम देहे
				1401	निजी	कृषि	0.240	अब्दुल कयूम पिता स्व. अनवारुल हक साकीम देहे
				1609	निजी	कृषि	0.028	लक्ष्मी ठाकुर पिता कपलेश्वर ठाकुर एवं मोतीउररहमान पिता अब्दुल रहमान
				1750	निजी	कृषि	0.006	पृथ्वी नारायण चौधरी पिता स्व. रंगगुलाम चौधरी, कनकपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1751	निजी	कृषि	0.002	विश्वनाथ साह पिता स्व. गोविन्द साह, सरसोपाही
				1752	निजी	कृषि	0.034	लक्ष्मण पासवान पिता मुसहर पासवान, कनकपुर
				1760	निजी	कृषि	0.004	हुकुमदेव यादव पिता रामशरण यादव साकीम देहे
				1761	निजी	कृषि	0.002	राजकुमार पासवान पिता स्व. जीतन पासवान साकीम देहे
				1766	निजी	कृषि	0.002	गंगा प्रसाद यादव पिता स्व. चुआ यादव साकीम देहे
				1767	निजी	कृषि	0.002	मीरा देवी उर्फ मीरा ठाकुर पति मदन मोहन ठाकुर साकीम देहे
				1772	निजी	कृषि	0.041	अमरनाथ यादव पिता स्व. शिवनन्दन यादव कन्हौली एवं चौधरी यादव पिता स्व. खुबलाल यादव कन्हौली
				1773	निजी	कृषि	0.004	वैद्यनाथ यादव पिता स्व. रूपन यादव साकीम देहे
				1774	निजी	कृषि	0.004	परमेश्वर यादव पिता स्व. मोती यादव साकीम देहे
				1775	निजी	कृषि	0.002	बिशुनदेव यादव पिता स्व. अनुप यादव, कन्हौली
				1779	निजी	कृषि	0.002	बिल्लु यादव पिता स्व. बच्चु यादव कन्हौली
				1780	निजी	कृषि	0.002	बिल्लु यादव पिता स्व. बच्चु यादव कन्हौली
				1781	निजी	कृषि	0.004	परमेश्वर यादव पिता स्व. मोती यादव साकीम देहे
				1788	निजी	कृषि	0.006	रामउदगार यादव पिता स्व. भंगन यादव साकीम देहे
				2034	निजी	कृषि	0.014	विश्वनाथ चौधरी पिता स्व. लुटन चौधरी, मोहनबढ़ियाम
				2033	निजी	कृषि	0.012	नारायण जी चौधरी पिता स्व. हरिश्चन्द्र चौधरी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2585	सरकारी	सड़क	0.060	बिहार सरकार
				1491	निजी	गैर-कृषि	0.022	बौधु साफी पिता फौदार साफी, मोकरमपुर
				1525	निजी	कृषि	0.210	मो. दाउद पिता स्व. मो. कारी, सोरीपट्टी
				1561	निजी	कृषि	0.002	अब्दुल मल्लिक पिता स्व. अब्दुल अजीम साकीम देहे एवं अशरफी यादव पिता स्व. लालधारी यादव साकीम देहे एवं हरेन्द्र प्रसाद सिंह पिता यदुनन्दन सिंह, नरपतनगर
				1562	निजी	कृषि	0.008	अब्दुल मल्लिक पिता स्व. अब्दुल अजीम साकीम देहे एवं अशरफी यादव पिता स्व. लालधारी यादव साकीम देहे एवं हरेन्द्र प्रसाद सिंह पिता यदुनन्दन सिंह, नरपतनगर
				1570	निजी	कृषि	0.007	हरेन्द्र प्रसाद सिंह पिता स्व. यदुनन्दन सिंह, नरपतनगर
				2051	निजी	कृषि	0.016	जगेश्वर यादव पिता स्व. बउएलाल यादव, कन्हौली
				2050	निजी	कृषि	0.020	रामेश्वर यादव एवं रामभूषण यादव पिता स्व. बउएलाल यादव एवं स्व. बलेल यादव कन्हौली
				2049	निजी	कृषि	0.036	परमेश्वर यादव पिता स्व. मोती यादव साकीम देहे
				2047	निजी	कृषि	0.012	बित्तु यादव पिता स्व. बच्चु यादव कन्हौली
				2281	निजी	कृषि	0.054	गोपाल नारायण चौधरी पिता स्व. राम नारायण चौधरी, मोहनबढ़ियाम
				2329	निजी	कृषि	0.012	राजेन्द्र प्रसाद पिता स्व. सत्यदेव साह
				2328	निजी	गैर-कृषि	0.018	पुरनचन्द्र प्रसाद पिता स्व. भरत प्रसाद लहेरी टोल पन्डौल
				2327	निजी	कृषि	0.014	सतोष कुमार साह पिता स्व. महेन्द्र साह कनकपुर
				2508	निजी	कृषि	0.004	जागेश्वरीन देवी पति स्व. लक्ष्मीकान्त ठाकुर साकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2527	निजी	गैर-कृषि	0.003	भोला ठाकुर एवं राम लखन ठाकुर पिता स्व. सरयुग ठाकुर
				933	सरकारी	सड़क	0.032	बिहार सरकार
				1529	निजी	कृषि	0.012	बौधु साफी पिता फौदार साफी, मोकरमपुर
				1524	निजी	कृषि	0.028	बौधु साफी पिता फौदार साफी, मोकरमपुर
				2618	निजी	कृषि	0.016	बिहार सरकार
				1492	निजी	कृषि	0.006	बौधु साफी पिता फौदार साफी, मोकरमपुर
				384	निजी	कृषि	0.003	योगीन्द्र यादव पिता देबू यादव, रोहित यादव पिता सहदेव यादव, प्रभु यादव पिता सहदेव यादव
				385	निजी	कृषि	0.003	रामधनी यादव पिता मिलय यादव
				386	निजी	कृषि	0.024	योगीन्द्र यादव पिता देबू यादव
				401	निजी	कृषि	0.100	विश्वनाथ सिंह पिता रामाधीर सिंह
				402	निजी	कृषि	0.011	विश्वनाथ सिंह पिता रामाधीर सिंह
				927	निजी	कृषि	0.012	प्रभु यादव पिता सहदेव यादव
				928	निजी	कृषि	0.002	रामाधीन यादव पिता स्व. मिलय यादव
				929	निजी	कृषि	0.003	वैद्यनाथ यादव पिता डोमू यादव
				938	निजी	कृषि	0.010	जवाहर यादव पिता मौजी यादव राम लखन यादव पिता लक्ष्मी यादव
				940	निजी	कृषि	0.008	भुशरण यादव पिता हरेश्वर यादव, रामरतन यादव पिता लक्ष्मी यादव

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				941	निजी	कृषि	0.002	जवाहर यादव पिता मौजी यादव
				892	निजी	कृषि	0.027	चलितर यादव पिता बचकन यादव, रोहित यादव पिता सहदेव यादव, रामाधीन यादव पिता मिलय यादव
				1071	निजी	कृषि	0.031	प्रदीप यादव पिता स्व. हरिनन्दन यादव साकीम देहे
				1073	निजी	कृषि	0.028	देवनारायण यादव पिता जागेश्वर यादव
				1074	निजी	कृषि	0.031	जवाहर यादव पिता मौजी यादव
				1075	निजी	कृषि	0.030	अरूण यादव पिता हरराम यादव
				1076	निजी	कृषि	0.005	चन्द्रप्रकाश सिंह पिता स्व. शहीद सुरज नारायण सिंह, नरपतनगर
				1100	निजी	कृषि	0.106	मो. जमुना देवी पति कपिलेश्वर यादव एवं चन्द्रप्रकाश सिंह पिता शहीद सुरज नारायण सिंह
				1168	निजी	कृषि	0.010	राजकुमार पासवान पिता जीतन पासवान
				1169	निजी	कृषि	0.110	रामविलास यादव पिता स्व. सोतीलाल यादव, कनकपुर
				1183	निजी	कृषि	0.039	जनक यादव पिता स्व. किराय यादव साकीम देहे एवं पूर्वी कोशी नहर
				1187	निजी	कृषि	0.017	भिखारी साह एवं लाल बिहारी साह पिता रामखेलावन साह
				1197	निजी	कृषि	0.052	रामाधीन यादव पिता मील्य यादव
				1195	निजी	कृषि	0.076	राजकुमार पासवान पिता जीतन पासवान
				1196	निजी	कृषि	0.062	संजय कुमार यादव पिता अगनू यादव साकीम देहे
				1199	निजी	कृषि	0.070	संजय कुमार यादव पिता अगनू यादव साकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1161	निजी	कृषि	0.128	कोशी नहर
				2524	निजी	कृषि	0.041	अनवारूल पिता छेदी, कपिलदेव प्रसाद पिता हजारी लाल साह, मीर हसन पिता मीर सलीम
				2525	निजी	कृषि	0.009	कपिलदेव प्रसाद पिता हजारी लाल साह
				1395	निजी	कृषि	0.060	मो. जमुना देवी पति कपिलेश्वर यादव
				1398	निजी	कृषि	0.054	मो. जफ़ीर पिता फुल हसन
				1527	निजी	कृषि	0.060	मो. पुनीता देवी पति राम चन्द्र चौधरी
				1528	निजी	कृषि	0.010	मो. जमालुद्दीन पिता मो. हालीम
				1544	निजी	कृषि	0.029	मो. जहांगीर पिता रहमान सरदार
				1545	निजी	कृषि	0.010	संजय कुमार सिंह पिता राजकुमार सिंह
				1567	निजी	कृषि	0.010	लाल बिहार साह पिता राम खेलावन साह
				1568	निजी	कृषि	0.003	लाल बिहार साह पिता राम खेलावन साह
				1569	निजी	कृषि	0.002	अशरफ़ी यादव पिता लालधारी यादव
				2771	निजी	कृषि	0.024	रामसुन्दर यादव पिता पलट यादव
				1574	निजी	कृषि	0.003	सुधीरा देवी पति नित्यानन्द झा
				1577	निजी	कृषि	0.004	जगन्नाथ यादव पिता डोमू यादव
				1586	निजी	कृषि	0.052	सत्यनारायण ठाकुर पिता जागेश्वर ठाकुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1587	निजी	कृषि	0.013	नवीन कुमार चौधरी पिता गोपीकान्त चौधरी
				1588	निजी	कृषि	0.019	सुरेश चौधरी पिता राधाकान्त चौधरी
				1589	निजी	कृषि	0.006	जोगेश्वरी देवी पति स्व. लक्ष्मीकान्त ठाकुर
				1590	निजी	कृषि	0.046	जतीउन निशा पति अब्दुल रहमान
				1594	निजी	कृषि	0.006	हुकुमदेव यादव पिता रामशरण यादव
				1596	निजी	कृषि	0.002	विद्यानाथ साह पिता रघुनन्दन साह
				1697	निजी	कृषि	0.017	नशारा खातून पति नासीर
				1606	निजी	कृषि	0.150	अब्दुल कयूम पिता (मस्जीद का जमीन)
				1810	निजी	कृषि	0.003	गैबू निशा पति मो. दबीब
				2523	निजी	कृषि	0.002	अनवारुल पिता छेदी, हसन पिता मीर सलीम
				2037	निजी	कृषि	0.008	संदीप कुमार चौधरी पिता हृदय नारायण चौधरी
				2507	निजी	कृषि	0.017	जोगेश्वरी देवी पति लक्ष्मीकान्त चौधरी
				2038	निजी	कृषि	0.011	राजकुमार चौधरी पिता सुबोध कान्त चौधरी
				2039	निजी	कृषि	0.020	राम उदगार यादव पिता स्व. मंगन यादव
				2040	निजी	कृषि	0.023	राम उदगार यादव पिता स्व. मंगन यादव
				2041	निजी	कृषि	0.004	मखन लाल चौधरी एवं गोपी लाल चौधरी पिता कृष्ण लाल चौधरी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2042	निजी	कृषि	0.008	संजय यादव पिता प्रभु लाल यादव
				2044	निजी	कृषि	0.013	राम उदगार यादव पिता बच्चन यादव
				2046	निजी	कृषि	0.006	बिल्दु यादव पिता बच्चन यादव
				2058	निजी	कृषि	0.012	वैद्यनाथ यादव पिता रूपन यादव
				2060	निजी	कृषि	0.007	चन्द्र यादव पिता लक्ष्मी यादव
				2061	निजी	कृषि	0.004	वन्द यादव पिता लक्ष्मी यादव
				2063	निजी	कृषि	0.014	इन्द्रा देवी यादव पिता लक्ष्मी यादव
				2064	निजी	कृषि	0.011	अशरफ़ी यादव पिता लालधारी यादव
				2279	निजी	कृषि	0.025	पृथ्वी नारायण चौधरी पिता स्व. रंगगुलाम चौधरी
				2280	निजी	कृषि	0.017	पृथ्वी नारायण चौधरी पिता स्व. रंगगुलाम चौधरी
				2282	निजी	कृषि	0.006	राम सेवक माहतो पिता नथुनी माहतो
				2284	निजी	कृषि	0.009	मदनकान्त चौधरी पिता गुलाब चौधरी
				2286	निजी	कृषि	0.008	परमेश्वर साह पिता लक्ष्मी साह
				2288	निजी	कृषि	0.039	मुन्नी झा पिता काली कान्त झा
				2289	निजी	कृषि	0.001	शिवशंकर झा पिता बशिथ नारायण झा
				2319	निजी	कृषि	0.062	मुन्नी झा पिता काली कान्त झा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2321	निजी	कृषि	0.003	एन के सिंह
				2324	निजी	कृषि	0.045	पुरनचन्द्र प्रसाद पिता स्व. भरत प्रसाद लहेरी टोल पन्डौल
				2325	निजी	कृषि	0.047	अशोक कुमार साह पिता महेन्द्र साह
				2506	निजी	कृषि	0.112	रहमत अली पिता मीर आमन्त
				1184	निजी	कृषि	0.002	अशरफी पासवान पिता धुकी पासवान
				1072	निजी	कृषि	0.010	प्रदीप यादव पिता स्व. हरिनन्दन यादव
				1397	निजी	कृषि	0.117	राजकुमार पासवान पिता जीतन पासवान
				1607	निजी	कृषि	0.006	लक्ष्मी ठाकुर पिता कपिलेश्वर ठाकुर
				2322	निजी	कृषि	0.015	अशोक कुमार साह पिता महेन्द्र साह
				2323	निजी	कृषि	0.014	राजेन्द्र प्रसाद पिता स्व. सत्यदेव साह
				1526	निजी	कृषि	0.020	मो. जमलुद्दीन पिता हालीम
				1543	निजी	कृषि	0.010	बदरूल हक पिता मो. हालीम, संजय कुमार सिंह पिता राजकुमार सिंह
			(4) मोहनबढ़ियाम	1895	निजी	कृषि	0.001	विनोद साहू पिता स्व. रामदेव साह साकीम देहे
				2228	निजी	कृषि	0.009	कुसमा देवी पति गजाधर ठाकुर साकीम देहे
				2229	निजी	कृषि	0.009	पवित्री देवी पति मुनेश्वर ठाकुर साकीम देहे
				2230	निजी	कृषि	0.009	नारायण ठाकुर पिता देवदत्त ठाकुर साकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2231	निजी	कृषि	0.020	मुन्नी ठाकुर पिता नचुनी ठाकुर साकीम देहे
				2232	निजी	कृषि	0.020	उपेन्द्र ठाकुर मित्रा भोक्षम ठाकुर साकीम देहे
				2234	निजी	कृषि	0.022	बिबीद ठाकुर पिता भोक्षम ठाकुर साकीम देहे एवं मदत महासेठ
				2248	निजी	कृषि	0.004	बुट्टय ठाकुर
				2249	निजी	कृषि	0.003	बुट्टय ठाकुर
				2252	निजी	कृषि	0.012	सुनील ठाकुर पिता रामखेलवन ठाकुर साकीम देहे
				2251	निजी	कृषि	0.006	सुनील ठाकुर पिता रामखेलवन ठाकुर साकीम देहे
				2253	निजी	कृषि	0.026	राजकुमार ठाकुर पिता सीताराम ठाकुर साकीम देहे
				2425	निजी	कृषि	0.010	मो. रियाज पिता मोदलीम साकीम देहे
				2426	सरकारी	सड़क	0.010	बिहार सरकार
				2480	निजी	कृषि	0.032	हफीदुल हसन पिता मो. हारून साकीम देहे
				2481	सरकारी	गैर-कृषि	0.020	बिहार सरकार
				2526	सरकारी	सड़क	0.012	बिहार सरकार
				2981	सरकारी	कबिस्तान	0.065	बिहार सरकार
				2983	निजी	कृषि	0.012	मो. महमूद पिता मो. हसन साकीम देहे
				2985	निजी	गैर-कृषि	0.010	मुस्ताक अहमद पिता मो. हसन साकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2986	सरकारी	सड़क	0.022	बिहार सरकार
				2980	निजी	कृषि	0.004	पवित्री देवी पति मुनेश्वर ठाकुर साकीम देहे
				3017	निजी	कृषि	0.010	बदरी नारायण ठाकुर पिता अयोध्या नारायण ठाकुर साकीम देहे
				3025	निजी	कृषि	0.010	हरि नारायण सिंह पिता दरबारी सिंह
				3058	निजी	कृषि	0.004	योगेन्द्र साह एवं वैद्यनाथ साह एवं राम नारायण साह पिता बलदेव साह साकीम देहे
				3067	निजी	गैर-कृषि	0.012	महादेव साह पिता बिन्देश्वर साह एवं परमेश्वर पिता जगदीश साह साकीम देहे
				3025/38 87	निजी	कृषि	0.032	हरि नारायण सिंह पिता दरबारी सिंह साकीम देहे एवं शमीम आलम पिता समसुदीन ठाकुर साकीम देहे
				3077	निजी	गैर-कृषि	0.01	रामबाबु गुप्ता पिता कैलास गुप्ता
				3080	निजी	गैर-कृषि	0.006	मोजीबुल साह पिता मनीउल साह
				3081	निजी	गैर-कृषि	0.006	अब्दुल मजीद हजाम पिता इब्राहीम हजाम
				3082	निजी	गैर-कृषि	0.013	दसै यादव पिता जयलाल यादव
				3098	निजी	गैर-कृषि	0.017	सुखराम यादव पिता सीतय यादव
				3099	निजी	गैर-कृषि	0.029	भगवान यादव पिता बलदेव यादव, राम जुलुम यादव पिता भोला यादव
				3637	निजी	गैर-कृषि	0.005	सोहेल अहमद खान पिता अब्दुल रहमान खान, गंगा यादव पिता राम खेलावन यादव
				3647	निजी	गैर-कृषि	0.014	महीन्द्र यादव पिता मुनेश्वर यादव
				3650	निजी	गैर-कृषि	0.002	सफीउल्ला पिता कासीम
				2274	निजी	गैर-कृषि	0.015	राजकुमार ठाकुर पिता सीताराम ठाकुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2275	निजी	कृषि	0.003	मीर असगर अली पिता मीर कामजद
				2276	निजी	गैर-कृषि	0.001	वैद्यनाथ ठाकुर पिता बिन्देश्वर ठाकुर
				2280	निजी	कृषि	0.006	रामनारायण साह पिता बलदेव साह
				2453	निजी	कृषि	0.004	राम नारायण साह पिता बलदेव साह
				2454	निजी	कृषि	0.007	मुस्ताक अली पिता मीर अलामत
				2458	निजी	गैर-कृषि	0.011	सीमा देवी पति झरोखी साह
				2477	निजी	कृषि	0.023	बिल्दु साह पिता रघुनन्दन साह
				2479	निजी	कृषि	0.021	बिल्दु साह पिता रघुनन्दन साह
				3060	निजी	कृषि	0.002	जोगेन्द्र साह विद्यानाथ साह पिता बलदेव साह
				3061	निजी	गैर-कृषि	0.002	जोगेन्द्र साह एवं विद्यानाथ साह पिता बलदेव साह
				3078	निजी	गैर-कृषि	0.022	अरूण साह पिता सीताराम साह
				3987	निजी	गैर-कृषि	0.225	अरूण साह पिता सीताराम साह
				3020	निजी	कृषि	0.01	गंगा देवी पति नागेन्द्र ठाकुर
				3025	निजी	कृषि	0.004	हरिनारायण सिंह पिता दरबारी सिंह
				3026	निजी	कृषि	0.004	अमीम आलम पिता रामसुदीन
				3068	निजी	गैर-कृषि	0.021	बालगोविन्द साह पिता महावीर साह

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3076	निजी	गैर-कृषि	0.006	रामबाबु गुप्ता पिता कैलास साह
				1899	निजी	कृषि	0.027	रामबाबु गुप्ता पिता कैलास साह
				1940	निजी	कृषि	0.027	रामदाय देवी पति विनोद साह
				1941	निजी	कृषि	0.014	मदन कान्त चौधरी पिता गुलाब चौधरी
				1947	निजी	कृषि	0.026	गंगा यादव पिता रामखेलावन यादव
				1948	निजी	कृषि	0.005	गंगा यादव पिता रामखेलावन यादव
				1950	निजी	कृषि	0.015	किर प्रसाद पिता रामचन्द्र साह
				1951	निजी	कृषि	0.018	गुलाब देवी पति बुची ठाकुर
				1952	निजी	गैर-कृषि	0.039	गुलाब देवी पति बुची ठाकुर
				1953	निजी	कृषि	0.039	राम सेवक साह पिता प्रयाग साह
				2099	निजी	कृषि	0.002	श्री नाथ सिंह पिता राम धारी सिंह
				2100	निजी	गैर-कृषि	0.052	श्री नाथ सिंह पिता रामधारी सिंह
				2103	निजी	कृषि	0.01	कुसमा देवी पति गजाधर ठाकुर
				2104	निजी	कृषि	0.014	खुनाथ साह पिता द्वारीक साह
				2107	निजी	कृषि	0.004	पवित्री देवी पति मुनेश्वर ठाकुर
				2108	निजी	कृषि	0.012	पवित्री देवी पति मुनेश्वर ठाकुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2109	निजी	गैर—कृषि	0.012	पवित्री देवी पति मुनेश्वर ठाकुर
				2110	निजी	कृषि	0.011	विनोद सिंह पिता रामजतन सिंह
				2115	निजी	गैर—कृषि	0.026	शिवकुमार सिंह पिता जयकृष्ण सिंह
				2279	निजी	कृषि	0.025	सुनीनन्दन ठाकुर पिता दुधय ठाकुर
				2422	सरकारी	सड़क	0.009	बिहार सरकार
				2447	निजी	गैर—कृषि	0.011	अलाउद्दीन साह पिता युसूफ साह
				2448	निजी	गैर—कृषि	0.001	राम प्रसाद साह पिता जगदीश साह
				2452	निजी	गैर—कृषि	0.002	जमजान अली पिता आलम
				3651	निजी	कृषि	0.031	रैयल खातून पति मो. सुलेमान
				3906	निजी	कृषि	0.001	जौहर अली पिता अब्दुल वाहिद
				3636	सरकारी	सड़क	0.01	बिहार सरकार
				3021	निजी	गैर—कृषि	0.014	खुध ठाकुर पिता बुट्टय ठाकुर
				3079	निजी	गैर—कृषि	0.014	सत्तार साह पिता चन्दु साह
				2455	निजी	गैर—कृषि	0.009	छेदू साह पिता गंगा साह
				3889	सरकारी		0.007	बिहार सरकार
				1897	निजी	कृषि	0.003	मदन कान्त चौधरी पिता गुलाब चौधरी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1898	निजी	कृषि	0.001	मदन कान्त चौधरी पिता गुलाब चौधरी
				2588	निजी	कृषि	0.007	सुरील ठाकुर पिता राम नारायण ठाकुर
				2118	निजी	कृषि	0.009	सुरील ठाकुर पिता राम नारायण ठाकुर
			(5) सकुरी	63	निजी	गैर-कृषि	0.036	काररी शर्मा पिता धानुखी
				178	निजी	गैर-कृषि	0.008	अब्दानन्द चौधरी पिता रामबाबु चौधरी, बन्दा देवी पति विश्वनाथ प्रसाद केजरी बाबु, सफीना पति समसुल हक मो. सुबेर पिता मो. हुसैन
				1495	निजी	गैर-कृषि	0.080	मोतीउर रहमान पिता स्व. मो. कासीम साकीम देहे एवं हबीबुल रहमान पिता स्व. मो. कासीम साकीम देहे फुलबीबी पति स्व. मो. इशाक साकीम देहे एवं शौफुल निशा पिता स्व. आतुर रहमान साकीम देहे मो. शकीर पिता स्व. मो. खलील साकीम देहे रजिया आलम एवं मो. बारीक एवं मो. मुस्ताक एवं फकर आलम एवं मो. शमीम पिता स्व. मो. मुस्ताफ साकीम देहे मो. दाउद पिता अब्दुल लतीफ साकीम देहे
				1142		गैर-कृषि	0.108	रसिद हुसैन पिता स्व. हमीद हुसैन साकीम देहे एवं मो. आलम पिता अब्दुल आलम पिता स्व. मो. हाकीम साकीम देहे एवं अमीर साह पिता स्व. नजीर साह अमीर साह पिता स्व. नजीर साह एवं सरफुल इस्लाम पिता स्व. नुरुल इस्लाम साकीम देहे सरफुल इस्लाम पिता स्व. लरुल इस्लाम साकीम देहे एवं गुलाम रब्बानी एवं बसील खातुन पिता स्व. मो. कासीम एवं जौजे गुलाम रब्बानी साकीम देहे एवं शमी अख्तर जिलानी पिता स्व. मो. कासीम साकीम देहे एवं मो. जावेद पिता अब्दुल कलाम एवं रसीद हुसैन पिता स्व. हमीद हुसैन साकीम देहे एवं हैदर अली एवं अनवर अली एवं अशरफ अली मो. मुर्तजा एवं मो. शमशुज जामा एवं लदन मो. मोसीन मो. शरीफ आलम एवं स्व. मो. हबीब एवं सरफुल इस्लाम पिता स्व. नुरुल इस्लाम साकीम देहे
				1476		गैर-कृषि	0.032	रामौतार माहतो एवं मसोमात दुखी देवी पिता स्व. रामेश्वर माहतो एवं जौजे स्व. राविलास माहतो साकीम देहे, रामौतार माहतो रामौतार माहतो एवं मसोमात दुखी देवी पिता स्व. रामेश्वर माहतो एवं जौजे स्व. राविलास माहतो साकीम देहे, एवं लक्ष्मी माहतो पिता मुसा माहतो साकीम देहे एवं सुता माहतो पिता मुसा माहतो साकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1473		गैर-कृषि	0.012	अब्दुल रहमान पिता जाकीर
				1472		गैर-कृषि	0.024	बिन्देश्वर साह, पिता स्व. सरयुग साह साकीम देहे एवं मसोमात बिन्दा देवी जौजे स्व. चैतू साह माकी देहे
				1467	निजी	गैर-कृषि	0.048	हेसामुल हक पिता स्व. जीहारूल हक साकीम देहे हेसामुल हक पिता स्व. जिहारूल हक साकीम देहे एवं मो. कालीम एवं अबु शहीबा पिता स्व. जिहारूल हक साकीम देहे एवं गयासुद्दीन पिता स्व. जिहारूल हक साकीम देहे एवं सिधेश्वर साह पिता स्व. बासो साह साकीम देहे एवं अबु शाहिब पिता स्व. जिहारूल हक साकीम देहे
				1536	सरकारी	गैर-कृषि	0.020	बिहार सरकार
				1544	सरकारी	गैर-कृषि	0.016	बिहार सरकार
				1545	सरकारी	गैर-कृषि	0.016	बिहार सरकार
				1546	निजी	गैर-कृषि	0.008	रासो देवी पति शिवजी ठाकुर साकीम देहे एवं मसोमात सियाबिया पति स्व. भजन माहतो साकीम देहे एवं बिन्देश्वर माहतो पिता स्व. रामचन्द्र माहतो साकीम देहे एवं योगेन्द्र माहतो एवं काशी माहतो पिता स्व. रामप्रताप माहतो साकीम देहे एवं मसोमात तारा देवी पति स्व. रामचन्द्र माहतो साकीम देहे एवं योगेन्द्र माहतो एवं काशी माहतो पिता स्व. रामप्रताप माहतो
				1560	निजी	गैर-कृषि	0.026	मो. सियाबीया पति भजन माहतो बिन्देश्वर माहतो पिता रामचन्द्र माहतो, योगेन्द्र माहतो एवं काशी माहतो पिता राम प्रताप माहतो मो. तारा देवी पति राम चन्द्र माहतो मो. सीता देवी पति अशरफी माहतो
				1556	निजी	गैर-कृषि	0.008	मो. सियाबीया पति भजन माहतो
				1562	निजी	गैर-कृषि	0.018	योगेन्द्र माहतो एवं काशी माहतो पिता राम चन्द्र माहतो मो. तारा देवी पति रामचन्द्र माहतो मो. सीता देवी पति अशरफी माहतो
				1567	सरकारी	सड़क	0.006	बिहार सरकार
				1568	निजी	गैर-कृषि	0.011	सीमा कुमारी पति विनोद प्रसाद

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1569	निजी	गैर-कृषि	0.010	कुन्तला देवी पति रामचन्द्र प्रसाद
				1570	निजी	गैर-कृषि	0.018	नथुनी चौधरी पिता बिलट चौधरी
				1572	निजी	गैर-कृषि	0.027	गंगा देवी पति दुखहरण चौधरी सुदर्शन चौधरी पिता मिश्री लाल चौधरी जागेश्वरी देवी पति विश्वनाथ चौधरी
				1571	निजी	गैर-कृषि	0.008	सीमा कुमारी पति विनोद प्रसाद, विनोद प्रसाद पिता सुकदेव चौधरी
				1574	निजी	गैर-कृषि	0.024	जागेश्वरी देवी पति विश्वनाथ चौधरी शिव कुमार गिरी पिता मिश्री लाल गिरी शीला देवी पति रामस्वरूप साह
				1607	निजी	गैर-कृषि	0.029	दुखी साह एवं मसोमात उरिया देवी पिता स्व. भुट्टु साह एवं जौजे स्व. जामुन साह साकीम देहे दुखी साह एवं मसोमात उरिया देवी पिता भुट्टु साह एवं जौजे स्व. जामुन साह साकीम देहे एवं कुसुम देवी पति स्व. रामखेलावन साह साकीम देहे फोजैल अहमद पिता वाल्ट मो. शफी मरहुम साकीम देहे
				1606	निजी	गैर-कृषि	0.024	जसोन देवी पिता पति स्व. रामचन्द्र साह साकीम देहे बिहार सरकार मो. युनुस पिता स्व. इसाक साकीम देहे मो. युनुस पिता स्व. इसाक साकीम देहे
				1575	निजी	गैर-कृषि	0.069	मो. युनुस पिता स्व. मो. इशाक, मो. सब्बीर पिता रहमान अशरफी खातून पति मो. अकबर एवं मो. परवेज पिता मो. सुभान
				1687	निजी	गैर-कृषि	0.044	मो. अशरफ अली पिता अब्दुल हाकीम मीणा खातून पति मो. जुबेर मो. मुर्तजा पिता स्व. छेदी साकीम देहे
				1695	निजी	गैर-कृषि	0.031	रामबहादुर दास पिता स्व. नथुनी दास साकीम देहे प्रमीला देवी पति बाबुलाल राम साकीम देहे
				1700	निजी	गैर-कृषि	0.006	अमीना खातून पति मो. जुबेर साकीम देहे
				2002	निजी	गैर-कृषि	0.005	अब्दुल सत्तार पिता मो. इनूस
				2027	निजी	गैर-कृषि	0.023	मो. नेयाजुद्दीन पिता मो. मुस्तफा साकीम देहे
				2034	निजी	गैर-कृषि	0.004	मसुधन एवं मो. आलम पिता स्व. उस्मान साकीम देहे
				2035	निजी	गैर-कृषि	0.004	मुसभान एवं मो. आलम पिता स्व. उस्मान साकीम देहे
				2215	निजी	गैर-कृषि	0.030	निभा देवी पति स्व. विनीत सिंह साकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2216	निजी	गैर-कृषि	0.056	वैद्यनाथ साह पिता स्व. बौकू साह साकीम देहे एवं अनुज कुमार सिंह पिता स्व. गया प्रसाद सिंह साकीम देहे एवं बलेश्वर सिंह पिता स्व. खुबलाल सिंह साकीम देहे पप्पु सिंह पिता स्व. विन्देश्वर सिंह साकीम देहे बनारसी साह मिश्र स्व. शौकू साह साकीम देहे
				2218	निजी	गैर-कृषि	0.017	ललन सिंह पिता स्व. समचन्द्र सिंह साकीम देहे को-ऑपरेटिव बैंक
				2854	निजी	गैर-कृषि	0.007	ललन सिंह पिता स्व. रामचन्द्र सिंह साकीम देहे को-ऑपरेटिव बैंक
				2512	निजी	गैर-कृषि	0.024	राम साह पिता कपिलेश्वर साह साकीम देहे
				2508	निजी	गैर-कृषि	0.016	ललन सिंह पिता स्व. समचन्द्र सिंह साकीम देहे को-ऑपरेटिव बैंक
				3590	निजी	गैर-कृषि	0.024	राम साह पिता कपिलेश्वर साह साकीम देहे
				3826	सरकारी	सड़क	0.024	बिहार सरकार
				3794	निजी	गैर-कृषि	0.146	रामप्रकाश यादव पिता रामोतार यादव साकीम देहे एरीगेशन, मो. तारिक पिता अज्ञात साकीम देहे
				3770	निजी	गैर-कृषि	0.074	मो. मोईन पिता हैनुल हक साकीम देहे
				3711	निजी	गैर-कृषि	0.195	वैद्यनाथ साह पिता स्व. मोती यादव साकीम देहे रामसेवक यादव पिता स्व. मोती यादव साकीम देहे
				3747	निजी	गैर-कृषि	0.128	वैद्यनाथ यादव पिता स्व. मोती यादव साकीम देहे रामसेवक यादव पिता स्व. मोती यादव साकीम देहे
				143	निजी	गैर-कृषि	0.002	गयास अहमद पिता वसीर अहमद
				144	निजी	गैर-कृषि	0.05	मो. आलम पिता मो. इदरीस गनीर मंडल पिता जोखन मंडल मो. मुल्मान पिता मो. शाहीद मो. निजाम पिता हाजीद मो. ज़क़्क़ात एवं मो. अशाफ़ाक़ एवं मो. अब्बास पिता मो. जाफ़ीर
				1141	निजी	गैर-कृषि	0.019	सफ़ुल रहमान पिता नुरूल इस्लाम मो. कारी साहब (इमाम) खालीद हुसैन पिता जाहीद हुसैन अरजुमन्द हुसैन पिता शाहीद हुसैन
				1346	निजी	गैर-कृषि	0.035	मोज़ाहीदा खातून पति मो. उमर जैउल हक पिता नज़रूल हक बीबी फ़िरोज़ खातून पति मो. मंज़ूर मो. मिनत पिता बदरूल मो. आलम पिता इदरीस मो. शाबीर पिता वाजुल हक हसमत अली एवं नियामत अली पिता बदरूल हक

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1348	निजी	गैर-कृषि	0.036	बीबी नूरजहां पति हातीम हबीब अनसारी पिता अब्दुल अनसारी मो. साकीर पिता मो. अब्दुल करीम
				1533	निजी	गैर-कृषि	0.004	रामोतार माहतो पिता रामेश्वर माहतो
				1535	निजी	गैर-कृषि	0.008	फुलेन्द्र माहतो मिश्रा पितास सहदेव मिश्रा
				1868	निजी	गैर-कृषि	0.05	रामनारायण ठाकुर पिता गोविन्द ठाकुर कैला साहू पिता नथुनी नायक
				1867	निजी	गैर-कृषि	0.121	शिवा दास पिता मटुक दास
				1864	निजी	गैर-कृषि	0.037	मो. निजामुद्दीन पिता मो. कासीम
				1685	निजी	गैर-कृषि	0.102	गौरी शंकर ठाकुर एवं संजय ठाकुर पिता राम सेवक ठाकुर अब्दुल कयूम एवं अब्दुल कलम पिता शेख नथुनी मो. आसिक पिता शेख छेदी अब्दुल हाकीम पिता शेख नथुनी
				1686	निजी	गैर-कृषि	0.019	परमेश्वर साहू पिता बौकू साहू रामचन्द्र साहू पिता छट्टु साहू
				1688	निजी	गैर-कृषि	0.019	मो. अशरफ पिता मो. हाकीम
				1697	निजी	गैर-कृषि	0.057	मो. अब्दुल पिता मो. हसनेन प्रमोला देवी पति बाबुलाल राम
				1701	निजी	गैर-कृषि	0.004	अमीना खातून पति मो. जुबेर साकीम देह, मो. अयूब पिता लायफ
				1703	निजी	गैर-कृषि	0.003	मो. युनुस पिता स्व. मो. इशाक अब्दुल हाकीम पिता शेख नथुनी
				1704	निजी	गैर-कृषि	0.017	मो. इसरायल पिता मो. मुस्लीम अब्दुल हाकीम पिता शेख नथुनी
				2026	निजी	गैर-कृषि	0.005	कैलास दास पिता हीरा दास
				2033	निजी	गैर-कृषि	0.053	कैलास दास पिता हीरा दास
				2036	निजी	गैर-कृषि	0.003	मो. सुभान एवं मो. आलम पिता मो. उस्मान

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2037	निजी	गैर—कृषि	0.01	मो. सुभान एवं मो. आलम पिता मो. उस्मान
				2038	निजी	गैर—कृषि	0.025	अरजुमान हुसैन पिता शाहीद हुसैन
				2039	निजी	गैर—कृषि	0.022	अरजुमान हुसैन पिता शाहीद हुसैन
				1997	निजी	गैर—कृषि	0.015	रसीद हुसैन पिता हामीद हुसैन अरजुमान हुसैन पिता शाहीद हुसैन
				2147	निजी	गैर—कृषि	0.058	अम्बार बाबू
				2152	निजी	गैर—कृषि	0.003	रसीद हुसैन पिता हामीद हुसैन
				2153	निजी	गैर—कृषि	0.003	अशफाक हुसैन पिता इस्माईल
				2154	निजी	गैर—कृषि	0.01	अशफाक हुसैन पिता इस्माईल
				2214	निजी	गैर—कृषि	0.044	दिलीप सिंह पिता महेन्द्र सिंह
				2306	निजी	गैर—कृषि	0.043	अशफाक हुसैन पिता इस्माईल
				2307	निजी	गैर—कृषि	0.034	अशफाक हुसैन पिता इस्माईल
				2308	निजी	गैर—कृषि	0.072	भोला ठाकुर पिता उचीत ठाकुर वैद्यनाथ साह पिता बौकू साह
				2311	सरकारी	सड़क	0.008	बिहार सरकार
				2343	निजी	गैर—कृषि	0.013	इन्द्र नारायण सिंह पिता लक्ष्मी नारायण सिंह व अन्य
				2520	निजी	गैर—कृषि	0.019	रामेश्वर ठाकुर पिता उचीत ठाकुर
				2510	निजी	गैर—कृषि	0.055	बोलेश्वर सिंह पिता खुबलाल एवं अन्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2508	निजी	गैर-कृषि	0.226	फयाज आजम पिता फारूक आजम
				2656	निजी	गैर-कृषि	0.029	रबीन्द्र सिंह पिता गंगा सिंह
				2621	निजी	गैर-कृषि	0.046	इन्द्र नारायण सिंह पिता लक्ष्मी नारायण सिंह व अन्य
				2643	निजी	गैर-कृषि	0.219	रामचन्द्र मुखिया पिता बुद्धू मुखिया
				2645	निजी	गैर-कृषि	0.211	मो. अनवर
				2648	निजी	गैर-कृषि	0.009	मो. अनवर
				2650	निजी	गैर-कृषि	0.01	कामेश्वर साहनी पिता रामचन्द्र साहनी, अमरेन्द्र ठाकुर पिता दौरीका ठाकुर
				3583	निजी	गैर-कृषि	0.05	रामचन्द्र साह पिता मोती साह
				3580	सरकारी	कृषि	0.013	बिहार सरकार
				3589	निजी	गैर-कृषि	0.545	रामसागर यादव पिता रामवृक्ष यादव एवं अन्य
				3795	निजी	गैर-कृषि	0.011	रामवृक्ष यादव पिता रामौतार यादव एवं अन्य
				3786	निजी	गैर-कृषि	0.124	बिलट्टु यादव पिता नुनू यादव एवं अन्य
				3769	निजी	गैर-कृषि	0.107	उपेन्द्र यादव पिता शीतल यादव एवं अन्य
				3712	निजी	गैर-कृषि	0.095	उपेन्द्र यादव पिता शीतल यादव एवं अन्य
				3713	निजी	गैर-कृषि	0.111	उगनाथ यादव पिता जलधारी यादव
				3715	निजी	गैर-कृषि	0.001	उगनाथ यादव पिता जलधारी यादव

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3709	निजी	गैर—कृषि	0.131	राम सेवक यादव पिता मोती यादव
				1866	निजी	गैर—कृषि	0.198	मो. निजामुद्दीन पिता मो. कासीम
				2146	निजी	गैर—कृषि	0.021	अम्बर बाबू
				2347	निजी	गैर—कृषि	1.328	अर्जुन सिंह पिता बहादुर सिंह
				2543	निजी	गैर—कृषि	0.034	इन्द्र नारायण सिंह पिता लक्ष्मी नारायण सिंह
				2619	सरकारी	सड़क	0.115	बिहार सरकार
				1532	निजी	गैर—कृषि	0.014	मो. शकीर पिता खलील
				3612	निजी	गैर—कृषि	0.406	रामसागर यादव पिता रामवृक्ष यादव
				3613	निजी	गैर—कृषि	0.046	रामसागर यादव पिता रामवृक्ष यादव
				3614	निजी	गैर—कृषि	0.198	लखन लाल यादव पिता विजय यादव मो. तारिक पिता मो. एजाज अहमद
				2301	निजी	गैर—कृषि	0.026	नागेश्वर साह पिता राम प्रसाद साह
				2302	निजी	गैर—कृषि	0.012	नागेश्वर साह पिता राम प्रसाद साह
				2303	निजी	गैर—कृषि	0.035	बीबी नूरजहाँ पति हातीम हबीब अनसारी पिता अब्दुल अनसारी मो. साकीर पिता मो. अब्दुल करीम
				2541	निजी	गैर—कृषि	0.017	पुष्कान्त गिरी पिता लक्ष्मी गिरी
				2511	निजी	गैर—कृषि	0.048	फैयाज आजम पिता फारूक आजम
				3581	निजी	गैर—कृषि	0.105	मो. इलियास पिता मो. सिराजुल

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2840	निजी	गैर-कृषि	0.032	भुवनकान्त गिरी पिता लक्ष्मी गिरी
			(6) बहेगवा	26	सरकारी	सड़क	0.024	बिहार सरकार
				64	निजी	कृषि	0.055	सतोष एवं निबलेश यादव पिता वैद्यनाथ यादव
				73	निजी	कृषि	0.014	रामाशीष यादव पिता प्रेम लाल यादव
				88	निजी	कृषि	0.200	सौदागर यादव पिता मधुकर यादव
				76	निजी	कृषि	0.026	सौदागर यादव पिता मधुकर यादव
				16	निजी	कृषि	0.003	कल्लर मंडल पिता मुनी मंडल रामाशीष यादव पिता प्रेम लाल यादव
				17	निजी	कृषि	0.102	रामचन्द्र मोची एवं उमेश राम पिता बाबू लाल राम जगेश्वर राम एवं सिधेश्वर राम पिता बिहारी राम
				25	निजी	कृषि	0.005	किंकर यादव पिता शिव नारायण यादव एवं अन्य
				26	निजी	कृषि	0.199	पवन यादव एवं राजेश्वर यादव एवं अन्य
				78	निजी	कृषि	0.077	सौदागर यादव पिता मधुकर यादव
				83	निजी	कृषि	0.012	काशी यादव पिता रामेश्वर यादव एवं अन्य
				77	निजी	कृषि	0.041	सौदागर यादव पिता मधुकर यादव
				74	निजी	कृषि	0.083	मोहन यादव पिता चक्रितर यादव सौदागर यादव पिता मधुकर यादव
				92	निजी	कृषि	0.02	सौदागर यादव पिता मधुकर यादव
				94	निजी	कृषि	0.045	सौदागर यादव पिता मधुकर यादव

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				96	निजी	कृषि	0.016	सौदागर यादव पिता मधुकर यादव
				97	निजी	कृषि	0.013	सीताराम दास पिता स्वामी गंगा दास
				98	निजी	कृषि	0.009	विश्वनाथ मंडल पिता दामोदर मंडल
			(7) सरसो	5655	निजी	कृषि	0.040	नगेश्वर झा एवं इन्द्रदेव झा पिता टुलन्त लाल झा एवं रामेश्वर झा
				5656	निजी	कृषि	0.068	इन्द्रदेव झा पिता रामेश्वर झा
				5668	सरकारी	सड़क	0.060	बिहार सरकार
				5707	निजी	कृषि	0.004	गणेश मिश्रा पिता राम नाथ मिश्रा
				5706	निजी	कृषि	0.015	भोला मंडल एवं बेछनी देवी पिता विश्वनाथ मंडल
				5709	निजी	कृषि	0.116	नारायण झा पिता मोदानन्द झा धकान भंडारी पिता किशन भंडारी
				5657	निजी	कृषि	0.183	योगानन्द झा पिता पुनी नाथ झा मदन राउत पिता बौआन राउत
				5660	निजी	कृषि	0.183	गणेश मिश्रा पिता राम नाथ मिश्रा
				5667	निजी	कृषि	0.200	योगानन्द झा पिता पुनी नाथ झा मदन राउत पिता बौआन राउत
				5708	निजी	कृषि	0.083	कुनवर चौधरी पिता राजेन्द्र चौधरी
		(2) झंझारपुर	(1) खड़क	15	सरकारी	सड़क	0.048	बिहार सरकार
				37	निजी	कृषि	0.008	छीतन मंडल पिता स्व. छेदी मंडल
				99	निजी	कृषि	0.022	देवीनाथ मिश्रा पिता स्व. शशीनाथ मिश्रा साकोम पाही

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				98	निजी	कृषि	0.030	देवीनाथ मिश्रा पिता स्व. राशीनाथ मिश्रा साकीम पाही
				239	निजी	कृषि	0.008	सुखल साहू पिता स्व. गोविन्द साहू साकीम-पाही
				482	सरकारी	सड़क	0.040	बिहार सरकार
				952	निजी	कृषि	0.004	रामप्रसाद साह पिता रघुनाथ साह साकीम पाही
				1075	निजी	कृषि	0.038	राशीनाथ मिश्रा पिता योगी मिश्रा
				1077	निजी	कृषि	0.042	रामविलास साह पिता नेबालाल साह प्रभु लाल साह पिता जगरनाथ साह
				1078	निजी	कृषि	0.020	हर्षनाथ मिश्रा पिता नितीन नाथ मिश्रा
				1079	निजी	कृषि	0.058	हर्षनाथ मिश्रा पिता नितीन नाथ मिश्रा
				1194	निजी	कृषि	0.028	कृपानाथ मिश्रा पिता प्रीतिनाथ मिश्रा
				1195	निजी	कृषि	0.008	नारायण मिश्रा पिता स्व. ताराकान्त मिश्रा
				1229	निजी	कृषि	0.010	नारायण मिश्रा पिता स्व. ताराकान्त मिश्रा
				1230	निजी	कृषि	0.012	नारायण मिश्रा पिता स्व. ताराकान्त मिश्रा
				1231	निजी	कृषि	0.049	जीबु झा पिता श्रीनाथ झा, वैद्यनाथ झा पिता उपेन्द्र झा साकीम-पाही
				1242	निजी	कृषि	0.032	अश्वनी कुमार एवं नीवन कुमार झा पिता स्व. अनिरुद्ध झा
				1243	निजी	कृषि	0.028	बिनोद झा पिता लक्ष्मी झा
				1276	निजी	कृषि	0.018	चन्दरेखा देवी पति कामदाचरण झा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1288	निजी	कृषि	0.018	लुटन मिश्रा एवं रामचन्द्र मिश्रा पिता स्व. बृन्दावन मिश्रा
				1679	सरकारी	सड़क	0.012	बिहार सरकार
				1700	निजी	कृषि	0.016	भगवान जी झा पिता स्व. मन्मथेश्वर झा
				1709	सरकारी	सड़क	0.012	बिहार सरकार
				1710	सरकारी	सड़क	0.006	बिहार सरकार
				1715	सरकारी	सड़क	0.004	बिहार सरकार
				1839	सरकारी	बैरियर	0.020	बिहार सरकार
				1853	सरकारी	बैरियर	0.075	बिहार सरकार
				1843	निजी	कृषि	0.034	योगनाथ मिश्रा पिता स्व. ललितनाथ मिश्रा
				1792	निजी	कृषि	0.008	त्रिबुद्धनाथ मिश्रा पिता कामोद नाथ मिश्रा
				1765	निजी	कृषि	0.040	मोहन कामती पिता स्व. विश्वेश्वर कामती
				2151	सरकारी	सड़क	0.006	बिहार सरकार
				2153	निजी	कृषि	0.010	रामप्रसाद साह पिता स्व. सुखदेव साह साकीम—पाही मिश्रीलाल साह एवं मनय साह पिता स्व. डोमू साह
				2154	निजी	कृषि	0.004	रामप्रसाद साह पिता स्व. सुखदेव साह साकीम—पाही
				2155	निजी	कृषि	0.002	भुन्नान साह पिता स्व. शान्ती साह
				2379	सरकारी	नाला	0.012	बिहार सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2366	निजी	कृषि	0.216	शिवज्योतनि देवी पति जगदीश साह
				1073	निजी	कृषि	0.004	रामप्रसाद साह पिता स्व. सुखदेव साह साकीम-पाही
				1074	निजी	कृषि	0.008	मोहन कामती पिता स्व. विशेषर कामती
				1059	निजी	कृषि	0.002	कृपानाथ मिश्रा पिता काली नाथ मिश्रा
				1196	निजी	कृषि	0.008	प्रबोनाथ मिश्रा पिता मतवीर मिश्रा
				1269	निजी	कृषि	0.004	कामनाथ मिश्रा पिता मतीवर मिश्रा
				18	निजी	कृषि	0.002	प्रबोनाथ मिश्रा पिता मतवीर मिश्रा
				25	निजी	कृषि	0.004	कृपानाथ मिश्रा पिता काली नाथ मिश्रा
				21	निजी	कृषि	0.003	महेश चौधरी पिता जयकान्त चौधरी
				22	निजी	कृषि	0.022	डमरूनाथ मिश्रा पिता उपेन्द्रनाथ मिश्रा
				23	निजी	कृषि	0.008	कामनाथ मिश्रा पिता मतीवर मिश्रा
				26	निजी	कृषि	0.086	विजय नाथ मिश्रा पिता सचीनाथ मिश्रा
				39	निजी	कृषि	0.005	देवीनाथ मिश्रा पिता स्व. शशीनाथ मिश्रा
				19	निजी	कृषि	0.003	ठाकुर नाथ मिश्रा पिता इन्दु नाथ मिश्रा
				231	निजी	कृषि	0.001	योगनाथ मिश्रा पिता काहिरनाथ मिश्रा
				894	निजी	कृषि	0.006	पंकज कुमार मिश्रा पिता हरिश्चन्द्र मिश्रा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				895	निजी	कृषि	0.004	प्रभु साह पिता रघुनाथ साह
				196	निजी	कृषि	0.139	देवीनाथ मिश्रा पिता शशीनाथ मिश्रा
				197	निजी	कृषि	0.008	देवीनाथ मिश्रा पिता शशीनाथ मिश्रा
				207	निजी	कृषि	0.004	देवीनाथ मिश्रा पिता शशीनाथ मिश्रा
				209	निजी	कृषि	0.003	धर्मनाथ मिश्रा पिता इन्दुनाथ मिश्रा
				210	निजी	कृषि	0.051	धर्मनाथ मिश्रा पिता इन्दुनाथ मिश्रा
				211	निजी	कृषि	0.067	धर्मनाथ मिश्रा पिता इन्दुनाथ मिश्रा
				212	निजी	कृषि	0.043	धर्मनाथ मिश्रा पिता इन्दुनाथ मिश्रा
				213	निजी	कृषि	0.001	मधुकान्त मिश्रा पिता टोनी मिश्रा
				214	निजी	कृषि	0.004	बुल्लय मंडल पिता मुनी मंडल
				15	सरकारी	सड़क	0.009	बिहार सरकार
				16	निजी	कृषि	0.013	उदय मिश्रा पिता प्रीपतिनाथ मिश्रा
				227	निजी	कृषि	0.008	उदय मिश्रा पिता प्रीपतिनाथ मिश्रा
				228	निजी	कृषि	0.013	सुखल साहू पिता स्व. गोविन्द साहू साकीम-पाही
				229	निजी	कृषि	0.006	राजेन्द्र मंडल पिता जगदीश मंडल
				230	निजी	कृषि	0.006	सुखल साहू पिता स्व. गोविन्द साहू साकीम-पाही

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				233	निजी	कृषि	0.001	अमरनाथ मिश्रा पिता काशी नाथ मिश्रा
				235	निजी	कृषि	0.027	लेखनाथ मिश्रा पिता राशीनाथ मिश्रा
				236	निजी	कृषि	0.006	प्रेमनाथ मिश्रा पिता बुद्धिनाथ मिश्रा
				900	निजी	कृषि	0.007	झरिका नाथ झा पिता सीताराम झा
				920	निजी	कृषि	0.010	नन्द कुमार कामती पिता जीवछ कामती
				921	निजी	कृषि	0.015	गुलिया देवी पति छोटही कामती
				919	निजी	कृषि	0.008	विभूति नाथ झा
				923	निजी	कृषि	0.008	शिव कुमार कामती पिता जीवछ कामती
				931	निजी	कृषि	0.016	जीवछ कामती पिता राम लाल कामती
				932	निजी	कृषि	0.004	जीवछ कामती पिता राम लाल कामती
				934	निजी	कृषि	0.041	छोटही कामती पिता राम लाल कामती
				935	निजी	कृषि	0.007	जगदीश कामती पिता राम लाल कामती
				937	निजी	कृषि	0.005	सुखल साहू पिता स्व. गोविन्द साहू साकीम-पाही
				944	निजी	कृषि	0.128	उदयनाथ झा एवं हीरनाथ झा पिता गिरमोट झा
				945	निजी	कृषि	0.019	सातो प्रसाद गुप्ता पिता शिवशंकर प्रसाद गुप्ता एवं अन्य
				946	निजी	कृषि	0.009	राधे प्रसाद गुप्ता पिता रामोतार प्रसाद गुप्ता

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				947	निजी	कृषि	0.009	राधे प्रसाद गुप्ता पिता रामौतार प्रसाद गुप्ता
				948	निजी	कृषि	0.008	जगदीश फातमी पिता रामलाल फातमी
				918	निजी	कृषि	0.030	शिवू चौधरी पिता वैद्यनाथ चौधरी
				950	निजी	कृषि	0.021	राधे प्रसाद गुप्ता पिता रामौतार प्रसाद गुप्ता
				951	निजी	कृषि	0.010	रामेश्वर साह पिता रघुनाथ साह
				922	निजी	कृषि	0.011	गुलिया देवी पति छोटही कातती
				965	निजी	कृषि	0.006	रामविलास साह पिता नेबालाल साह
				966	निजी	कृषि	0.007	रामविलास साह पिता नेबालाल साह
				970	निजी	कृषि	0.007	जगदीश साह पिता शिवलाल साह
				983	निजी	कृषि	0.201	भेषनाथ मिश्रा पिता शशीनाथ मिश्रा
				984	निजी	कृषि	0.011	प्रेमनाथ मिश्रा पिता बुद्धिनाथ मिश्रा
				985	निजी	कृषि	0.005	प्रेमनाथ मिश्रा पिता बुद्धिनाथ मिश्रा
				986	निजी	कृषि	0.012	नारायण चौधरी पिता स्वरूप चौधरी
				987	निजी	कृषि	0.066	राधे प्रसाद गुप्ता पिता रामौतार प्रसाद गुप्ता
				988	निजी	कृषि	0.043	राधे प्रसाद गुप्ता पिता रामौतार प्रसाद गुप्ता
				989	निजी	कृषि	0.005	बुद्धिनाथ मिश्रा पिता काली नाथ मिश्रा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				933	निजी	कृषि	0.006	जगदीश कामती पिता राम लाल कामती
				936	निजी	कृषि	0.012	मुनेश्वर कामती पिता बुचय कामती
				949	निजी	कृषि	0.348	राधे प्रसाद गुप्ता पिता रामीतार प्रसाद गुप्ता
				956	निजी	कृषि	0.024	रामविलास साह पिता नेबालाल साह
				969	निजी	कृषि	0.013	महेन्द्र साह पिता विश्वनाथ साह
				1244	निजी	कृषि	0.025	महेन्द्र साह पिता विश्वनाथ साह
				1245	निजी	कृषि	0.010	गंगानाथ झा पिता रामाकान्त झा
				1246	निजी	कृषि	0.045	अजीत कुमार मिश्रा पिता अनमोल मिश्रा
				1279	निजी	कृषि	0.044	अजीत कुमार मिश्रा पिता अनमोल मिश्रा
				1282	निजी	कृषि	0.026	बिन्दु बाबु झा पिता किरण झा
				1272	निजी	कृषि	0.013	नारायण ठाकुर पिता सतन ठाकुर
				1273	निजी	कृषि	0.037	किशोर कुमार मिश्रा पिता विद्याधर मिश्रा
				1325	निजी	कृषि	0.026	गंगानाथ झा पिता रामाकान्त झा
				1326	निजी	कृषि	0.039	गंगानाथ झा पिता रामाकान्त झा
				1327	निजी	कृषि	0.024	गंगानाथ झा पिता रामाकान्त झा
				1328	निजी	कृषि	0.028	गंगानाथ झा पिता रामाकान्त झा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1008	निजी	कृषि	0.005	धीरनाथ मिश्रा पिता भवनाथ मिश्रा
				1009	निजी	कृषि	0.002	प्रमोद मंडल पिता तनुलाल मिश्रा
				1776	निजी	कृषि	0.026	रतिश्वर झा पिता शिवेश्वर झा
				1780	निजी	कृषि	0.032	अरूण मिश्रा पिता महाकान्त मिश्रा
				1789	सरकारी	गैर—कृषि	0.005	बिहार सरकार
				1791	निजी	कृषि	0.024	विजय चौधरी पिता रूपल चौधरी
				1558	निजी	कृषि	0.024	मीणा कुमार मिश्रा पिता विद्याधर मिश्रा
				1554	निजी	कृषि	0.051	मीण मिश्रा पति अरूण कुमार मिश्रा
				1555	निजी	कृषि	0.007	मीणा कुमार मिश्रा पति अरूण कुमार मिश्रा
				2332	निजी	कृषि	0.014	जीवनाथ मिश्रा पिता जिसनुनाथ मिश्रा
				1557	निजी	कृषि	0.012	लूटन ठाकुर पिता मिश्रीलाल ठाकुर
				1711	निजी	कृषि	0.015	छोटही कामती पिता दर्शन कामती कामती
				1713	सरकारी		0.042	बिहार सरकार
				1714	सरकारी		0.008	बिहार सरकार
				1764	निजी	कृषि	0.014	जिवनाथ मिश्रा पिता जिसनुनाथ मिश्रा
				1766	निजी	कृषि	0.027	छोटही कामती पिता दर्शन कामती

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1243	निजी	कृषि	0.018	विनोद झा पिता लक्ष्मी झा
				208	निजी	कृषि	0.008	विनोद झा पिता लक्ष्मी झा
			(2) लोहना	1551	निजी	कृषि	0.008	लुटन कामती एवं पृथ्वी कामती पिता स्व. सोनी कामती एवं स्व. जनक कामती साकीम देहे
				1540	निजी	गैर-कृषि	0.004	सोधन कामती पिता स्व. ठककर कामती साकीम देहे
				1527	निजी	गैर-कृषि	0.016	सोधन कामती पिता स्व. ठककर कामती साकीम देहे मोहन कामती एवं बछय कामती
				1528	निजी	कृषि	0.006	कमक कामती पिता स्व. जोगीन्द्र कामती साकीम देहे
				1524	निजी	कृषि	0.001	बछय कामती पिता स्व. वैद्यनाथ कामती
				1342	निजी	कृषि	0.036	सहदेव कामती एवं अशरफी कामती पिता स्व. मोती कामती साकीम देहे सुन्दर कामती एवं राजू कामती पिता स्व. फेकन कामती एवं स्व. केसरी कामती
				1341	निजी	कृषि	0.002	सहदेव कामती एवं अशरफी कामती पिता स्व. मोती कामती साकीम देहे
				1340	निजी	कृषि	0.007	सहदेव कामती एवं अशरफी कामती पिता स्व. मोती कामती साकीम देहे
				1337	निजी	कृषि	0.028	प्रकाश मिश्रा मौजे खदरख
				1335	निजी	गैर-कृषि	0.024	शिवलाल साह पिता बछय साह साकीम देहे
				1332	निजी	कृषि	0.079	सुन्दर कामती एवं राजेन्द्र कामती पिता स्व. फेकन कामती एवं स्व. केसरी कामती श्याम सुन्दर कामती पिता बछय कामती साकीम देहे राम प्रसाद साह पिता स्व. सोनी साह साकीम देहे
				1328	निजी	कृषि	0.024	इन्द्रनाथ मिश्रा पिता हरeram मिश्रा
				1369	सरकारी	नाला	0.001	बिहार सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1323	निजी	कृषि	0.024	जयलाल राय पिता जगत राय
				5270	सरकारी	सड़क	0.004	बिहार सरकार
				1324	निजी	कृषि	0.020	हरिश्चकर चौधरी पिता जगमोहन चौधरी
				1322	निजी	कृषि	0.016	बिजू झा पिता दिनेश झा
				1093	निजी	कृषि	0.044	रूपन कामती पिता छीतन कामती साकीम—देहे राजेन्द्र कामती पिता स्व. केसरी कामती साकीम देहे अरूण कुमार एवं तरुण कुमार पिता अशरफी कामती एवं सहदेव कामती साकीम देहे
				1321	निजी	कृषि	0.012	बिजू झा पिता दिनेश झा
				1305	निजी	कृषि	0.002	बिजू झा पिता दिनेश झा
				1299	निजी	कृषि	0.002	बिजू झा पिता दिनेश झा
				1304	निजी	कृषि	0.002	बिजू झा पिता दिनेश झा
				1303	निजी	कृषि	0.002	बिजू झा पिता दिनेश झा
				1322	निजी	कृषि	0.018	बीणु झा पिता स्व. दिनेश झा साकीम देहे
				4312	निजी	गैर—कृषि	0.022	योगेन्द्र लाल कामती पिता स्व. अनुप कामती साकीम—देहे
				4282	सरकारी	सड़क	0.004	बिहार सरकार
				4039	सरकारी	नहर	0.016	बिहार सरकार
				4029	निजी	गैर—कृषि	0.004	बीकु मुखिया पिता स्व. मंगल मुखिया साकीम देहे
				4024	निजी	गैर—कृषि	0.024	रघुनन्दन साह पिता स्व. बीकू साह साकीम देहे नथुनी साह पिता स्व. पिता स्व. रामखेलावन साह साकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4022	निजी	गैर—कृषि	0.008	बिहार सरकार जीतन साह एवं लक्ष्मण साह पिता स्व. भक्तीनाथ झा एवं स्व. कालनाथ झा साकीम देहे
				4021	निजी	गैर—कृषि	0.006	नथुनी साह पिता स्व. रामखेलावन साह साकीम देहे
				4020	निजी	गैर—कृषि	0.026	नथुनी साह पिता स्व. रामखेलावन साह साकीम देहे
				4019	निजी	गैर—कृषि	0.008	नथुनी साह पिता स्व. रामखेलावन साह साकीम देहे
				4018	सरकारी	सड़क	0.016	बिहार सरकार
				4008	निजी	कृषि	0.008	उदयकान्त झा पिता दीनानाथ झा
				3987	सरकारी	सड़क	0.002	बिहार सरकार
				3961	निजी	गैर—कृषि	0.002	जयराम गोपाल पिता सोहन चौपाल
				3960	निजी	गैर—कृषि	0.008	जयराम गोपाल पिता सोहन चौपाल
				3959	निजी	गैर—कृषि	0.002	जयराम गोपाल पिता सोहन चौपाल
				3966	निजी	गैर—कृषि	0.102	कैलू चौपाल पिता स्व. सोमन चौपाल साकीम देहे शिवू चौपाल पिता स्व. सोमन चौपाल साकीम देहे
				3958	निजी	गैर—कृषि	0.011	कैलू चौपाल पिता स्व. सोमन चौपाल साकीम देहे रघु शिवू चौपाल पिता स्व. सोमन चौपाल साकीम देहे
				3957	निजी	गैर—कृषि	0.008	रघु चौपाल पिता स्व. सोमन चौपाल साकीम देहे शिवू चौपाल पिता स्व. सोमन चौपाल साकीम देहे
				3976	सरकारी	सड़क	0.004	बिहार सरकार
				3953	निजी	गैर—कृषि	0.005	जयराम गोपाल पिता स्व. सोहन चौपाल साकीम देहे मितराम चौपाल पिता स्व. उलफात चौपाल साकीम देहे
				3954	निजी	गैर—कृषि	0.012	जयराम चौपाल पिता स्व. सोमन चौपाल साकीम देहे मितराम चौपाल पिता स्व. उलफात चौपाल साकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3955	निजी	गैर-कृषि	0.008	जयराम चौपाल पिता स्व. सोमन चौपाल साकीम देहे
				3952	निजी	गैर-कृषि	0.002	मितराम चौपाल पिता स्व. उलफात चौपाल साकीम देहे
				3944	निजी	कृषि	0.016	भदय चौपाल पिता स्व. पलट चौपाल साकीम देहे
				3945	निजी	गैर-कृषि	0.008	भदय चौपाल एवं अन्य
				3943	सरकारी		0.008	बिहार सरकार
				3942	सरकारी	गैर-कृषि	0.028	बिहार सरकार
				3940	सरकारी	सड़क	0.006	बिहार सरकार
				4250	निजी	कृषि	0.030	बच्चा बाबू
				4251	निजी	कृषि	0.010	बच्चा बाबू पिता स्व. नैनमान झा साकीम देहे
				4362	निजी	कृषि	0.016	योगेन्द्र लाल कामती पिता स्व. अनुप कामती साकीम-देहे
				4037	सरकारी	सड़क	0.020	बिहार सरकार
				4503	सरकारी	सड़क	0.014	बिहार सरकार
				4518	निजी	कृषि	0.011	जीतन झा पिता स्व. भक्तीनाथ झा साकीम देहे
				4641	निजी	कृषि	0.002	सुरेश झा पिता स्व. महेश झा साकीम देहे
				3882	निजी	कृषि	0.090	हेमकान्त झा पिता स्व. विजयानन्द झा साकीम देहे हेमकार झा पिता स्व. विजयानन्द झा साकीम देहे
				3883	निजी	कृषि	0.227	विजली देवी जौजे अबध नारायण झा साकीम देहे गोविन्द झा पिता स्व. बलदेव झा साकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3857	निजी	कृषि	0.010	हेमकान्त झा पिता स्व. चिरंजीव झा साकीम देहे
				3852	निजी	कृषि	0.047	ब्रवण कुमार झा पिता स्व. भूषण झा
				3859	निजी	कृषि	0.093	अमरनाथ झा पिता स्व. तेज नारायण झा साकीम देहे
				3858	निजी	कृषि	0.102	श्रीधर झा पिता स्व. विश्वम्भर झा साकीम देहे हनुमान झा पिता सत्यदेव झा साकीम देहे गोपाल झा पिता चन्द्रनाथ झा साकीम देहे
				3851	निजी	कृषि	0.091	लक्ष्मण झा पिता स्व. कालानाथ झा साकीम देहे
				3850	निजी	कृषि	0.051	महेश्वर झा पिता स्व. कुशेश्वर झा साकीम देहे बाबुकान्त झा पिता स्व. हरिवंश झा साकीम देहे देवकान्त झा पिता स्व. काशीकान्त झा साकीम देहे
				3826	सरकारी	सड़क	0.024	बिहार सरकार
				3824	निजी	कृषि	0.026	जीतन झा पिता स्व. फोचन झा साकीम देहे
				3828	निजी	कृषि	0.024	भरत झा पिता स्व. सुभंश झा साकीम देहे मुनय यादव पिता स्व. जगदीश यादव साकीम—सर्वसीमा
				3509	निजी	कृषि	0.090	गुनन्द मिश्रा पिता शिवनन्दन मिश्रा साकीम—नरुआर
				3508	निजी	कृषि	0.151	जयकान्त तिलिया देवी पति स्व. बौकू यादव साकीम—सर्वसीमा
				3510	निजी	कृषि	0.006	जयकान्त यादव पिता चुल्हैय यादव साकीम सर्वसीमा
				3505	निजी	कृषि	0.035	मुनय यादव पिता स्व. जगदीश यादव साकीम—सर्वसीमा
				3506	निजी	कृषि	0.186	भोगेन्द्र राय पिता जीतन राय साकीम—सर्वसीमा जीतन राय पिता स्व. पुलकीत राय साकीम सर्वसीमा
				3504	सरकारी	सड़क	0.108	बिहार सरकार
				3503	निजी	कृषि	0.208	महावीर साह पिता स्व. जमदार साह साकीम—नरुआर लक्ष्मी यादव पिता स्व. लफरू यादव साकीम—सर्वसीमा सदानन्द मिश्रा पिता श्रीकान्त मिश्रा साकीम—भलपट्टी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2876	निजी	कृषि	0.122	लक्ष्मी यादव पिता स्व. लफरू यादव साकीम सर्वसीमा
				2875	निजी	कृषि	0.012	गनन्द मिश्रा पिता स्व. शिवनन्दन मिश्रा साकीम—नरुआर
				2869	सरकारी	सड़क	0.077	बिहार सरकार
				2868	निजी	कृषि	0.193	राजेन्द्र कामती पिता स्व. भतु कामती साकीम—देहे
				3513	निजी	कृषि	0.018	हरeram साह पिता स्व. रामस्वरूप साह साकीम देहे
				2867	निजी	कृषि	0.070	राजेन्द्र कामती पिता स्व. भतु कामती साकीम—देहे देवेन्द्र कामत पिता स्व. भतु कामत साकीम देहे
				2870	निजी	कृषि	0.276	देवेन्द्र कामत पिता स्व. भतु कामत साकीम देहे देवेन्द्र कामत पिता स्व. भतु कामत साकीम देहे रामेश्वर कामत पिता स्व. महावीर कामत साकीम देहे
				2871	निजी	कृषि	0.069	देवेन्द्र कामत पिता स्व. भतु कामत साकीम देहे रामेश्वर कामत पिता स्व. महावीर कामत साकीम देहे
				2892	निजी	कृषि	0.018	हरनाथ ठाकुर पिता स्व. मेधकान्त ठाकुर साकीम सर्वसीमा
				2713	निजी	कृषि	0.539	लक्ष्मी यादव पिता स्व. लफरू यादव साकीम सर्वसीमा नुनू ठाकुर पिता स्व. पुनीनाथ ठाकुर साकीम देहे शंकर ठाकुर पिता स्व. सीताराम ठाकुर साकीम देहे हरनाथ ठाकुर पिता स्व. मेधकान्त ठाकुर साकीम —सर्वसीमा
				2714	निजी	कृषि	0.042	हरनाथ ठाकुर पिता स्व. मेधकान्त ठाकुर साकीम सर्वसीमा
				2712	निजी	कृषि	0.143	राजेन्द्र कामती पिता स्व. भतु कामती साकीम देहे देवेन्द्र कामत पिता कैलू कामत साकीम देहे
				2711	निजी	कृषि	0.020	सीताराम साहू पिता स्व. भतु साकीम सर्वसीमा
				2710	निजी	कृषि	0.056	लक्ष्मण साह पिता जागरण साह
				2709	निजी	कृषि	0.006	लक्ष्मण साह पिता स्व. बादरी साह साकीम सर्वसीमा
				2708	निजी	कृषि	0.575	देवेन्द्र कामत पिता स्व. कैलू कामत साकीम देहे सीतय साह पिता स्व. जनक साह साकीम देहे चनेश्वर यादव पिता स्व. बिलट यादव साकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2707	सरकारी	कोसी नहर	0.288	बिहार सरकार
				2706	सरकारी	कोसी नहर	0.038	बिहार सरकार
				2696	सरकारी	कोसी नहर	0.114	बिहार सरकार
				2700	निजी	कृषि	0.008	रवीन्द्रनाथ ठाकुर एवं कालीकान्त ठाकुर पिता कुशोरवर ठाकुर साकीम—नरुआर
				2703	सरकारी	कोसी नहर	0.044	बिहार सरकार
				2704	सरकारी	कोसी नहर	0.216	बिहार सरकार
				2705	सरकारी	कोसी नहर	0.048	बिहार सरकार
				2726	निजी	कृषि	0.004	बुद्धिनाथ मिश्रा पिता फेकन मिश्रा
				1020	निजी	कृषि	0.060	बुद्धिनाथ मिश्रा पिता फेकन मिश्रा
				1062	निजी	कृषि	0.023	बुद्धिनाथ मिश्रा पिता फेकन मिश्रा
				1068	निजी	कृषि	0.010	लुटन कामती पिता सोनी कामती
				1550	निजी	कृषि	0.002	लुटन कामती पिता सोनी कामती
				1543	निजी	गैर—कृषि	0.022	मंगल कामती पिता शिबू कामती
				1542	निजी	गैर—कृषि	0.002	भोगेन्द्र कामती पिता रघुवीर कामती
				1541	निजी	गैर—कृषि	0.004	भोगेन्द्र कामती पिता रघुवीर कामती
				4344	निजी	कृषि	0.010	मंगल कामती पिता शिबू कामती

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4032	निजी	गैर—कृषि	0.059	नधुनी साह पिता स्व. रामखेलावन साह साकीम देहे
				4033	निजी	गैर—कृषि	0.015	रघुनन्दन साह पिता स्व. बाँकू साह साकीम देहे
				4363	निजी	कृषि	0.002	योगेन्द्र लाल कामती पिता स्व. अनुप कामती
				4365	निजी	कृषि	0.006	योगेन्द्र लाल कामती पिता अनुप लाल कामती
				4371	निजी	कृषि	0.066	भुटकुन यादव पिता फुचुन यादव
				4501	निजी	कृषि	0.068	जगरनाथ ठाकुर पिता दयाकान्त ठाकुर
				4502	निजी	गैर—कृषि	0.014	संजीव चौधरी पिता सचन चौधरी
				4508	निजी	गैर—कृषि	0.049	रामसेवक चौधरी पिता मखन चौधरी
				4517	निजी	कृषि	0.016	जीतीन झा पिता भक्ती नाथ झा
				4633	निजी	कृषि	0.002	भरत झा पिता स्व. कालाकान्त झा साकीम देहे भरत झा पिता स्व. कालाकान्त झा एवं जीतन झा पिता भक्तीनाथ झा साकीम देहे
				4634	निजी	कृषि	0.001	सुरेश झा पिता स्व. महेश झा साकीम देहे
				4640	निजी	कृषि	0.001	हनुमान झा पिता सत्यदेव झा
				4649	सरकारी	तालाब	0.056	बिहार सरकार
				3915	निजी	कृषि	0.027	रेखा झा पति दुर्गा नन्द झा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3914	निजी	कृषि	0.328	राजकुमार सिंह पिता बालेश्वर सिंह भारती
				3884	निजी	कृषि	0.340	गोविन्द झा पिता बलदेव झा
				3881	निजी	कृषि	0.008	हेमकान्त झा पिता चिरंजीव झा
				3880	निजी	कृषि	0.002	हनुमान झा पिता सत्यदेव झा
				3855	निजी	कृषि	0.165	लड्डू यादव पिता सोनू यादव
				3854	निजी	कृषि	0.020	हेमकान्त झा पिता चिरंजीव झा
				3853	निजी	कृषि	0.055	हेमकान्त झा पिता चिरंजीव झा
				3842	निजी	कृषि	0.228	गिरीधर चौधरी पिता कृतनारायण चौधरी
				3823	निजी	कृषि	0.046	लक्ष्मण झा पिता स्व. कालनाथ झा साकीम देहे
				3822	निजी	कृषि	0.005	लक्ष्मण साह पिता स्व. कालकान्त झा साकीम देहे
				3825	निजी	कृषि	0.169	भरत झा पिता कालनाथ झा
				3827	निजी	कृषि	0.090	अवध नारायण झा पिता आनन्द कान्त झा
				2698	निजी	कृषि	0.165	कुशेश्वर ठाकुर पिता स्व. मोती ठाकुर
				2699	निजी	कृषि	0.260	कुशेश्वर ठाकुर पिता स्व. मोती ठाकुर
			(3) नरुआर	356	सरकारी	सड़क	0.036	बिहार सरकार
				340	निजी	कृषि	0.010	रामलोचन यादव पिता पगुली यादव

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				369	सरकारी	सड़क	0.049	बिहार सरकार
				400	निजी	कृषि	0.014	रामलोचन यादव एवं नारायण यादव एवं मसोमात बुचिया देवी पिता स्व. गुली यादव एवं स्व. कुशेश्वर यादव एवं पति स्व. रामशरण यादव
				579	निजी	कृषि	0.002	रामलोचन यादव पिता पंगुली यादव
				524	सरकारी	सड़क	0.004	बिहार सरकार
				494	निजी	कृषि	0.021	बाबु जी राय पिता स्व. कान्तीरबू राय
				474	सरकारी	सड़क	0.049	बिहार सरकार
				409	निजी	कृषि	0.640	पिताम्बर यादव पिता जगेश्वर यादव
				670	सरकारी	सड़क	0.045	बिहार सरकार
				724	निजी	कृषि	0.102	परमेश्वर मंडल पिता स्व. जीवछ मंडल साकीम-हैथी
				723	निजी	कृषि	0.170	मदन झा पिता स्व. लक्ष्मी नारायण झा साकीम देहे चन्द्रमोहन झा पिता लक्ष्मी नारायण झा चन्द्रमोहन झा पिता लक्ष्मी नारायण झा श्याम सुन्दर ठाकुर पिता स्व. सत्तन ठाकुर विनोद झाकुर पिता बुद्धियार झाकुर
				779	निजी	कृषि	0.048	परशुराम झा पिता स्व. श्रीकांत झा
				769	निजी	कृषि	0.004	बेबन पासवान पिता उत्तम पासवान
				766	निजी	कृषि	0.004	चन्द्र झापिता बेचू झा
				774	निजी	कृषि	0.004	रामसेवक राय पिता कान्तीरबू राय
				538	निजी	कृषि	0.128	रामसेवक राय पिता कान्तीरबू राय

2	3	4	5	6	7	8	9
			529	निजी	कृषि	0.048	परशुराम झा पिता स्व. श्रीकांत झा
			732	सरकारी	सड़क	0.024	बिहार सरकार
			744	निजी	कृषि	0.004	बिल्टी देवी पति नानू यादव एवं अन्य
			3198	सरकारी	कृषि	0.036	बिहार सरकार
			837	सरकारी	बैरियर	0.041	बिहार सरकार
			349	सरकारी	कृषि	0.045	बिहार सरकार
			746	निजी	कृषि	0.004	सुतू यादव पिता सरयुग यादव
			747	निजी	कृषि	0.018	प्रेमनन्द झा पिता स्व. श्यामानन्द झा
			320	निजी	कृषि	0.083	पिताम्बर यादव पिता जगेश्वर यादव
			321	निजी	कृषि	0.280	पिताम्बर यादव पिता जगेश्वर यादव महावीर साह पिता जमदार साह
			344	निजी	कृषि	0.036	राजेन्द्र राय एवं योगेन्द्र राय पिता स्व. बासुदेव राय
			336	निजी	कृषि	0.027	बिल्टी देवी पति नानू यादव एवं अन्य
			337	निजी	कृषि	0.021	नीलाम्बर मिश्रा पिता भगवतली मिश्रा
			386	निजी	कृषि	0.014	सीताराम यादव पिता स्व. गुजर यादव ब्रह्मदेव यादव पिता स्व. महावीर यादव विश्वनाथ यादव पिता स्व. कुशेश्वर यादव
			402	निजी	कृषि	0.062	बलभद्र झा पिता बदरी झा
			401	निजी	कृषि	0.002	सुतू यादव पिता सरयुग यादव

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				389	निजी	कृषि	0.001	गनन्द मिश्रा पिता स्व. शिवनन्दन मिश्रा
				387	निजी	कृषि	0.094	गनन्द मिश्रा पिता स्व. शिवनन्दन मिश्रा
				392	निजी	कृषि	0.036	गनन्द मिश्रा पिता स्व. शिवनन्दन मिश्रा
				394	निजी	कृषि	0.035	लखन यादव पिता बुद्धन यादव गोविन्द यादव पिता स्व. बुद्धन यादव बाबू जी यादव पिता स्व. बुद्धन यादव धोकम यादव पिता स्व. बुद्धन यादव
				576	निजी	कृषि	0.033	जमुना देवी पति जगदीश मंडल
				530	निजी	कृषि	0.003	अमृत यादव एवं दुखन यादव पिता मोहन यादव
				529	निजी	कृषि	0.007	परशुराम झा पिता स्व. श्रीकांत झा
				531	निजी	कृषि	0.014	भोल्ल यादव पिता शमली यादव
				536	निजी	कृषि	0.026	मुन्नी चोपाल एवं दुखी चोपाल पिता बुन्नी चोपाल
				537	निजी	कृषि	0.029	ताराकान्त राय एवं प्रेमनन्द राय पिता बुचन राय
				538	निजी	कृषि	0.057	रामसेवक राय पिता कान्तीरबू राय, रामचन्द्र राय पिता स्व. कान्तीरबू राय
				501	निजी	कृषि	0.020	वैनी यादव पिता वैदनाथ यादव
				499	निजी	कृषि	0.106	प्रदीप झा पिता प्रमोद झा
				496	निजी	कृषि	0.009	बलराम झा पिता स्व. श्रीकान्त झा
				486	निजी	कृषि	0.200	सीताराम यादव पिता स्व. गुजर यादव ब्रह्मदेव यादव पिता स्व. महावीर यादव
				483	निजी	कृषि	0.035	गणेश झा पिता जयकान्त झा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				656	निजी	कृषि	0.013	बीरेन्द्र कुमार मिश्रा पिता भोला मिश्रा
				476	निजी	कृषि	0.072	ध्यानी यादव पिता वैद्यनाथ यादव
				706	निजी	कृषि	0.055	प्रदीप झा पिता प्रमोद झा
				718	निजी	कृषि	0.002	पुरनन्द झा पिता सीताराम झा
				719	निजी	कृषि	0.006	पुरनन्द झा पिता सीताराम झा
				399	निजी	कृषि	0.016	गनन्द मिश्रा पिता स्व. शिवनन्दन मिश्रा साकीम देहे
				348	निजी	कृषि	0.040	दुबय ठाकुर गंगय ठाकुर पिता स्व. जयदेव ठाकुर
				344	निजी	कृषि	0.096	राजेन्द्र राय एवं योगेन्द्र राय पिता स्व. बासुदेव राय
				345	निजी	कृषि	0.072	भुलकुन साह पिता जमेदार साह
				498	निजी	कृषि	0.055	दुबय ठाकुर गंगय ठाकुर पिता स्व. जयदेव ठाकुर
				622	सरकारी	सड़क	0.032	बिहार सरकार
				386	निजी	कृषि	0.156	विश्वनाथ यादव पिता कुशेश्वर यादव ब्रह्मदेव यादव पिता महावीर यादव
				722	निजी	कृषि	0.002	बेचन पासवान पिता उत्तम पासवान
				749	निजी	कृषि	0.006	चन्द्र झा पिता बेचू झा
				768	निजी	कृषि	0.027	सुखेन्द्र झा पिता अर्जुन झा एवं अन्य
				777	निजी	कृषि	0.050	दुलारू साकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(4) अराजी भवानीपुर	158	निजी	कृषि	0.072	गननन्द मिश्रा पिता स्व. शिवनन्दन मिश्रा
				159	निजी	कृषि	0.044	रघुनी मंडल पिता कुशेश्वर मंडल ललन मंडल पिता कुशेश्वर मंडल
				144	निजी	कृषि	0.024	रामऔतार झा पिता अभय नारायण झा
				98	सरकारी	सड़क	0.004	बिहार सरकार
				168	निजी	कृषि	0.002	किशन पासवान पिता फते पासवान
				145	निजी	कृषि	0.265	राम प्रसाद झा पिता केदार झा
				150	निजी	कृषि	0.148	परमेश्वर मंडल पिता स्व. जीवछ मंडल मदन झा पिता लक्ष्मी झा
				151	निजी	कृषि	0.137	महीन्द्र झा पिता अर्जुन झा एवं अन्य
				152	निजी	कृषि	0.023	राम प्रसाद झा पिता केदार झा
				156	निजी	कृषि	0.056	गनन्द मिश्रा पिता शिवनन्दन मिश्रा एवं अन्य
				157	निजी	कृषि	0.162	गनन्द मिश्रा पिता स्व. शिवनन्दन मिश्रा
				169	निजी	कृषि	0.041	रामऔतार झा पिता अभय नारायण झा
				170	निजी	कृषि	0.109	रामऔतार झा पिता अभय नारायण झा
			(5) बाली	1194	निजी	कृषि	0.170	हरेकान्त ठाकुर पिता बदरी ठाकुर कामेश्वर झा पिता स्व. महेन्द्र झा शिवशंकर ठाकुर पिता स्व. बिशु ठाकुर महीनाथपुर
				1178	निजी	कृषि	0.004	माधव ठाकुर पिता तिलकनाथ ठाकुर
				1230	निजी	कृषि	0.073	सुबी पासवान पिता स्व. कंचन पासवान

	2	3	4	5	6	7	8	9
				1223	सरकारी	कृषि	0.024	बिहार सरकार
				1336	निजी	कृषि	0.110	अशरफी शफी पिता स्व. करी शफी रामदेव शफी पिता स्व. मुसय शफी पलट शफी पिता करी शफी
				1218	निजी	कृषि	0.020	जयगोविन्द झा पिता स्व. दुखमोहन झा गिरिजानन्द झा पिता स्व. विश्वमोहन झा चन्द्रकान्त झा पिता बाबुसाहेब झा
				1160	निजी	कृषि	0.140	हरेकान्त झा पिता बुचन झा एवं अन्य
				1161	निजी	कृषि	0.030	गंगाराम ठाकुर पिता फुशी ठाकुर
				1162	निजी	कृषि	0.120	पलट शफी पिता करी शफी
				1163	निजी	कृषि	0.048	खुशमोहम्मद हसन पिता बच्चा अनसारी
				1164	निजी	कृषि	0.001	सर्व नारायण झा पिता कनक झा
				1165	निजी	कृषि	0.055	रामशंकर झा एवं गौरीशंकर झा पिता सुरत झा
				1166	निजी	कृषि	0.024	पलट शफी पिता करी शफी
				1167	निजी	कृषि	0.020	नन्दकुमार झा पिता बच्चा झा
				1188	निजी	कृषि	0.077	कृष्णकान्त झा पिता राधेश्याम झा
				1190	निजी	कृषि	0.108	अमरनाथ झा एवं अमरेन्द्र नारायण झा पिता बच्चा झा
				1191	निजी	कृषि	0.088	दीयानन्द झा पिता फुदी झा
				1193	निजी	कृषि	0.062	अहमद मजीद पिता अहमद अजीज
				1213	निजी	कृषि	0.132	ललित नारायण झा पिता कृपानन्द झा

	2	3	4	5	6	7	8	9
				1222	निजी	कृषि	0.030	वैद्यनाथ ठाकुर पिता मुरलीधर ठाकुर
				1224	निजी	कृषि	0.015	वैद्यनाथ ठाकुर पिता मुरलीधर ठाकुर
				1225	निजी	कृषि	0.039	हरिनारायण झा पिता मकसुदन झा
				1217	निजी	कृषि	0.106	हरिनारायण झा पिता रामकृष्ण झा
				1271	निजी	कृषि	0.049	हरिनारायण झा पिता रामकृष्ण झा
		(6) महिनाथपुर	978	निजी	कृषि	0.072	यामसुन्दर झा पिता स्व. भगवानन्द झा कृतनारायण झा पिता स्व. कुमदेव झा	
			1147	निजी	कृषि	0.006	गोविन्द नारायण झा पिता स्व. बोडलाल झा साकीम देहे	
			1075	निजी	कृषि	0.018	गोविन्द नारायण झा एवं रमणजी झा पिता स्व. बोडलाल झा एवं कमल झा साकीम देहे	
			1074	निजी	कृषि	0.366	लीलानन्द चौधरी एवं जगेश्वर चौधरी पिता गोबरधन चौधरी एवं जगेश्वर चौधरी पिता गोबरधन चौधरी शंकर चौधरी पिता स्व. बालेश्वर चौधरी परमानन्द चौधरी	
			530	सरकारी	सड़क	0.049	बिहार सरकार	
			1145	निजी	कृषि	0.032	राजू झा एवं परमानन्द झा पिता वैद्यनाथ झा एवं स्व. मोहन झा साकीम देहे	
			426	सरकारी	सड़क	0.016	बिहार सरकार	
			524	निजी	कृषि	0.048	देवनारायण झा पिता स्व. पिताम्बर झा राम झा पिता स्व. जगेश्वर झा	
			505	निजी	कृषि	0.215	फनेश्वर झा पिता स्व. कपिलेश्वर झा अमरनाथ झा उर्फ रामनन्द झा पिता स्व. बच्चा झा बलदेव झा पिता स्व. कुंजबिहारी झा	
			503	निजी	कृषि	0.026	देवनारायण झा पिता स्व. पिताम्बर झा	
			1181	निजी	कृषि	0.041	विनोद कुमार झा पिता स्व. गंगाधर झा	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1168	निजी	कृषि	0.047	गोविन्द नारायण झा पिता स्व. बोडलाल झा साकीम देहे, मंगल झा पिता स्व. बालमुकुन्द झा साकीम देहे परमानन्द झा पिता स्व. मोहन साकीम देहे रामजी झा पिता स्व. कमल झा साकीम देहे
				1160	निजी	कृषि	0.002	मंगल झा पिता स्व. बालमुकुन्द झा साकीम देहे
				1144/19 60	निजी	कृषि	0.024	रमणजी झा पिता स्व. कमल झा साकीम देहे
				1094	निजी	कृषि	0.072	लीलानन्द चौधरी एवं जगेश्वर चौधरी पिता गोबरधन चौधरी
				504	निजी	कृषि	0.016	रामदेव झा पिता कुंजबिहारी झा
				516	निजी	कृषि	0.081	मो. संज्ञान देवी पति सीताराम झा एवं अन्य
				520	निजी	कृषि	0.021	गिरिजानन्द झा पिता बिस्मोहन झा
				973	निजी	कृषि	0.031	लक्ष्मण साह पिता महादेव
				976	निजी	कृषि	0.017	बलदेव झा एवं चन्द्रमोहन झा पिता कुंजबिहारी झा
				981	निजी	कृषि	0.035	राधेश्याम झा पिता रविकान्त झा
				987	निजी	कृषि	0.120	वैद्यनाथ झा पिता कपिलदेव झा
				980	निजी	कृषि	0.016	रबीन्द्र नाथ झा पिता रविकान्त झा
				1071	सरकारी	सड़क	0.039	बिहार सरकार
				1076	निजी	कृषि	0.012	रामजी झा पिता स्व. कमल झा साकीम देहे
				1077	निजी	कृषि	0.027	रामजी झा पिता स्व. कमल झा साकीम देहे

2	3	4	5	6	7	8	9
			1078	निजी	कृषि	0.002	रमजी झा पिता स्व. कमल झा साकीम देहे
			221	निजी	कृषि	0.025	उमाकान्त मिश्रा एवं सुबी पासवान पिता स्व. दिलसुदन मिश्रा एवं स्व. कंचन पासवान साकीम देहे
			1079	सरकारी	सड़क	0.004	बिहार सरकार
			1093	सरकारी	सड़क	0.013	बिहार सरकार
			1095	निजी	कृषि	0.021	भीखारी साह एवं लकीर साह पिता गुंजन साह
			1149	निजी	कृषि	0.002	भीखारी साह एवं लकीर साह पिता गुंजन साह
			1155	निजी	कृषि	0.037	डोमू साह एवं अन्य पिता कारी साह
			1146	निजी	कृषि	0.010	गोविन्द झा पिता बाउलाल झा
			223	निजी	कृषि	0.071	कामेश्वर झा पिता महानाथ झा
			225	निजी	कृषि	0.009	गिरिमानन्द झा पिता बिस्मोहन झा
			226	निजी	कृषि	0.054	योगेन्द्र मिश्रा पिता केवल मिश्रा
			228	निजी	कृषि	0.010	किरणन्द मिश्रा पिता गुर्गानन्द मिश्रा
			398	निजी	कृषि	0.002	जयगोविन्द झा एवं अमरेन्द्र नाथ झा पिता दुखमोहन झा एवं अन्य
			399	निजी	कृषि	0.029	गणेश झा एवं कारी झा पिता मदनेश्वर झा
			406	निजी	कृषि	0.045	चन्द्रकान्त झा पिता बाबू साहेब झा
			528	निजी	कृषि	0.134	इन्दनाथयण झा पिता रामकृष्ण झा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				508	निजी	कृषि	0.029	महादेव झा पिता परशुराम झा
				1163	निजी	कृषि	0.175	गोविन्द नारायण झा पिता बाउलाल झा
				1164	निजी	कृषि	0.085	वैद्यनाथ झा पिता कपिलदेव झा
				1152	निजी	कृषि	0.058	भीखारी साह एवं लकीर साह पिता गुंजन साह
				1153	निजी	कृषि	0.008	भीखारी साह एवं लकीर साह पिता गुंजन साह
				1154	निजी	कृषि	0.001	मंगल झा पिता स्व बालमुकुछ झा साकीम देहे
				1156	निजी	कृषि	0.020	मंगल झा पिता स्व बालमुकुछ झा साकीम देहे
				1113	निजी	कृषि	0.009	शिवशंकर राय पिता त्रिपति राय
				1114	निजी	कृषि	0.008	शिवशंकर राय पिता त्रिपति राय
				1080	निजी	कृषि	0.049	शिवशंकर राय पिता त्रिपति राय
				1091	निजी	कृषि	0.013	बेचन झा पिता सुवेश्वर झा
				1096	निजी	कृषि	0.119	बेचन झा पिता सुवेश्वर झा
				239	निजी	कृषि	0.047	कारी झा पिता सोनी झा
		(7) समेया		772	निजी	कृषि	0.020	कर चौधरी पिता स्व. बालेश्वर चौधरी जागेश्वर चौधरी पिता स्व. गोबरधन चौधरी
				773	निजी	कृषि	0.016	जागेश्वर चौधरी पिता स्व. गोबरधन चौधरी भोगी चौपाल पिता स्व. बटौ चौपाल एवं दिनेश चौपाल पिता पलटन चौपाल एवं संजय चौपाल पिता सुखदेव चौपाल एवं रवि चौपाल पिता कलर चौपाल सुखदेव चौपाल

2	3	4	5	6	7	8	9
			774	निजी	गैर-कृषि	0.069	भोगी चौपाल पिता बटौ चौपाल, दिनेश चौपाल पिता पलटन चौपाल, संजय चौपाल पिता सुखदेव चौपाल एवं रवि चौपाल पिता कालर चौपाल
			775	सरकारी	सड़क	0.085	बिहार सरकार
			954	निजी	गैर-कृषि	0.344	कृष्णानन्द चौधरी पिता लीलानन्द चौधरी, अशरफी साह पिता गोविन्द साह, मसोमात धुरनी जौजे फल्टु चौपाल एवं बौकू चौपाल पिता स्व. कालर चौपाल भोला चौपाल एवं गुलम चौपाल पिता स्व. कालर चौपाल एवं बौकू चौपाल रवि चौपाल पिता कालर चौपाल एवं राजू चौपाल पिता रवि चौपाल महीन्द्र चौपाल एवं सीतू चौपाल पिता स्व. जीवछ चौपाल रवि चौपाल एवं राजू चौपाल एवं भोला चौपाल पिता कालर चौपाल एवं गुलम चौपाल एवं स्व. बौकू चौपाल राम सदय पिता स्व. मंगल सदय एवं भीखम सदय पिता श्री राम सदय एवं बिन्देश्वर सदय पिता मतार सदय मसोमात संजय जौजे तेतर सदय मसोमात सगीया जौजे तेतर सदय मसोमात नीरो जौजे स्व. इन्द्रलाल सदय एवं लोचन सदय पिता भदय सदय हरिश्चन्द्र झा पिता स्व. शिवनन्दन झा
			956	निजी	कृषि	0.024	लक्ष्मी सदय पिता जोखन सदय
			955	निजी	कृषि	0.036	बिहय कुमार झा पिता तेज नारायण झा
			924	निजी	कृषि	0.044	बौन सदय पिता स्व. बहादुर सदय
			925	निजी	कृषि	0.036	लालू झा पिता रामदेव झा
			926	निजी	गैर-कृषि	0.024	लोचन सदय पिता भदय सदय हरिश्चन्द्र झा पिता स्व. शिवनन्दन झा
			962	निजी	कृषि	0.048	हरिश्चन्द्र झा पिता शिवनन्दन झा
			960	निजी	कृषि	0.019	लक्ष्मी सदय पिता स्व. जोखन सदय
			922	निजी	कृषि	0.002	बिनय कुमार झा पिता तेज नारायण झा
			923	निजी	कृषि	0.006	बौन सदय पिता स्व. दाउर सदय

	2	3	4	5	6	7	8	9
				920	निजी	कृषि	0.008	बौन सदय पिता स्व. दाउर सदय
				961	निजी	कृषि	0.024	अयोधी सदय पिता सरयुग सदय
				916	निजी	कृषि	0.004	धीरेन्द्र नारायण झा पिता स्व. सुरेन्द्र नारायण झा
				915	निजी	कृषि	0.089	राजेन्द्र नारायण झा पिता स्व. इन्द्र नारायण झा राघवेन्द्र झा पिता स्व. दुर्गानन्दन झा साकीम देहे
				911	निजी	कृषि	0.057	लखन झा पिता स्व. रतिनाथ झा साकीम देहे
				913	निजी	कृषि	0.052	लखन झा पिता स्व. रतिनाथ झा साकीम देहे
				912	निजी	कृषि	0.006	राघवेन्द्र झा पिता दुर्गा नारायण झा
				1012	निजी	कृषि	0.002	राघवेन्द्र झा पिता दुर्गा नारायण झा
				1310	निजी	कृषि	0.020	राघवेन्द्र झा एवं नागेन्द्र झा पिता स्व. दुर्गानन्द झा एवं स्व. इन्द्र नारायण झा साकीम देहे
				1054	सरकारी	सड़क	0.020	बिहार सरकार
				1104	निजी	कृषि	0.117	परमानन्द झा पिता स्व. गंगाधर झा
				1105	निजी	कृषि	0.041	परमानन्द झा पिता स्व. गंगाधर झा
				1106	निजी	कृषि	0.038	परमानन्द झा पिता स्व. गंगाधर झा
				1111	निजी	कृषि	0.080	मो. रोजय पिता स्व. इशाक साकीम देहे
				1116	निजी	कृषि	0.014	उदयचन्द्र झा पिता स्व. सूर्यनारायण झा साकीम देहे ललितनारायण झा पिता स्व. नारायण झा साकीम देहे
				1313	सरकारी	कृषि	0.065	बिहार सरकार

	2	3	4	5	6	7	8	9
				1048	निजी	कृषि	0.162	देवेन्द्र नारायण झा पिता स्व. उदीत नारायण झा साकीम देहे
				1047	निजी	कृषि	0.008	सुभाष चन्द्र झा पिता स्व. रामचन्द्र झा
				1046	निजी	कृषि	0.059	लखन झा पिता स्व. रतिनाथ झा साकीम देहे
				1043	निजी	कृषि	0.182	उदयचन्द्र झा पिता स्व. सूर्यनारायण झा साकीम देहे ललितनारायण झा पिता स्व. नारायण झा साकीम देहे
				1053	सरकारी	सड़क	0.020	बिहार सरकार
				1025	निजी	कृषि	0.115	उदयचन्द्र झा पिता स्व. सूर्यनारायण झा साकीम देहे गंगानाथ झा, किरू ठाकुर पिता स्व. नारायण ठाकुर
				1028	निजी	कृषि	0.008	बहलू मंडल पिता स्व. बगलू मंडल
				1026	निजी	कृषि	0.152	ललित नारायण झा पिता स्व. नारायण झा साकीम देहे
				1052	निजी	कृषि	0.006	अशरफो साह पिता गोविन्द साह
				1027	निजी	कृषि	0.177	उदयचन्द्र झा पिता स्व. सूर्यनारायण झा साकीम देहे हरिश्चन्द्र झा
				1030	निजी	कृषि	0.036	उदयचन्द्र झा पिता स्व. सूर्यनारायण झा साकीम देहे
				1044	निजी	कृषि	0.024	उदयचन्द्र झा पिता स्व. सूर्यनारायण झा साकीम देहे
				1041	निजी	कृषि	0.016	पिता स्व. पिता सूर्यनारायण झा साकीम देहे
				963	निजी	कृषि	0.037	बौन सदय पिता स्व. दाहुर सदय
				1042	निजी	कृषि	0.040	कृष्णन्द झा पिता जयनारायण झा
				1045	निजी	कृषि	0.018	उदयचन्द्र झा पिता स्व. सूर्यनारायण झा साकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1088	सरकारी	नदी	0.059	बिहार सरकार
				1091	निजी	कृषि	0.062	दिलेन्द्र नारायण झा पिता सुरेन्द्र नारायण झा
				1108	निजी	कृषि	0.006	बालाकान्त झा पिता मधु झा
				1103	निजी	कृषि	0.320	लीलरामन झा पिता स्व. रामस्वरूप झा
				1102	निजी	कृषि	0.022	तेतल पासवान पिता चुकन पासवान
				1107	निजी	कृषि	0.007	कृष्ण नारायण झा पिता आनन्द नारायण झा
				1112	निजी	कृषि	0.008	अशोक कुमार झा एवं राज कुमार झा पिता लक्ष्मीकान्त झा
		(8) बलनी मेहथ		1571	सरकारी	सड़क	0.081	बिहार सरकार
				2351	निजी	कृषि	0.036	गिराज झा पति वैद्यनाथ झा सतीश झा एवं सुधरी झा एवं बबन झा पिता स्व. फेकन झा
				1689	सरकारी	सड़क	0.086	बिहार सरकार
				2204	निजी	कृषि	0.172	गौरी कान्त झा पिता उदीत नारायण झा
				2203	निजी	कृषि	0.014	राजूमंडल पिता जनक मंडल
				2227	निजी	कृषि	0.036	सरयुग मंडल पिता कालर मंडल कमलेश झा पिता पुलकीत झा
				2225	निजी	कृषि	0.118	इन्द्रकान्त झा एवं रामउदगार झा एवं रामकुमार झा एवं रमेश झा पिता कृष्णदेव झा
				1572	निजी	कृषि	0.002	सुवर्ण मिश्रा पिता महावीर मिश्रा
				2195	निजी	कृषि	0.065	कृतनारायण झा पिता वेदनारायण झा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2198	निजी	कृषि	0.074	हरिश्चन्द्र झा पिता जयचन्द्र झा, लड्डू एवं सुरेश झा पिता दुखमोचन झा
				2199	निजी	कृषि	0.069	रामखेलावन ठाकुर पिता अशरफी ठाकुर
				2206	निजी	कृषि	0.037	अशोक झा पिता तिलोकी
				2207	निजी	कृषि	0.149	इन्द्रकान्त झा एवं रामउदगार झा एवं रामकुमार झा एवं रमेश झा पिता कृष्णदेव झा
				2213	निजी	कृषि	0.083	मोतीलाल झा पिता अजीत झा
				2214	निजी	कृषि	0.001	सरयुग यादव पिता दानी यादव
				2229	निजी	कृषि	0.131	सरयुग यादव पिता दानी यादव
				2231	निजी	कृषि	0.012	रामखेलावन ठाकुर पिता अशरफी ठाकुर एवं अन्य
				2337	निजी	कृषि	0.013	बिनोद झा पिता बिशेश्वर झा एवं अन्य
				2338	निजी	कृषि	0.024	बिनोद झा पिता बिशेश्वर झा एवं अन्य
				2340	निजी	कृषि	0.064	बिनोद झा पिता बिशेश्वर झा एवं अन्य
				2341	निजी	कृषि	0.122	गिराज झा पति वैद्यनाथ झा
				2208	निजी	कृषि	0.055	गिराज झा पति वैद्यनाथ झा
				2209	निजी	कृषि	0.016	गिराज झा पति वैद्यनाथ झा
			(9) परतापपुर	27	सरकारी	कृषि	0.064	बिहार सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				252	सरकारी	कृषि	0.190	कमलेश झा पिता स्व. पुलकीत झा साकीम—मेहथ रामलखन यादव पिता स्व. दसय यादव साकीम—मेहथ महेन्द्र झा पिता स्व. फकीर झा साकीम मेहथ परमानन्द झा पिता स्व. जुगदेव झा साकीम—मेहथ राम नारायण झा यादव पिता स्व. दसय यादव साकीम मेहथ
				28	निजी	कृषि	0.044	कृष्ण किशोर ठाकुर पिता स्व. देव नारायण ठाकुर
				29	निजी	कृषि	0.182	अछनाथ झा एवं नवोनाथ झा एवं चन्द्रकुर ठाकुर पिता स्व. बाबु झा एवं स्व. उदीत झा एवं स्व. देव नारायण ठाकुर साकीम परतापुर
				5	निजी	कृषि	0.072	मसोमात शांति देवी जौजे स्व. नारायण झा साकीम—परतापुर
				33	निजी	कृषि	0.020	प्रभाश कुमार झा पिता रामबहादुर झा
				30	निजी	कृषि	0.062	वृजकिशोर ठाकुर पिता स्व. देव नारायण ठाकुर
				31	निजी	कृषि	0.049	गणेश मंडल पिता सुखदेव मंडल साकीम मेहथ वृजकिशोर ठाकुर पिता स्व. देव नारायण ठाकुर
				32	निजी	कृषि	0.162	सतीश कुमार झा एवं श्रवण कुमार झा पिता स्व. फेकन झा
				68	निजी	कृषि	0.153	अनारी देवी जौजे परमानन्द झा बासुदेव यादव पिता स्व. लालजी यादव, साकीम मेहथ, बासुदेव यादव पिता स्व. लालजी यादव, साकीम मेहथ दुखी यादव पिता स्व. लक्ष्मी यादव, साकीम मेहथ
				69	निजी	कृषि	0.036	धुवनेश्वर यादव पिता स्व. भल्लू यादव, मेहथ—नवटोली
				70	निजी	कृषि	0.004	हिमांशु शेखन ठाकुर पिता सुभगलाल ठाकुर
				2	निजी	कृषि	0.008	प्रभाश कुमार झा पिता रामबहादुर झा
				4	निजी	कृषि	0.309	रामप्रसाद यादव एवं रामखेलावन यादव पिता दसय यादव एवं अन्य
				42	निजी	कृषि	0.056	अभिनारायण ठाकुर पिता रामदत्त ठाकुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				38	निजी	कृषि	0.057	अभिनारायण ठाकुर पिता रामदत्त ठाकुर
				36	निजी	कृषि	0.126	मनोज झा पिता परमानन्द झा
				37	निजी	कृषि	0.008	प्रवीण कुमार झा पिता तारा कान्त झा
				63	सरकारी	कृषि	0.326	बिहार सरकार
				67	निजी	कृषि	0.012	भुवनेश्वर यादव पिता स्व. भल्लू यादव, मेहथ-नवटोली
		(10) कन्होली		386	निजी	कृषि	0.192	जीवछ मुखिया पिता स्व. बुद्धन मुखिया साकीम देहे चौधरी यादव पिता स्व. सीताराम यादव साकीम देहे सोभी यादव पिता स्व. सीताराम यादव साकीम देहे कुशेश्वर यादव पिता स्व. सुनार यादव साकीम देहे
				387	निजी	कृषि	0.136	जगदेव यादव एवं बौकू यादव बसुदेव यादव एवं लक्ष्मण यादव प्रदीप यादव पिता स्व. धानी यादव एवं स्व. लालजी यादव एवं लख्मी यादव साकीम देहे
				389	निजी	कृषि	0.008	जगदेव यादव एवं बउएलाल यादव एवं प्रभु यादव पिता स्व. सीताराम यादव साकीम देहे स्वरूप यादव पिता स्व. भुलर यादव साकीम देहे
				388	निजी	कृषि	0.374	बिकन यादव पिता स्व. सुनार यादव साकीम देहे बिकन यादव पिता स्व. सुनार यादव साकीम देहे मुनेश्वर यादव पिता स्व. विशो यादव साकीम देहे पंचनाथ मुखिया पिता स्व. मुनेश्वर मुखिया साकीम देहे बासुदेव यादव पिता स्व. लालजी यादव साकीम देहे प्रदीप यादव पिता स्व. लक्ष्मी यादव साकीम देहे जगदेव यादव एवं सहदेव यादव पिता स्व. धानी यादव साकीम देहे
				387	निजी	कृषि	0.006	रामलखन यादव पिता स्व. दसय यादव साकीम देहे
				367	निजी	कृषि	0.042	मालवार यादव पिता स्व. गरीब यादव साकीम देहे बौधू यादव पिता स्व. छेदी यादव साकीम देहे
				366	निजी	कृषि	0.072	मुनेश्वर यादव एवं मालवार यादव पिता स्व. विशो यादव एवं गरीब यादव साकीम देहे
				365	निजी	कृषि	0.320	किशुन लाल साह पिता स्व. अनुप लाल साह सरयुग यादव एवं जगदेव यादव एवं सहदेव यादव पिता स्व. धानी यादव साकीम देहे
				359	सरकारी	सड़क	0.028	बिहार सरकार
				151	निजी	कृषि	0.256	राजेन्द्र झा पिता स्व. कांती झा साकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				348	निजी	कृषि	0.012	मो. इकबाल पिता मो. सिराज साकीम देहे
				344	निजी	कृषि	0.049	मो. इदरीस एवं मूर हसन पिता स्व. मो. अब्दुल एवं स्व. इब्राहीम साकीम देहे
				343	निजी	कृषि	0.197	महावीर साहू पिता अज्ञात साकीम देहे
				271	निजी	कृषि	0.132	राजेन्द्र झा पिता स्व. रामाकान्त झा साकीम देहे
				272	निजी	कृषि	0.137	कुदूस अनसारी पिता स्व. हाकीम अनसारी साकीम देहे युसूफ अनसारी एवं मो. इलियास एवं मो. अब्बास एवं अब्दुल जब्बार पिता हबीब अनसारी साकीम देहे
				273	निजी	कृषि	0.036	उत्तीम अनसारी पिता स्व. गोनार अनसारी साकीम देहे
				275	निजी	कृषि	0.010	उत्तीम अनसारी पिता स्व. गोनार अनसारी साकीम देहे
				280	निजी	कृषि	0.036	अतीम अनसारी पिता स्व. गोनार साकीम देहे
				1292	निजी	कृषि	0.072	मो. सुलेमान अनसारी पिता स्व. लियाकत अनसारी एवं अब्दुल कुदूस अनसारी पिता स्व. अब्दुल हाकीम अनसारी साकीम देहे
				1293	निजी	कृषि	0.012	चन्देश्वर ठाकुर पिता सुन्दर ठाकुर साकीम देहे
				1314	निजी	कृषि	0.040	मो. कुदूस पिता स्व. हाकीम अनसारी साकीम देहे
				2866	निजी	कृषि	0.012	हरिनारायण झा पिता सर्वनारायण झा सुधाकर झा पिता मुनी झा लक्ष्मी नारायण झा पिता शिवेश्वर झा
				1604	निजी	कृषि	0.112	रामलखन माहतो पिता श्रीचन माहतो अर्जुन माहतो पिता सुरत लाल माहतो श्री लालू माहतो पिता किशन लाल माहतो मंथ माहतो पिता मेनदत माहतो
				296	सरकारी	कमला नदी	0.080	बिहार सरकार
				81	निजी	कृषि	0.038	नूपेन्द्र झा अर्जुन झा एवं अन्य पिता विष्णुकान्त झा पवन झा पिता बिजेन्द्र झा
				79	सरकारी	कमला नदी	0.006	बिहार सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1315	निजी	कृषि	0.087	इन्द्रकान्त प्रसाद पिता स्व. यदुनन्दन साह साकीम देहे रामविलास माहतो एवं रामदुलार माहतो एवं रामसेवक माहतो पिता बलेदव माहतो
				1324	निजी	कृषि	0.034	वैद्यनाथ माहतो पिता स्व. रामरूप माहतो साकीम देहे अमीना खातून जौजे सुलेमान अनसारी
				1325	निजी	कृषि	0.224	मो. महीउद्दीन अनसारी पिता यतीम अनसारी साकीम देहे
				1329	निजी	कृषि	0.106	मो. शब्बीर अली पिता स्व. इस्लाम अनसारी साकीम देहे इस्लाम शेख पिता शेख जहीरुद्दीन साकीम देहे जहागीर शेख पिता शेख असरुद्दीन साकीम देहे
				1331	निजी	कृषि	0.024	दबीर पिता स्व. इब्राहीम साकीम देहे मो. इदरीस पिता स्व. अब्दुल साकीम देहे
				1182	निजी	कृषि	0.196	रामखेलावन माहतो पिता स्व. छत्तर माहतो साकीम—पिपरा शिवराम माहतो एवं रामप्रवेश माहतो पिता राम नारायण माहतो महारैल मो. शब्बीर अली एवं मो. महीउद्दीन पिता स्व. इस्लाम अनसारी एवं यतीम अनसारी साकीम देहे मो. मोदीउद्दीन पिता अतीम अनसारी साकीम देहे
				1184	सरकारी	सड़क	0.063	बिहार सरकार
				1183	सरकारी	सड़क	0.143	नूर हसन एवं मो. इसान पिता मो. इब्राहीम एवं अब्दुल रसीद दबीर पिता स्व. इब्राहीम साकीम देहे दुलारे पिता स्व. मो. इब्राहीम साकीम देहे अब्दुल हसन पिता स्व. मो. इब्राहीम साकीम देहे
				1554	निजी	कृषि	0.032	सुलेमान अनसारी पिता स्व. लियाकत अनसारी साकीम देहे
				1603	निजी	कृषि	0.325	रामप्रसाद माहतो पिता स्व. गनय माहतो साकीम महेशपुरा उत्तमलाल माहतो पिता स्व. गंगय माहतो साकीम महेशपुरा
				1607	निजी	कृषि	0.056	उदीत नारायण झा पिता स्व. कारी झा साकीम देहे
				1608	सरकारी	सड़क	0.042	बिहार सरकार
				1609	निजी	कृषि	0.020	गरोश माहतो पिता स्व. गनय माहतो साकीम देहे—महेशपुरा
				1618	निजी	कृषि	0.008	राजेन्द्र झा एवं सुरेन्द्र झा पिता कांतीर झा साकीम देहे
				1614	निजी	कृषि	0.045	राजेन्द्र झा एवं सुरेन्द्र झा पिता कांतीर झा साकीम देहे
				1712	निजी	कृषि	0.072	बिहार सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1713	निजी	कृषि	0.328	नरेश झा पिता स्व. नारायण झा साकीम देहे गणेश झा पिता स्व. नारायण झा साकीम देहे नृपेन्द्र झा एवं अर्जुन एवं कालीकान्त झा एवं दुर्गानन्द झा पिता स्व. विष्णुकान्त झा एवं पवन कुमार झा पिता बिजेन्द्र झा
				1717	निजी	कृषि	0.008	मीणु झा जौजे कालीकान्त झा साकीम देहे
				1826	निजी	कृषि	0.004	नृपेन्द्र झा एवं अर्जुन झा एवं कालीकान्त झा एवं दुर्गानन्द झा पिता विष्णुकान्त झा एवं पवन कुमार झा पिता बिजेन्द्र झा साकीम देहे
				1824	निजी	कृषि	0.004	सुरेश नारायण झा पिता स्व. बुलन झा
				1768	निजी	कृषि	0.014	बच्चू देवी जौजे स्व. रमेश झा साकीम देहे
				1739	निजी	कृषि	0.036	सुरेश नारायण झा पिता स्व. पुरन्दर झा
				1736	निजी	कृषि	0.034	सुरेश नारायण झा पिता स्व. बुलन झा
				1737	निजी	कृषि	0.033	सुरेश नारायण झा पिता स्व. बुलन झा
				1734	निजी	कृषि	0.028	सुधाकर झा पिता स्व. मुनय झा साकीम देहे अनील कुमार झा पिता स्व. ताराकान्त झा साकीम देहे
				1749	निजी	कृषि	0.036	बिहार सरकार
				2867	निजी	कृषि	0.008	सुधाकर झा पिता स्व. मुनय झा साकीम देहे
				380	निजी	कृषि	0.226	जीवछ मुखिया पिता स्व. बुद्धन मुखिया एवं अन्य
				379	निजी	कृषि	0.097	भुवनेश्वर यादव पिता स्व. भल्लू यादव
				363	निजी	कृषि	0.083	मो. शब्बीर अली पिता मो. बदरुद्दीन एवं मो. अयूब पिता स्व. असगर अली
				359	सरकारी	सड़क	0.028	बिहार सरकार
				360	निजी	कृषि	0.126	हरे-कृष्ण यादव पिता अशरफ़ी यादव

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				233	निजी	कृषि	0.116	रामविलास माहतो पिता बलदेव माहतो
				232	निजी	कृषि	0.049	नृपेन्द्र झा एवं अर्जुन झा पिता विष्णुकान्त झा
				230	निजी	कृषि	0.012	रामविलास माहतो पिता बलदेव माहतो
				228	निजी	कृषि	0.166	मो. इकबाल पिता मो. सिराज साकीम देहे
				78	सरकारी	कमला नदी	0.028	बिहार सरकार
				77	सरकारी	कमला नदी	0.006	बिहार सरकार
				353	निजी	कृषि	0.128	नृपेन्द्र झा, अर्जुन झा एवं अन्य पिता विष्णुकान्त झा रामस्वरूप यादव पिता भुलर यादव
				354	निजी	कृषि	0.160	रामस्वरूप यादव पिता भुलर यादव
				247	निजी	कृषि	0.006	दशरथ नायक पिता परमेश्वर नायक
				248	निजी	कृषि	0.112	जीवछ माहतो पिता लक्ष्मण माहतो
				284	निजी	कृषि	0.090	दूसूफ मंसूरी पिता स्व. हबीब मंसूरी
				283	निजी	कृषि	0.034	जब्बार मंसूरी पिता हबीब मंसूरी
				282	निजी	कृषि	0.446	मो. इसरफी पिता मो. इलियास
				281	निजी	कृषि	0.100	अब्दुल कुदूस पिता अब्दुल हाकीम
				280	निजी	कृषि	0.020	मो. सलुद्दीन पिता मो. इस्लाम अनसारी
				1289	निजी	कृषि	0.030	मो. यासीन पिता मो. इस्माइल

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1288	निजी	कृषि	0.066	वैद्यनाथ माहतो पिता स्व. रामरूप माहतो
				1287	निजी	कृषि	0.052	अब्दुल रहमान मंसूरी पिता मो. जलील
				1286	सरकारी	सड़क	0.026	बिहार सरकार
				1285	निजी	कृषि	0.138	रामविलास माहतो पिता बलदेव माहतो
				1283	निजी	कृषि	0.088	अब्दुल कुदूम पिता अब्दुल हाकीम
				1282	निजी	कृषि	0.036	जेबुन निशा पति शममूल हक
				1281	निजी	कृषि	0.036	मो. शब्बीर अली एवं मो. बदरुद्दीन मो. अयूब पिता स्व. अमगर अली
				1278	निजी	कृषि	0.068	मो. शब्बीर अली एवं मो. बदरुद्दीन मो. अयूब पिता स्व. अमगर अली
				1279	निजी	कृषि	0.004	हामीदा खतून पति मो. इदरीस
				1277	निजी	कृषि	0.122	मो. शब्बीर अली एवं मो. बदरुद्दीन मो. अयूब पिता स्व. अमगर अली
				1330	निजी	कृषि	0.010	मो. दुलारे पिता मो. इब्राहीम
				1456	निजी	कृषि	0.054	मो. शब्बीर अली पिता इस्लाम अनसारी
				1182	निजी	कृषि	0.194	मो. शब्बीर अली पिता इस्लाम अनसारी
				1548	निजी	कृषि	0.016	मुमताज अली एवं अन्य पिता तस्दीक हुसैन
				1547	निजी	कृषि	0.022	मुमताज अली एवं अन्य पिता तस्दीक हुसैन
				1544	निजी	कृषि	0.024	मुमताज अली एवं अन्य पिता तस्दीक हुसैन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1546	निजी	कृषि	0.010	मुलेमान अनसारी पिता स्व. लियक अनसारी साकीम देहे
				1549	निजी	कृषि	0.006	मो. अर्जुन अनसारी पिता गनैर अनसारी
				1543	निजी	कृषि	0.080	अबुल अनसारी पिता हुसैन अनसारी गोकुल माहतो पिता जनक माहतो एवं अन्य
				1620	निजी	कृषि	0.090	गमप्रसाद माहतो पिता गंगा माहतो
				1601	निजी	कृषि	0.042	रामप्रसाद माहतो पिता गंगा माहतो
				1604	निजी	कृषि	0.046	अर्जुन माहतो पिता सुगत लाल माहतो
				1605	निजी	कृषि	0.044	रामप्रसाद माहतो पिता गंगा माहतो
				1610	निजी	कृषि	0.172	गणेश माहतो पिता स्व. गणेश माहतो साकीम-महेशपुरा
				1616	निजी	कृषि	0.036	उन्नीम लाल माहतो पिता गंगा माहतो
				1833	निजी	कृषि	0.022	सुनील झा एवं अन्य पिता भुवनेश्वर झा
				1832	निजी	कृषि	0.016	सुनील झा एवं अन्य पिता भुवनेश्वर झा
				1781	निजी	कृषि	0.001	उमाकान्त साह पिता शिवनन्दन साह
				352	सरकारी	कमला नदी	0.064	बिहार सरकार
				351	निजी	कृषि	0.036	मो. शब्बीर अली एवं मो. बदरुद्दीन एवं मो. अयूब पिता स्व. असगर अली साकीम देहे
				350	निजी	कृषि	0.024	मो. शब्बीर अली एवं मो. बदरुद्दीन एवं मो. अयूब पिता स्व. असगर अली साकीम देहे
				1792	निजी	कृषि	0.052	इन्द्रकान्त प्रसाद पिता स्व. यदुनन्दन साह साकीम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1790	निजी	कृषि	0.016	इन्द्रकान्त प्रसाद पिता स्व. यदुनन्दन साह साकीम
				1789	निजी	कृषि	0.004	मोणु झा जौजे जयकान्त झा
				1793	निजी	कृषि	0.112	नृपेन्द्र झा एवं अर्जुन झा पिता विष्णुकान्त झा
				1764	निजी	कृषि	0.022	नृपेन्द्र झा एवं अर्जुन झा पिता विष्णुकान्त झा
				1767	निजी	कृषि	0.016	नृपेन्द्र झा एवं अर्जुन झा पिता विष्णुकान्त झा
				1772	निजी	कृषि	0.008	अशोक कुमार झा पिता रामाकान्त झा
				1770	निजी	कृषि	0.015	नृपेन्द्र झा एवं अर्जुन झा पिता विष्णुकान्त झा
				1766	निजी	कृषि	0.012	अशोक कुमार झा पिता रामाकान्त झा
				1671	निजी	कृषि	0.012	अशोक कुमार झा पिता रामाकान्त झा
				1757	निजी	कृषि	0.010	तेजनारायण झा पिता श्याम झा
				1756	निजी	कृषि	0.007	स्वर्णरिख झा पति तेजनारायण झा
				1742	निजी	कृषि	0.210	राजेन्द्र झा पिता कातीर झा
				1743	निजी	कृषि	0.018	सुरेश नारायण झा पिता पुरूरुद झा
				1744	निजी	कृषि	0.040	सुरेश नारायण झा पिता पुरूरुद झा
				1738	निजी	कृषि	0.144	बच्चू देवी औजे स्व. मोणु झा साकीम देहे
				1866	निजी	कृषि	0.004	हरिनारायण झा पिता सर्वनारायण झा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1865	निजी	कृषि	0.058	रघुवर झा पिता गणेश्वर झा
				1864	निजी	कृषि	0.002	कमल नारायण झा पिता श्याम झा
			(11) महेशपुरा	527	सरकारी	सड़क	0.024	बिहार सरकार
				539	निजी	कृषि	0.132	चन्द्रेश्वर माहतो पिता शिव नारायण माहतो लाल अग्रवाल पिता स्व. शिवनारायण माहतो
				543	निजी	कृषि	0.055	महादेव माहतो पिता स्व. बाबुजी माहतो
				544	निजी	कृषि	0.062	रवि माहतो साकीम-महेशपुरा
				545	निजी	कृषि	0.039	लालू माहतो पिता स्व. कृष्णलाल माहतो
				548	निजी	कृषि	0.008	लालू माहतो पिता स्व. कृष्णलाल माहतो
				549	सरकारी	सड़क	0.008	बिहार सरकार
				550	निजी	कृषि	0.041	सुददीन माहतो पिता स्व. भैयाराम माहतो
				525	निजी	कृषि	0.008	रामदेव माहतो पिता रामशरण माहतो
				526	निजी	कृषि	0.039	कुदूस अनसारी पिता हाकीम अनसारी
				538	निजी	कृषि	0.117	चन्द्रेश्वर माहतो पिता मुकुंदलाल माहतो
				540	निजी	कृषि	0.130	रवि माहतो पिता बाबुजी माहतो
				541	निजी	कृषि	0.004	जुबेर आलम पिता मो. कासीम
				542	निजी	कृषि	0.259	मो नोइद्दीन अनसारी पिता हुसैन अनसारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(12) मोहना	156	निजी	कृषि	0.012	ध्रुव नारायण झा पिता स्व. कामेश्वर झा
				162	निजी	कृषि	0.004	प्रमोद झा पिता स्व. जीतेश झा
				177	निजी	कृषि	0.004	अमरनाथ झा पिता स्व. मोद नारायण झा
				288	निजी	कृषि	0.004	भिकान्त झा पिता स्व. ओमकान्त झा
				289	निजी	कृषि	0.044	भिकान्त झा पिता स्व. ओमकान्त झा
				292	सरकारी	सड़क	0.016	बिहार सरकार
				290	निजी	कृषि	0.036	राजेन्द्र झा पिता स्व. कारी झा बरिन्द्र झा पिता स्व. मोचन झा निर्मल कुमार झा पिता स्व. फुदन झा
				308	सरकारी	तालाब	0.089	बिहार सरकार
				309	निजी	कृषि	0.055	ध्रुव नारायण झा पिता स्व. कामेश्वर झा
				311	सरकारी	सड़क	0.012	बिहार सरकार
				312	निजी	कृषि	0.021	धैर्यनारायण झा पिता स्व. उपेन्द्र झा
				310	सरकारी	सड़क	0.021	बिहार सरकार
				315	निजी	कृषि	0.016	रामधर झा पिता स्व. मोचन झा
				157	निजी	कृषि	0.359	केशव झा पिता चित्रधीर झा
				161	सरकारी	सड़क	0.065	बिहार सरकार
				298	निजी	कृषि	0.046	राजेन्द्र झा पिता स्व. कारी झा फुदन झा पिता स्व. कारी झा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				296	सरकारी	सड़क	0.022	बिहार सरकार
				294	निजी	कृषि	0.043	गोविन्द झा पिता सौरव झा
				293	निजी	कृषि	0.084	देववन लाल दास पिता बालगोविन्द लाल दास
				291	निजी	कृषि	0.157	भिकरु झा पिता म्व. ओमकान्त झा
				306	सरकारी	नाला	0.014	बिहार सरकार
				305	निजी	कृषि	0.006	रामचन्द्र झा पिता दाकुर झा
				304	निजी	कृषि	0.016	रामचन्द्र झा पिता दाकुर झा
				342	सरकारी	नाला	0.019	बिहार सरकार
				307	निजी	कृषि	0.009	निर्मल कुमार झा पिता फुदन झा
				344	निजी	कृषि	0.014	कमलकांत झा पिता जयमेश झा
			(13) सिमरा	302	निजी	कृषि	0.132	देवप्रद लाल दास पिता म्व. सुख लाल दास
				308	निजी	कृषि	0.020	धनम कामनी पिता म्व. नर्व कामनी माकीम देहे
				2156	निजी	कृषि	0.012	वेद दत्त धुवनरयण झा पिता कामेश्वर झा
				311	निजी	कृषि	0.008	रामचन्दन मिश्रा
				2165	निजी	कृषि	0.020	वैद्यनाथ मिश्रा पिता शोभाकान्त मिश्रा
				2166	निजी	कृषि	0.004	वैद्यनाथ मिश्रा पिता शोभाकान्त मिश्रा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				303	निजी	कृषि	0.074	देवेन्द्र लाल दास पिता सुखी लाल दास
				304	निजी	कृषि	0.113	देवेन्द्र लाल दास पिता सुखी लाल दास
				319	निजी	कृषि	0.072	श्री झा पिता कारी झा
				309	निजी	कृषि	0.036	श्री झा पिता कारी झा
				310	निजी	कृषि	0.015	जगन्नाथ झा पिता कारी झा
				2142	निजी	कृषि	0.820	भरत केरन पिता वैद्यनाथ केरन
				2159	निजी	कृषि	0.046	राघव केरन पिता बिसो केरन
				2157	सरकारी	सिंचाई	0.091	बिहार सरकार
				2152	निजी	कृषि	0.016	चिरंजीव झा पिता चुन्नी झा
				2148	सरकारी	कृषि	0.019	बिहार सरकार
				2149	निजी	कृषि	0.002	धरलाल दास
				324	निजी	कृषि	0.004	बदरी दास पिता कमल नारायण दास एवं वेदनन्दन दास पिता नबल किशोर दास
				326	निजी	कृषि	0.28	राजीन्द्रलाल दास हरिगोविन्द दास साकीम देहे
				1033	निजी	गैर-कृषि	0.056	कृष्णकुमार कर्ण पिता शिवनारायण दास साकीम—सिमरा, दोरीक ठाकुर पिता किशुन ठाकुर साकीम—सिमरा एवं चन्दीका देवी पति चन्द्रकान्त दास साकीम—सिमरा
				1054	निजी	कृषि	0.02	भारती देवी पति सर्वनारायण दास साकीम—सिमरा एवं कृष्णकुमार कर्ण पिता शिवनारायण दास साकीम—सिमरा एवं विश्वनाथ दास पिता राजनाथ दास साकीम—सिमरा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1042	निजी	कृषि	0.06	लालेन्द्र कुमार कर्ण पिता चन्द्रनारायण दास साकीम-सिमरा कृष्णमुरारी कर्ण पिता राधा रमण कर्ण साकीम-सिमरा एवं कृष्ण मुरारी कर्ण पिता राधारमण कर्ण साकीम-सिमरा
				1053	निजी	कृषि	0.016	लालेन्द्र कुमार करण पिता चन्द्र नारायण दास साकीम देहे सिमरा एवं कृष्णमुरारी करण पिता राधा रमण करण साकीम सिमरा
				1047	निजी	कृषि	0.024	गौरीकांत दास एवं रतिकांत दास पिता शिव शंकर एवं मोसमात उर्मिला देवी पति विजयकांत दास साकीम-सिमरा
				1043	निजी	कृषि	0.024	गौरीकांत दास एवं रतिकांत दास पिता शिव शंकर एवं मोसमात उर्मिला देवी पति विजयकांत दास साकीम-सिमरा
				1046	निजी	कृषि	0.02	बदनाथ झा पिता शोभाकान्त झा एवं कृष्ण कुमार करण एवं धीरेन्द्र कुमार करण पिता शिव नारायण दास एवं विश्वनाथ दास पिता राज नारायण दास एवं भारती देवी पति सर्वनारायण दास एवं कृष्णमुरारी करण पिता राधा रमण करण एवं सौन्द कुमार करण पिता चन्द्र नारायण दास साकीम-सिमरा
				1044	निजी	गैर-कृषि	0.024	कृष्ण कुमार करण पिता चन्द्रपाल दास एवं कृष्ण कुमार करण एवं धीरेन्द्र कुमार करण पिता शिव नारायण दास एवं विश्वनाथ दास पिता राज कुमार करण पिता राधा रमण करण एवं सौन्द कुमार करण पिता चन्द्रनारायण दास साकीम-सिमरा
				1045	निजी	गैर-कृषि	0.08	कृष्ण कुमार करण पिता चन्द्रपाल दास एवं कृष्ण कुमार करण एवं धीरेन्द्र कुमार करण पिता शिव नारायण दास एवं विश्वनाथ दास पिता राजकुमार दास एवं भारती देवी पति सर्वनारायण दास एवं कृष्णमुरारी करण पिता राधा रमण करण एवं सौन्द कुमार करण पिता चन्द्र नारायण दास साकीम-सिमरा
				1198	सरकारी	सड़क	0.044	बिहार सरकार
				1465	निजी	कृषि	0.012	भुला मंडल एवं महावीर मंडल पिता लास्कर मंडल साकीम-देहे
				1461	निजी	कृषि	0.032	भुला मंडल एवं महावीर मंडल पिता लास्कर मंडल साकीम-देहे
				1455	सरकारी	सड़क	0.028	बिहार सरकार
				1448	निजी	गैर-कृषि	0.008	प्रबुद्धचन्द्र दास पिता स्व. राधाबल्लभ दास साकीम-देहे
				1454	सरकारी	कृषि	0.02	बिहार सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1453	सरकारी	कृषि	0.024	बिहार सरकार
				1469	सरकारी	सड़क	0.316	बिहार सरकार
				2133	सरकारी	सड़क	0.008	बिहार सरकार
				2134	निजी	कृषि	0.028	अरूण कुमार दास पिता बलदेव दास साकीम—सिमरा
				2135	निजी	कृषि	0.04	दोरीक ठाकुर पिता किशुन ठाकुर साकीम—सिमरा
				1974	निजी	गैर—कृषि	0.02	तेतर कामती पिता ठकुर कामती साकीम—सिमरा
				1963	निजी	गैर—कृषि	0.048	रामपति दास पिता राधा कृष्ण दास एवं इन्द्रभूषण कर्ण पिता निरंजन दास साकीम—सिमरा
				1960	निजी	कृषि	0.056	गौरीकान्त दास पिता कृष्णवल्लभ दास साकीम—सिमरा
				1950	निजी	कृषि	0.024	गौरीकान्त दास पिता शिवशंकर दास साकीम देहे
				1954	निजी	कृषि	0.004	मेहरानन्द दास एवं करुणानन्द दास पिता शिवनारायण दास साकीम सिमरा
				1943	निजी	कृषि	0.02	देवेन्द्र कुमार दास पिता विनोद बिहारी दास साकीम—सिमरा
				1513	निजी	कृषि	0.012	लखन मुखिया एवं प्रमोद मुखिया पिता मुनीया मुखिया साकीम—सिमरा एवं रामानन्द मिश्रा पिता जयनारायण मिश्रा साकीम—सिमरा
				1515	निजी	कृषि	0.004	रामानन्द मिश्रा पिता जयनारायण मिश्रा साकीम सिमरा
				1510	निजी	कृषि	0.004	रामानन्द मिश्रा पिता जयनारायण मिश्रा साकीम सिमरा
				1509	निजी	कृषि	0.004	कमलकान्त दास साकीम सिमरा
				1508	निजी	कृषि	0.008	कमलकान्त दास साकीम सिमरा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1507	सरकारी	सड़क	0.024	बिहार सरकार
				1506	निजी	कृषि	0.008	शिव पराधन पिता महावीर पराधन एवं पप्पु पराधन पिता भारती पराधन साकीम चनौरागंज
				1504	निजी	कृषि	0.092	शिव पराधन पिता महावीर पराधन एवं पप्पु पराधन पिता भारती पराधन साकीम चनौरागंज
				1490	निजी	कृषि	0.036	यामनन्दन दास पिता अजब दास साकीम सिमरा
				1489	निजी	कृषि	0.048	यामानन्द दास पिता अजब दास साकीम सिमरा
				1488	निजी	कृषि	0.024	रुद्रनन्द लाल दास एवं करुणानन्द दास पिता मिग नारायण दास साकीम सिमरा
				1487	निजी	कृषि	0.024	रुद्रनन्द लाल दास एवं करुणानन्द दास पिता मिग नारायण दास साकीम सिमरा
				1486	निजी	कृषि	0.008	रुद्रनन्द लाल दास एवं करुणानन्द दास पिता मिग नारायण दास साकीम सिमरा
				1485	निजी	कृषि	0.024	रुद्रनन्द लाल दास एवं करुणानन्द दास पिता मिग नारायण दास साकीम सिमरा
				1480	निजी	कृषि	0.084	रुद्रनन्द लाल दास एवं करुणानन्द दास पिता मिग नारायण दास साकीम सिमरा
				1479	निजी	कृषि	0.032	कृष्णनन्दन दास पिता जीवछ दास साकीम सिमरा एवं राकेश रंजन पिता जगदानन्द दास साकीम सिमरा
				1478	निजी	कृषि	0.048	कृष्णनन्दन दास पिता जीवछ दास साकीम सिमरा एवं राकेश रंजन पिता जगदानन्द दास साकीम सिमरा
				1470	सरकारी	सड़क	0.012	बिहार सरकार
				1471	सरकारी	सड़क	0.044	बिहार सरकार
				1472	सरकारी	सड़क	0.032	बिहार सरकार
				1473	सरकारी	सड़क	0.012	बिहार सरकार
				1474	सरकारी	सड़क	0.024	बिहार सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1476	सरकारी	सड़क	0.008	बिहार सरकार
				1477	सरकारी	सड़क	0.096	बिहार सरकार
			(14) चनौरागंज	1549	सरकारी	सड़क	0.02	बिहार सरकार
				1547	निजी	कृषि	0.048	बहादुर साह पिता लक्ष्मी साह साकीम देहे
				1954	निजी	गैर-कृषि	0.14	महावीर साह पिता रामुन्दर साह साकीम देहे
				1955	निजी	कृषि	0.036	महावीर साह पिता रामुन्दर साह साकीम देहे
				1956	निजी	कृषि	0.044	महावीर साह पिता रामुन्दर साह साकीम देहे
				1988	निजी	गैर-कृषि	0.012	महावीर साह पिता रामुन्दर साह साकीम देहे
				1987	सरकारी	सड़क	0.016	बिहार सरकार
				3191	सरकारी	सड़क	0.016	बिहार सरकार
				1897	निजी	गैर-कृषि	0.012	राजकुमार राउत पिता जगदीश राउत साकीम देहे एवं राजकुमार राउत पिता जगदीश राउत एवं वैद्यनाथ राउत पिता सत्य नारायण राउत साकीम देहे
				1895	निजी	गैर-कृषि	0.024	शिखरपूषण पराधन पिता भरत पराधन साकीम देहे एवं शिव पराधन पिता महावीर पराधन साकीम देहे
				1990	निजी	गैर-कृषि	0.012	शिव पराधन पिता महावीर पराधन साकीम देहे
				1889	निजी	गैर-कृषि	0.008	बाबुसाहेब साह एवं विक्रम साह पिता दानीलाल साह साकीम देहे
				1888	निजी	गैर-कृषि	0.01	राजेन्द्र साह पिता लखन साह एवं सीताराम साह पिता दामोदर साह एवं अरूण साह पिता महन्धी साह साकीम देहे
				1857	निजी	गैर-कृषि	0.008	महावीर पराधन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1854	निजी	गैर—कृषि	0.008	डोमा नायक एवं भोला राम मंडल
				2167	निजी	कृषि	0.024	भोलासम मंडल पिता रामदेव मंडल साकीम देहे
				2169	निजी	गैर—कृषि	0.028	सियाराम कारक पिता महावीर कारक साकीम देहे
				3216	निजी	कृषि	0.028	कुशेश्वर पंजीयार एवं राम प्रसाद पंजीयार एवं जगदीश ठाकुर पिता स्वरूप ठाकुर साकीम देहे
				2223	निजी	कृषि	0.044	रामखेलावन ठाकुर पिता सिधेश्वर ठाकुर साकीम देहे एवं अरूण साह पिता महंथी साह साकीम देहे
				2222	निजी	कृषि	0.032	रामखेलावन ठाकुर पिता सिधेश्वर ठाकुर साकीम देहे एवं लक्ष्मी ठाकुर पिता नवारी ठाकुर साकीम देहे
				2166	निजी	कृषि	0.068	लेलहू यादव साकीम देहे
				1164	निजी	कृषि	0.008	हरeram कारक पिता महावीर कारक साकीम देहे
				1160	निजी	कृषि	0.028	लखन ठाकुर पिता शिवन ठाकुर साकीम देहे
				1755	निजी	गैर—कृषि	0.112	सोहन पंजीयार पिता गोपाल पंजीयार साकीम देहे रौंदी मुखिया पिता कालर मुखिया साकीम देहे एवं मंगल मुखिया पिता पुरण मुखिया साकीम देहे
				1929	निजी	गैर—कृषि	0.012	रूपनारायण साह पिता रामचन्द्र साह साकीम देहे
				1824	निजी	गैर—कृषि	0.006	प्रहलाद कारक पिता शिवनारायण कारक एवं राम नारायण कारक पिता सूर्यनारायण कारक साकीम देहे
				1827	निजी	गैर—कृषि	0.006	रामनारायण कारक एवं भुव नारायण कारक पिता सूर्यनारायण कारक साकीम देहे
				1843	निजी	गैर—कृषि	0.032	कुशेश्वर पंजीयार एवं राम प्रसाद पंजीयार साकीम देहे
				2829	सरकारी	सड़क	0.008	बिहार सरकार
				2828	निजी	गैर—कृषि	0.004	रामकिशुन ठाकुर पिता शिवन ठाकुर साकीम देहे
				2791	सरकारी	सड़क	0.048	बिहार सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2780	सरकारी	सड़क	0.144	बिहार सरकार
				2710	निजी	तालाब	0.06	हरिनारायण माहतो पिता जीवठ माहतो साकीम देहे
				2709	निजी	गैर-कृषि	0.152	रामचन्द्र साह पिता रामसुन्दर साह साकीम देहे
				2707	निजी	गैर-कृषि	0.044	सीताराम मंडल पिता नारायण मंडल एवं लक्ष्मी मंडल पिता महावीर मंडल साकीम देहे
				2708	निजी	गैर-कृषि	0.01	भो. कुर्बान पिता पंडु एवं उस्मान पिता पंडु एवं जगदीश ठाकुर पिता स्वरूप ठाकुर साकीम देहे
				2353	सरकारी	सड़क	0.06	बिहार सरकार
				2693	निजी	गैर-कृषि	0.02	जीतन ठाकुर पिता भागवत ठाकुर साकीम देहे
				2306	निजी	गैर-कृषि	0.016	प्रवीण राउत पिता भोला राउत साकीम देहे
				2306	निजी	गैर-कृषि	0.016	महावीर साह पिता रामसुन्दर साह साकीम देहे
				2230	सरकारी	सड़क	0.016	बिहार सरकार
				1550	निजी	कृषि	0.112	महावीर साह पिता रामसुन्दर साह साकीम देहे
				1551	निजी	कृषि	0.064	महावीर साह पिता रामसुन्दर साह साकीम देहे
				1552	निजी	कृषि	0.08	महावीर साह पिता रामसुन्दर साह साकीम देहे
				1555	सरकारी	सड़क	0.2	बिहार सरकार
				1554	सरकारी	सड़क	0.064	बिहार सरकार
				1553	सरकारी	सड़क	0.068	बिहार सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(15) पिपरीलिया	31	सरकारी	सड़क	0.072	बिहार सरकार
				32	निजी	कृषि	0.068	अब्दुल मन्नान पिता अउलगनी साकीम देहे
				33	निजी	कृषि	0.034	बीबी रहनाग एवं बीबी सफरा खातून पति अब्दुल गनी उर्फ छेदी साकीम देहे एवं मो. हासीम पिता हामीद साकीम देहे
				42	निजी	कृषि	0.08	मो. अब्बास पिता दरमान साकीम देहे, अब्दुल मन्नान पिता अउल गनी साकीम देहे, जैनुल हक पिता बसौली साकीम देहे एवं मो. जब्बार पिता जिबारुल साकीम देहे
				45	निजी	कृषि	0.052	मो. हालीम पिता ताहिर साकीम देहे एवं अब्दुल बारीक पिता तालिम साकीम देहे
				46	निजी	कृषि	0.088	हाकीम एवं बारिश पिता बशील साकीम देहे एवं इलियास पिता दरमानी साकीम देहे
				47	निजी	कृषि	0.028	मो. हासीम पिता मोहीम साकीम देहे एवं इलियास पिता दरमानी साकीम देहे
				111	निजी	कृषि	0.012	देवनारायण माहतो पिता भुलर माहतो साकीम देहे
				113	निजी	कृषि	0.056	वैद्यनाथ माहतो पिता गोपाल माहतो साकीम देहे
				116	सरकारी	सड़क	0.028	बिहार सरकार
				139	निजी	कृषि	0.024	गुलाम मुस्ताफा मो. सौदिक साकीम देहे
				265	निजी	कृषि	0.116	सैयद पिता मजीर अली साकीम देहे, मो. दाउद पिता मुलेमान साकीम देहे एवं मो. बदरुद्दीन पिता ईसा साकीम—देहे
				266	निजी	गैर—कृषि	0.1	दनीलाल चौपाल पिता भीलय चौपाल साकीम देहे, जगरनाथी चौपाल पिता सोनेलाल चौपाल साकीम देहे, खुशीलाल साह पिता अब्दुल अजीत साकीम देहे एवं बनवाली चौपाल पिता भीलय चौपाल साकीम देहे
				294	निजी	गैर—कृषि	0.088	हिफजुर रहमान एवं मंजूर पिता मुलेमान साकीम देहे एवं अब्दुल बारीक पिता मुस्ताक साकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				295	निजी	गैर-कृषि	0.118	रसीद सिदीक पिता अब्दुल मोगली साकीम देहे, मो. सलीम पिता हबीब साकीम देहे, मो. कुदुस पिता अहमद साकीम देहे, स्व. सकीना पति मो. शमील मो. लुटफुल्लाह पिता हाफीज अब्दुल सलीम साकीम देहे, मो. जहीरुद्दीन पिता शफीउर्रहमान मो. हारून पिता बसीर साकीम देहे मो. मुस्तकीम पिता मो. दाउद साकीम देहे मो. मुस्ताक पिता दाउद साकीम देहे एवं मो फारूक पिता बसीर साकीम देहे
				296	निजी	कृषि	0.068	मो.सकीमना पति मो. शमील साकीम देहे, मो. जहीरुद्दीन पिता शफीरुद्दीन साकीम देहे; मो शमीउल्लाह एवं काली भल्ल्य पिता हाजी हाकीम साकीम देहे, मो. लतफुल्लाह पिता हाफीज अब्दुल सलीम साकीम देहे एवं मो. लुदफुल्लाह पिता हाफीज हलीम एवं शमी उल्लाह पिता हनीफ साकीम देहे
				307	निजी	गैर-कृषि	0.006	मो. मुस्तफा एवं मो. हाफीज पिता मो. हबीब
				341	निजी	गैर-कृषि	0.006	मो. अमानुल्लाह पिता हाफीज अब्दुल हलीम साकीम देहे
				342	निजी	गैर-कृषि	0.01	हजी अब्दुल हाकीम एवं मो. तस्लीम पिता अवरहुसैन साकीम देहे एवं मो अमानुल्लाह पिता हाफीज अब्दुल हलीम साकीम देहे
				351	निजी	गैर-कृषि	0.044	फुलियाही चौपाल पिता गुल्की चौपाल साकीम देहे, सलाउल्लाह पिता अलाउल्लाह साकीम देहे एवं मो. अख्तारी पति मरहुम असउल सकुर साकीम देहे
				350	सरकारी	सड़क	0.028	बिहार सरकार
				401	निजी	गैर-कृषि	0.026	दुखन माहतो पिता पुरन माहतो साकीम देहे एवं दिलीप माहतो पिता रामचन्द्र माहतो साकीम देहे
				408	निजी	गैर-कृषि	0.02	बालेश्वर चौपाल पिता तेतर चौपाल एवं बेचन चौपाल पिता रामजी चौपाल साकीम देहे
				409	निजी	गैर-कृषि	0.008	लखन चौपाल पिता बाबुजी चौपाल साकीम देहे
				34	निजी	कृषि	0.032	अमाउल्लाह पिता हामीद साकीम देहे
				41	निजी	कृषि	0.02	अब्दुल अदूट पिता अब्दुल अफीज साकीम देहे
				58	निजी	कृषि	0.06	बिरजू माहतो पिता मेही माहतो साकीम देहे, शफीउल्लाह पिता उस्मान साकीम देहे, बिरजू माहतो पिता मेही माहतो साकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				102	निजी	कृषि	0.044	बेचन माहतो पिता भुल्लर माहतो एवं वैद्यनाथ माहतो पिता गोपाल माहतो साकीम देहे
				101	निजी	कृषि	0.008	जुल्लैय माहतो पिता पंचु माहतो साकीम देहे
				27	निजी	कृषि	0.028	मो. इलियाम पिता दरमान साकीम देहे
				43	निजी	कृषि	0.076	मो. मुतुल्लाह पिता अब्दुल हाकीम साकीम देहे एवं मो. शफुल रहमान पिता हालीम साकीम देहे
				60	निजी	कृषि	0.028	महावीर माहतो पिता भुल्लर माहतो साकीम देहे
				61	निजी	कृषि	0.032	कुशेश्वर माहतो एवं सिधेश्वर माहतो पिता कैलू माहतो साकीम देहे
				62	निजी	कृषि	0.032	महावीर माहतो पिता दुखी माहतो साकीम देहे
				63	निजी	कृषि	0.168	वैद्यनाथ माहतो पिता गोपाल माहतो साकीम देहे देवनारायण माहतो पिता रामटहल माहतो साकीम देहे, महावीर माहतो पिता दुखी माहतो साकीम देहे, महावीर माहतो पिता दुखी माहतो साकीम देहे, देवनारायण माहतो पिता रामटहल माहतो साकीम देहे एवं देव नारायण माहतो एवं वैद्यनाथ माहतो पिता रामटहल माहतो साकीम देहे
				96	निजी	कृषि	0.032	जहुर हजूम पिता इशाक हजूम साकीम देहे
				64	निजी	गैर-कृषि	0.06	राम बहादुर माहतो पिता चन्देश्वर माहतो एवं खुशीलाल माहतो पिता नैवट माहतो एवं रामलाल माहतो पिता रामेश्वर माहतो साकीम देहे
				94	निजी	कृषि	0.012	देवनारायण माहतो पिता रामटहल माहतो साकीम देहे
				100	निजी	कृषि	0.316	वैद्यनाथ माहतो पिता गोपाल माहतो साकीम देहे, देवनारायण माहतो पिता रामटहल माहतो साकीम देहे, देवनारायण माहतो पिता भुल्लर माहतो साकीम देहे एवं वैद्यनाथ माहतो पिता गोपाल माहतो साकीम देहे
				97	निजी	कृषि	0.06	कुशेश्वर माहतो पिता कैलू माहतो साकीम देहे एवं कुशेश्वर माहतो एवं जुल्लैय माहतो एवं महावीर माहतो पिता कैलू माहतो एवं बेचू माहतो एवं दुखी माहतो साकीम देहे
				114	निजी	कृषि	0.14	देवनारायण माहतो पिता रामटहल माहतो साकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				115	निजी	कृषि	0.168	महावीर माहतो पिता दुखी माहतो साकीम देहे, बेचन माहतो पिता भुलर माहतो साकीम देहे, महावीर माहतो पिता दुखी माहतो साकीम देहे एवं बेचन माहतो पिता भुलर माहतो साकीम देहे
				267	निजी	गैर-कृषि	0.076	मो. जमीर रैन पिता अलील एवं मुख्तार पिता मो. दरमान साकीम देहे
				260	निजी	कृषि	0.036	मो. बसीर पिता मो. तस्लीम साकीम देहे एवं मो. बसीर पिता मो. तस्लीम साकीम देहे
			(16) अररिया संग्राम	2167	निजी	गैर-कृषि	0.024	राममिलन ठाकुर एवं कृष्णा ठाकुर एवं रामसुन्दर ठाकुर पिता महावीर ठाकुर साकीम देहे
				2165	निजी	गैर-कृषि	0.012	लखन एवं रामसोभीत ठाकुर साकीम देहे
				2145	निजी	कृषि	0.02	रजनेन्द्र मंडल पिता रामदेव मंडल साकीम देहे
				2139	निजी	कृषि	0.092	शिवनारायण मंडल पिता रामगुलाम मंडल साकीम देहे
				1406	निजी	गैर-कृषि	0.016	मो. शफीउररहमान पिता चुरहैय रहमान साकीम देहे
				1741	निजी	गैर-कृषि	0.428	रामगुलाम माहतो पिता बलदेव माहतो साकीम देहे, रामगुलाम माहतो पिता बलदेव माहतो साकीम देहे, योगेन्द्र माहतो पिता जय नारायण माहतो साकीम देहे, जागेश्वर माहतो एवं बालेश्वर माहतो साकीम देहे, राम बहादुर माहतो एवं रामलखन माहतो पिता सुकन माहतो साकीम देहे, लखन साह पिता रामकिशुन साह साकीम देहे, अरुण कुमार माहतो पिता वैद्यनाथ माहतो साकीम देहे, भोला माहतो पिता गोविन्द माहतो साकीम देहे, योगेन्द्र माहतो पिता नधु माहतो साकीम देहे, कन्हैया झा एवं गुड्डू झा पिता चन्द्रमोहन झा साकीम देहे, गुलाबचन्द झा एवं शंकर कुमार झा पिता लक्ष्मण झा साकीम देहे, रामधुन माहतो पिता खल्लार माहतो साकीम देहे एवं लक्ष्मी माहतो पिता खल्लार माहतो साकीम देहे
				1771	निजी	गैर-कृषि	0.076	विरजू माहतो पिता लालचन्द माहतो साकीम देहे, बहादुर माहतो पिता सुकन माहतो साकीम देहे, बालेश्वर माहतो एवं जागेश्वर माहतो पिता बाउल्लर माहतो साकीम देहे, सिधेश्वर माहतो पिता सुन्दर माहतो साकीम देहे, गंगा राम माहतो एवं लाल बहादुर पिता राम प्रसाद माहतो साकीम देहे एवं लक्ष्मण माहतो

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1729	निजी	गैर-कृषि	0.008	रामनाथ माहतो पिता खतार माहतो साकीम देहे
				1658	निजी	गैर-कृषि	0.036	गुलाबचन्द्र झा एवं शंकर कुमार झा पिता लक्ष्मण झा साकीम देहे, राम नाथ माहतो पिता खतार माहतो साकीम देहे, रामाधुन माहतो पिता खतार माहतो साकीम देहे एवं लक्ष्मी माहतो पिता खतार माहतो साकीम देहे
				1655	सरकारी	सड़क	0.008	बिहार सरकार
				1637	निजी	गैर-कृषि	0.008	राजेन्द्र झा पिता बालकृष्ण झा साकीम देहे एवं मो. इमामुद्दीन पिता निजामुद्दीन साकीम देहे
				1636	निजी	गैर-कृषि	0.012	राजेन्द्र झा पिता बालकृष्ण झा साकीम देहे एवं मो. इमामुद्दीन पिता निजामुद्दीन साकीम देहे
				1586	निजी	गैर-कृषि	0.016	शिवजी साह पिता भागवत साह साकीम देहे एवं राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पिता जगरनाथ प्रसाद गुप्ता साकीम देहे
				1584	निजी	गैर-कृषि	0.032	राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पिता जगरनाथ प्रसाद गुप्ता साकीम देहे, नथुनी प्रसाद गुप्ता पिता योगेन्द्र प्रसाद गुप्ता साकीम देहे एवं महावीर पूर्वे पिता रामचन्द्र पूर्वे साकीम देहे
				1583	निजी	गैर-कृषि	0.008	महावीर पूर्वे पिता रामचन्द्र पूर्वे साकीम देहे
				1215	निजी	गैर-कृषि	0.064	इदरीस रईन पिता इस्लाम रईन साकीम देहे, झल मोह. एवं कादिर रईन पिता इलियास रईन साकीम देहे, अली हसन पिता फजले हक साकीम देहे, जीमल टेलर पिता कासीम टेलर साकीम देहे, राम पुकार माहतो पिता मुन्नीलाल माहतो साकीम देहे एवं नागेन्द्र माहतो एवं किशोरी माहतो पिता राम प्रसाद माहतो साकीम देहे
				1219	निजी	गैर-कृषि	0.0266	राजो देवी पति महेश प्रसाद गुप्ता साकीम देहे वैद्यनाथ प्रसाद गुप्ता एवं नारायण प्रसाद गुप्ता पिता महेन्द्र प्रसाद गुप्ता साकीम देहे मो. ताहीर हुसैन पिता मोसमीन साकीम देहे, डा. नासर एवं जाफर हुसैन पिता मजहर हुसैन साकीम देहे
				1220	निजी	गैर-कृषि	0.016	मो. ताहिर हुसैन पिता मोसमीन साकीम देहे एवं मो. सदकाल हक पिता अताउलका हक साकीम देहे
				1221	सरकारी	सड़क	0.004	बिहार सरकार
				1222	निजी	गैर-कृषि	0.028	मो. नसीमुद्दीन पिता मईउद्दीन एवं अलाउद्दीन पिता उस्मान साकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1223	सरकारी	सड़क	0.008	बिहार सरकार
				1224	निजी	गैर-कृषि	0.008	मो. इदरीस पिता मोकीम साकीम देहे एवं मो. जहीर खान पिता कालीमुद्दीन एवं अख्तियार पति दाउद साकीम देहे
				1227	निजी	गैर-कृषि	0.04	रामदेव पूर्वे पिता दुनदुन पूर्वे साकीम देहे, वैद्यनाथ माहतो पिता डोमी माहतो साकीम देहे, जीमल अख्तर पिता वाहिद अख्तर साकीम देहे एवं बादुजान मास्टर पिता चुल्हैय एवं मोईउद्दीन मास्टर पिता उस्मान एवं बीबी कामरूल निशा पति मो. हुसैन साकीम देहे
				1230	सरकारी	सड़क	0.032	बिहार सरकार
				1022	निजी	गैर-कृषि	0.056	मो. जुबैर एवं मो. जहीर एवं महमूद पिता मो. फेकू मो. दाउद साकीम देहे
				1017	निजी	कृषि	0.036	अब्दुल हन्नान एवं शफीउर रहमान मुस्तफा साकीम देहे
				1016	निजी	कृषि	0.024	विश्वनाथ माहतो पिता राजेन्द्र माहतो साकीम देहे
				1013	निजी	कृषि	0.02	मो. सुखदेव पिता यासीन साकीम देहे
				1103	सरकारी	सड़क	0.036	बिहार सरकार
				227	निजी	कृषि	0.08	मो. इदरीस एवं मो. मोबीर एवं शाहिद पिता अयूब साकीम देहे
				1011	सरकारी	सड़क	0.024	बिहार सरकार
				1008	निजी	कृषि	0.072	मो. हारून एवं नासीर पिता सोराजुल हक साकीम देहे, मो. शफीक पिता सुलेमान साकीम देहे एवं रहमान एवं दरमान पिता नवुद साकीम देहे
				1007	निजी	कृषि	0.044	शिवशंकर पूर्वे पिता जगदीश पूर्वे साकीम देहे
				1006	निजी	कृषि	0.024	नसीम उद्दीन पिता मोईउद्दीन साकीम देहे एवं जगदीश पूर्वे पिता सुन्दर पूर्वे साकीम देहे
				1005	निजी	कृषि	0.012	सीतराम प्रसाद पिता मुनीलाल प्रसाद एवं प्रमोद प्रसाद पिता पशुपति प्रसाद

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2170	निजी	गैर-कृषि	0.036	रामसुन्दर चौपाल पिता मईलाल चौपाल एवं राधे श्याम झा पिता बिष्णु दयाल झा साकीम देहे
				2171	निजी	गैर-कृषि	0.012	रामसुन्दर चौपाल पिता मईलाल चौपाल एवं राधे श्याम झा पिता बिष्णु दयाल झा साकीम देहे बेचन चौपाल पिता रामजी चौपाल साकीम देहे एवं बकस चौपाल पिता नुनू चौपाल साकीम देहे
				2172	निजी	गैर-कृषि	0.048	बेचन चौपाल पिता रामजी चौपाल साकीम देहे एवं बकस चौपाल पिता नुनू चौपाल साकीम देहे
				1739	सरकारी	सड़क	0.012	बिहार सरकार
				2148	निजी	कृषि	0.076	राधेश्याम झा पिता पराम झा साकीम देहे
				2250	निजी	गैर-कृषि	0.036	रूपलाल चौपाल पिता बाबुलाल चौपाल साकीम देहे
				2252	निजी	कृषि	0.144	अयलाल मंडल पिता मेही मंडल साकीम देहे, सिधेश्वर मंडल पिता भुवन चौपाल साकीम देहे, राज कुमार साह पिता राम प्रसाद साह साकीम देहे, रामफल साह एवं रामसुन्दर साह पिता सुकल साह साकीम देहे एवं चुरन साह पिता मञ्जु साह साकीम देहे
				2254	निजी	कृषि	0.04	भोला पासवान पिता बौधू पासवान साकीम देहे
				2257	निजी	कृषि	0.096	रामनारायण मंडल पिता परमेश्वर मंडल साकीम देहे, शिवनारायण मंडल पिता स्व. रामगुलाम मंडल साकीम देहे, मुनीलाल मंडल एवं खुशीलाल मंडल पिता रूपलाल मंडल साकीम देहे एवं राम मिलन ठाकुर पिता महावीर ठाकुर साकीम देहे
				2256	निजी	कृषि	0.012	निरसु झा पिता मोहन झा साकीम देहे
				2258	निजी	कृषि	0.024	कौशल्या देवी पति राम मिलन ठाकुर साकीम देहे
				2259	निजी	कृषि	0.004	शिवनारायण साह पिता सुरत साह साकीम देहे
				2261	निजी	कृषि	0.02	जीवछ राम पिता रामेश्वर राम साकीम देहे
				2262	निजी	कृषि	0.068	शिवपूजन मंडल पिता गयाचन्द मंडल साकीम देहे एवं लखन ठाकुर पिता बाबुलाल ठाकुर साकीम देहे
				2211	सरकारी	सड़क	0.012	बिहार सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2312	निजी	गैर-कृषि	0.04	विनोद ठाकुर एवं गंगा ठाकुर पिता जगन्नाथ ठाकुर साकीम देहे एवं भगवान झा पिता बेलभद्र झा एवं योगेन्द्र झा एवं सुरेन्द्र झा पिता बेलभद्र झा साकीम देहे
				3212	निजी	कृषि	0.008	भगवान झा पिता बेलभद्र झा एवं योगेन्द्र झा एवं सुरेन्द्र झा पिता बेलभद्र झा साकीम देहे
				2313	निजी	कृषि	0.012	विद्यानन्द झा पिता रामेश्वर झा साकीम देहे
				2309	निजी	कृषि	0.016	फोउर रहमान पिता चुल्हैय साकीम देहे
				2368	सरकारी	सड़क	0.028	बिहार सरकार
				2327	निजी	गैर-कृषि	0.036	बउएलाल मंडल पिता जगन्नाथ मंडल साकीम देहे एवं मुरारी ठाकुर पिता मदन ठाकुर साकीम देहे
				2354	सरकारी	सड़क	0.032	बिहार सरकार
				2447	निजी	कृषि	0.028	रामबहादुर झा पिता मोहन झा साकीम देहे
				2482	निजी	गैर-कृषि	0.032	दिनेश साह एवं कैलास साह पिता लक्ष्मी साह साकीम देहे, रामचलितर साह पिता लक्ष्मी साह साकीम देहे एवं सत्य नारायण साह पिता शिवनारायण साह साकीम देहे
				2483	निजी	गैर-कृषि	0.016	वैद्यनाथ साह पिता शिवनारायण साह साकीम देहे एवं सत्य नारायण साह पिता शिवनारायण साह साकीम देहे
				2485	निजी	गैर-कृषि	0.024	हरि प्रधान पिता सोलेलाल प्रधान साकीम देहे गणेश प्रधान पिता चन्देश्वर प्रधान साकीम देहे, महावीर प्रधान पिता कारी प्रधान साकीम देहे एवं राम नारायण प्रधान पिता चन्देश्वर प्रधान साकीम देहे
				2496	निजी	गैर-कृषि	0.016	हरि प्रधान पिता सोलेलाल प्रधान साकीम देहे गणेश प्रधान पिता चन्देश्वर प्रधान साकीम देहे, महावीर प्रधान पिता कारी प्रधान साकीम देहे
				2494	निजी	गैर-कृषि	0.008	रामनारायण प्रधान पिता चन्देश्वर प्रधान साकीम देहे
				2486	निजी	गैर-कृषि	0.008	महावीर पूर्वे पिता रामचन्द्र पूर्वे साकीम देहे
				2493	निजी	गैर-कृषि	0.004	महावीर पूर्वे पिता रामचन्द्र पूर्वे साकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2492	निजी	गैर-कृषि	0.012	लखन साह पिता राम किशुन साह साकीम देहे
				2487	निजी	गैर-कृषि	0.008	लखन साह पिता राम किशुन साह साकीम देहे
			(17) वैपुल	4	निजी	कृषि	0.05	कुशेश्वर माहतो पिता कैलू माहतो साकीम देहे
				3	निजी	कृषि	0.012	मो. युनूस पिता वसील साकीम देहे
				5	निजी	कृषि	0.04	मो. युनूस पिता वसील साकीम देहे
				6	निजी	कृषि	0.0036	बलराम माहतो पिता बनवाली माहतो साकीम देहे
				7	निजी	कृषि	0.064	मो. सईद पिता अब्दुल मजीद एवं बदरुद्दीन पिता ईसा साकीम देहे
				8	निजी	कृषि	0.04	बुलहैय माहतो पिता पचु माहतो एवं सिधेश्वर माहतो पिता कैलू माहतो साकीम देहे
				9	निजी	कृषि	0.012	धोला माहतो पिता बछलाल माहतो साकीम देहे
				10	निजी	कृषि	0.024	बंगाली दास पिता. गणेश्वर दास साकीम देहे
				11	निजी	कृषि	0.016	देवलाल माहतो पिता बउआलाल माहतो साकीम देहे
				12	निजी	कृषि	0.02	देवलाल माहतो पिता बउआलाल माहतो साकीम देहे
				17	निजी	कृषि	0.06	बिरजू माहतो पिता मेही माहतो एवं बछलाल माहतो, अछलाल माहतो पिता मुकुन्द माहतो साकीम देहे एवं भरोसी माहतो पिता पुलकीत माहतो साकीम देहे
				30	निजी	कृषि	0.024	महाकान्त माहतो पिता बाबुजी माहतो साकीम देहे
				310	निजी	कृषि	0.02	महाकान्त माहतो पिता बाबुजी माहतो साकीम देहे
				32	सरकारी	सड़क	1.364	बिहार सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				862	निजी	कृषि	0.012	मो. हालीम पिता ताहिर साकीम देहे
		(18) सिन्दुरपुर		1	निजी	कृषि	0.048	नन्दकिशोर साह उर्फ रामनारायण साह पिता महावीर साह साकीम—चनौरागंज
				674	सरकारी	सड़क	0.036	बिहार सरकार
				675	सरकारी	सड़क	0.084	बिहार सरकार
		(19) सोहपुर		218	निजी	गैर—कृषि	0.016	रामकुमारी देवी पति— रामदेव साह, दशरथ साह पिता— ठीठर साह
				219	निजी	गैर—कृषि	0.068	सूर्य नारायण साह पिता—बौआजी साह सकीम देहे, रामचन्द्र साह पिता—जीवछ साह सकीम देहे एवं प्रदीप पिता— रामलखन साह सकीम देहे
				220	निजी	कृषि	0.104	शेख लियाकत एवं वकील अहमद पिता— शेख अब्दुल सकीम देहे, भारत चौधरी पिता— सूबे चौधरी
				221	निजी	कृषि	0.024	भारत चौधरी पिता— सूबे चौधरी
				222	निजी	कृषि	0.016	वकील अहमद पिता— शेख अब्दुल
				223	निजी	गैर—कृषि	0.048	जियाउल हक पिता— मा० हनीफ
				224	निजी	कृषि	0.144	भारत चौधरी पिता— सूबे चौधरी एवं अमीरुल हक पिता— अलीहसन सकीम देहे
				225	सरकारी	सड़क	0.144	बिहार सरकार
				2	सरकारी	सड़क	0.016	बिहार सरकार
				5	निजी	गैर—कृषि	0.052	बिलट साह पिता— प्रसादी साह सकीम देहे, नसीर पिता— करीम सकीम देहे एवं तस्लीम पिता— हबीबुल रहमान सकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				6	निजी	कृषि	0.056	मो० ताजीर पिता— अब्दुल बाहिद सकीम देहे एवं सलीम पिता— रमजानी अली सकीम देहे
				8	निजी	गैर—कृषि	0.132	कैयुम पिता— इस्माइल सकीम देहे, मोजीबुर रहमान पिता— तस्लीम सकीम देहे, हनुमान महतो पिता— श्याम देव महतो एवं डोमी महतो पिता— राम प्रसाद महतो सकीम देहे
				247	निजी	कृषि	0.04	मो० जफ्फर खान पिता— मजहर हुसैन सकीम देहे
				227	निजी	गैर—कृषि	0.032	मो० जफ्फर खान पिता— मजहर हुसैन सकीम देहे एवं जियाउल हक पिता— मो० मुस्तकीम
				228	निजी	गैर—कृषि	0.012	जियाउल हक पिता— मो० मुस्तकीम
				194	निजी	गैर—कृषि	0.022	गोपाल महतो पिता— भुटे महतो सकीम देहे
				178	निजी	गैर—कृषि	0.004	मोजीबुर रहमान पिता— तस्लीम सकीम देहे
				177	निजी	गैर—कृषि	0.002	मोजीबुर रहमान पिता— तस्लीम सकीम देहे
				206	सरकारी	सड़क	0.024	बिहार सरकार
			(20) परसाधन	10	सरकारी	सड़क	0.008	बिहार सरकार
				5	निजी	कृषि	0.036	कमलदेव नारायण सिंह पिता भागवत नारायण सिंह
				15	सरकारी	सड़क	0.164	बिहार सरकार
				16	सरकारी	सड़क	0.172	बिहार सरकार
				17	सरकारी	सड़क	0.148	बिहार सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				35	सरकारी	सड़क	0.016	बिहार सरकार
				77	निजी	कृषि	0.016	राम नारायण यादव पिता महीन्द्र यादव
				86	निजी	कृषि	0.012	झिगुरी राय एवं रामचन्द्र राय पिता अछकलल राय
				87	निजी	कृषि	0.012	सियालाल मंडल पिता चौधरी मंडल
			(21) बैक मछायार	1871	निजी	गैर-कृषि	0.02	जैनुल हक पिता— यूसुफ रहमान सकीम देहे
				1725	निजी	कृषि	0.008	मुनु झा पिता—रुषा झा सकीम देहे
				1702	निजी	कृषि	0.04	मो० बियास पिता— मो० इदरिस सकीम देहे
				1693	निजी	कृषि	0.036	सत्य नारायण प्रसाद जीवरजी पिता केसरी प्रसाद जीवरजी सकीम देहे एवं रामकिशोर झा पिता—मुनीन्द्र झा सकीम देहे
				1678	निजी	कृषि	0.032	मो० सदरुल सकीम देहे
				1667	निजी	कृषि	0.012	राम नारायण पूर्वे पिता—फकीर पूर्वे सकीम देहे
				1666	निजी	कृषि	0.004	राम नारायण पूर्वे पिता—फकीर पूर्वे सकीम देहे
				1872	सरकारी	सड़क	0.084	बिहार सरकार
				2001	निजी	कृषि	0.008	भरत नारायण चौधरी पिता— सुबे चौधरी सकीम देहे
		(3) फुलपरास	(1) मनौर	5433	निजी	कृषि	0.064	ताहिद पिता मो. मजीर अली एवं इमरकान पिता सुल्तान सकीम देहे
				5434	निजी	कृषि	0.012	मो. गुफरान पिता सुल्तान

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				5447	निजी	कृषि	0.036	बदरीउद्दीन पिता इसा एवं दाजी शाहिद पिता मजीर अली, मुख्तार आलम पिता मो. दाउद, बीबी अरफा खातून पति मुख्तार आलम एवं बीबी तैयार खातून पति मोसमीन मस्तान
				5327	सरकारी	सड़क	0.004	बिहार सरकार
				5449	निजी	कृषि	0.016	मो. शमीम पिता गुलाम मुस्तफा एवं मो. मुख्तार पिता दाउद
				5468	निजी	कृषि	0.12	मो. नुरुल इस्लाम पिता मजहूल हक, बीबी तैयार खातून पति मो. शमीम एवं हसनैन खातून पति दाउद एवं मो. मुख्तार
				5471	निजी	गैर-कृषि	0.216	अरफा खातून पति मो. मुख्तार, मो. हीयानुद्दीन पिता निशा एवं तैयफुल निशा पति मो. ईसा, मो. हफजुल्ला पिता दबीब, मो. रीफान पिता सुल्तान बदरुद्दीन पिता ईसा एवं हाजी शाहिद पिता मजीद
				5472	निजी	कृषि	0.04	जलील साह एवं शाहिद साह एवं हानीद साह पति अजीज साह
				5473	निजी	कृषि	0.072	जलील रैन पिता मजलूम रैन एवं मोती रैन एवं बुद्ध रैन पिता बदुल रैन
				5478	निजी	गैर-कृषि	0.038	गलीले रैन, पिता मजलूम रैन एवं बीबी हसीना पति मो. दाउद एवं मुख्तार पिता दाउद
				5475	निजी	गैर-कृषि	0.012	बीबी हसीना पति मो. दाउद एवं मुख्तार पिता दाउद
				5481	निजी	कृषि	0.056	मो. नुरुल इस्लाम पिता मजहूल हक
				5484	निजी	गैर-कृषि	0.184	मो. नुरुल इस्लाम पिता मजहूल हक मो. जहीर पिता मो. शफी एवं रहमान, जिया उल्लाह पिता अब्दुल रज्जाक, मो. हफजुल्लाह पिता हबीब, मजीदार रहमान पिता हबीब वं मो. मंजूर पिता इसराउल हक, मो. याहििया पिता मो. इसराकूल हक, मो. याहिदया पिता मो. इसराकूल हक एवं मो. अब्बाब एवं इदरीसा पिता दरमान
				5491	निजी	गैर-कृषि	0.044	मो. अब्बास एवं इदरीसा पिता दरमान
				5494	निजी	गैर-कृषि	0.06	मो. बदरुद्दीन पिता सादीक, जियाउल्लाह एवं जकुल्लाह पिता मो. समसुल एवं मो. तबरेज पिता जैलुल
				5495	निजी	गैर-कृषि	0.032	मो. शमीद पिता बस्ली

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				5499	निजी	गैर-कृषि	0.032	गुलाम मुस्तफा पिता ईसा
				5496	निजी	गैर-कृषि	0.016	इदरीसा पिता दरमान
				5498	निजी	गैर-कृषि	0.016	इदरीसा पिता दरमान
			(2) सुदैरतौली	5	सरकारी	सड़क	0.028	बिहार सरकार
				88	निजी	कृषि	0.008	अनिरुद्ध साह पिता— बच्चा साह
				98	निजी	कृषि	0.004	सीताराम साह एवं सत्यनारायण साह पिता— जनकलाल साह
				109	निजी	कृषि	0.004	रामचन्द्र कामती पिता— जलधर कामती
				569	सरकारी	सड़क	0.048	निलम्बर लाल साह पिता— अशफा लाल साह
				61	सरकारी	सड़क	2.088	बिहार सरकार
				62	सरकारी	सड़क	0.112	बिहार सरकार
				66	सरकारी	सड़क	0.016	बिहार सरकार
				6143	सरकारी	सड़क	0.056	बिहार सरकार
				6151	सरकारी	सड़क	0.008	बिहार सरकार
				78	निजी	कृषि	0.128	रामचरित्र ठाकुर पिता— सुदर्श ठाकुर एवं धनेश्वर कामती पिता— झिगुर कामती
				6126	सरकारी	कृषि	0.016	बिहार सरकार
				116	निजी	कृषि	0.036	दयाकती देवी पति— महेन्द्र मंडल

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				556	निजी	कृषि	0.032	निलाम्बर लाल साह पिता— अशर्फी लाल साह
				567	निजी	कृषि	0.02	बैद्यनाथ प्रसाद साह पिता— अशर्फी लाल साह
				8148	सरकारी	सड़क	0.008	बिहार सरकार
				573	निजी	कृषि	0.016	निलाम्बर लाल साह पिता— अशर्फी लाल साह
				571	निजी	कृषि	0.008	देवन मंडल
			(3) खोषा	625	निजी	कृषि	0.072	महा मंडल पति— नसीबलाल मंडल सकीम देहे
				627	सरकारी	सड़क	0.004	बिहार सरकार
				20	निजी	कृषि	0.052	रामचंद्र मंडल पिता— जाधर मंडल सकीम देहे, जनक कामत सकीम देहे एवं कमेश्वर कामत सकीम देहे
				123	सरकारी	सड़क	0.08	बिहार सरकार
				148	निजी	कृषि	0.14	सशिनारा मिश्रा सकीम देहे, केदारनाथ मिश्रा सकीम देहे एवं राजेश्वर मिश्रा पिता— देवनाथ मिश्रा सकीम देहे
				162	सरकारी	सड़क	1.472	बिहार सरकार
				163	सरकारी	सड़क	0.036	बिहार सरकार
				166	निजी	कृषि	0.004	बजीर मियाँ पिता— शमशेर मियाँ सकीम देहे
				172	निजी	गैर—कृषि	0.004	दिलावर मियाँ पिता—भोले मियाँ एवं सुलेमान मियाँ पिता— पुलकित मियाँ सकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				167	निजी	गैर-कृषि	0.008	सुलेमान मियाँ पिता—पुरुषिदा मियाँ सकीम देहे
				168	निजी	गैर-कृषि	0.004	सुलेमान मियाँ पिता—पुरुषिदा मियाँ सकीम देहे
				164	निजी	गैर-कृषि	0.016	जान मोहम्मद पिता—स्व० छेदी मियाँ सकीम देहे एवं राजेश मिश्रा पिता— देवनाथ मिश्रा सकीम देहे
				170	निजी	कृषि	0.024	राजेश मिश्रा पिता— देवनाथ मिश्रा सकीम देहे
				193	निजी	कृषि	0.012	सुरील मिश्रा पिता— दीनानाथ मिश्रा एवं राजेश मिश्रा पिता— देवनाथ मिश्रा सकीम देहे
				194	निजी	कृषि	0.104	सुरील मिश्रा पिता— दीनानाथ मिश्रा एवं राजेश मिश्रा पिता— देवनाथ मिश्रा सकीम देहे
				195	निजी	कृषि	0.004	उपेन्द्र मंडल एवं नागेन्द्र मंडल पिता— कुशेश्वर मंडल सकीम देहे
				199	निजी	कृषि	0.096	परिखण मंडल पिता—ब्रजम मंडल सकीम देहे, गोपाली मंडल पिता— परिलाल मंडल सकीम देहे एवं जगदीश मंडल पिता— ठीठर मंडल सकीम देहे
				201	निजी	कृषि	0.096	सान्तिनाथ मिश्रा सकीम देहे एवं राजेश मिश्रा पिता— देवनाथ मिश्रा सकीम देहे
				204	निजी	कृषि	0.032	राजेश मिश्रा पिता— देवनाथ मिश्रा सकीम देहे एवं सान्तिनाथ मिश्रा सकीम देहे
				205	निजी	गैर-कृषि	0.024	शंभूनाथ मिश्रा पिता— काशीनाथ मिश्रा एवं लक्ष्मण मिश्रा पिता— भोलानाथ मिश्रा सकीम देहे
				206	निजी	गैर-कृषि	0.04	सान्तिनाथ मिश्रा पिता दीनानाथ मिश्रा वगैरह

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				210	निजी	गैर-कृषि	0.092	गौरीनाथ मिश्रा एवं केदारनाथ मिश्रा एवं शशिनाथ मिश्रा पिता— विश्वनाथ मिश्रा सकीम देहे, गौरीनाथ मिश्रा एवं केदारनाथ मिश्रा एवं शशिनाथ मिश्रा पिता— विश्वनाथ मिश्रा सकीम देहे, विनय कुमार झा एवं सुमन कुमार झा पिता— रामेश्वर मिश्रा सकीम देहे, मनोज ठाकुर पिता— अरूण ठाकुर सकीम देह, शशिनाथ मिश्रा सकीम देहे, गौरीनाथ मिश्रा, केदार नाथ मिश्रा पिता— विश्वनाथ मिश्रा सकीम देहे, शशिनाथ मिश्रा सकीम देहे एवं विनय कुमार झा एवं सुमन कुमार झा पिता— रामेश्वर मिश्रा सकीम देहे
				212	निजी	गैर-कृषि	0.016	विनय कुमार झा एवं सुमन कुमार झा पिता— रामेश्वर मिश्रा सकीम देहे एवं केदार नाथ मिश्रा पिता— विश्वनाथ मिश्रा सकीम देहे
				213	निजी	गैर-कृषि	0.016	केदार नाथ मिश्रा पिता— विश्वनाथ मिश्रा सकीम देहे
				220	निजी	गैर-कृषि	0.096	मांती मंडल पिता— रामजी मंडल सकीम देहे, सोती मंडल पिता— रामजी मंडल सकीम देहे, उत्तिम लाल साह पिता—रामजी साह सकीम देहे, जयवीर झा एवं प्रमोद झा पिता— सुरैत झा सकीम देहे, मोहन साह एवं सोहन साह पिता— धनेश्वर साह, माधवनाथ ठाकुर पिता—रघुनाथ ठाकुर, उत्तिम लाल साह पिता—रामजी साह सकीम देहे, रसिकलाल चौधरी एवं तिरपित नारायण चौधरी पिता— रामनारायण चौधरी, अर्जुन झा पिता— ठक्कन झा, उमाकान्त झा
				219	निजी	कृषि	0.004	शोभाकान्त झा एवं पुलकित झा एवं अमरनाथ झा पिता— ठक्कन झा
				218	निजी	कृषि	0.008	शंभुनाथ मिश्रा पिता— कारीनाथ मिश्रा सकीम देहे
				221	निजी	गैर-कृषि	0.04	जयवीर झा पिता— सुरैत झा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				222	सरकारी	सड़क	0.004	बिहार सरकार
				224	निजी	गैर-कृषि	0.088	अरूण मंडल पिता— सियालाल मंडल, रामप्रसाद मंडल पिता— जुगेश्वर मंडल, दिनेश कुमार एवं दिलिप कुमार पिता— जीवछ साह, ठक्के साह एवं सियाराम पिता— गोकुल साह, शिवशंकर साह एवं लक्ष्मण साह पिता— अशर्फी साह, देवनारायण साह पिता— गोविन्द साह, बीएलाल साह पिता— मोती साह, रामदेव साह पिता— भोला साह, जगदीश ठाकुर पिता— गुल्ली ठाकुर एवं विश्वनाथ मंडल पिता— मकेश्वर मंडल
				230	निजी	गैर-कृषि	0.036	अवध मल्लिक-पिता— खु मल्लिक सकीम देहे, ब्रजेश झा पिता— राधारमण झा, तुले ठाकुर पिता— दुखी ठाकुर सकीम देहे एवं केदार नाथ मिश्रा पिता— विश्वनाथ मिश्रा सकीम देहे
				229	निजी	गैर-कृषि	0.028	ब्रजेश झा पिता— राधारमण झा, केदार नाथ मिश्रा पिता— विश्वनाथ मिश्रा सकीम देहे एवं गौरीनाथ मिश्रा सकीम देहे
				231	निजी	कृषि	0.136	गौरीनाथ मिश्रा सकीम देहे, केदार नाथ मिश्रा पिता— विश्वनाथ मिश्रा सकीम देहे, हरिलाल मंडल पिता— रूपलाल मंडल, गौरीनाथ मिश्रा सकीम देहे, सशिन मिश्रा सकीम देहे एवं गौरीनाथ मिश्रा सकीम देहे, केदार नाथ मिश्रा पिता— विश्वनाथ मिश्रा सकीम देहे
				239	निजी	कृषि	0.02	केदार नाथ मिश्रा पिता— विश्वनाथ मिश्रा सकीम देहे
				232	निजी	कृषि	0.016	सशिन मिश्रा एवं केदार नाथ मिश्रा पिता— विश्वनाथ मिश्रा सकीम देहे
				237	निजी	कृषि	0.008	सशिन मिश्रा एवं केदार नाथ मिश्रा पिता— विश्वनाथ मिश्रा सकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				233	निजी	कृषि	0.068	गौरीनाथ मिश्रा सकीम देहे, केदार नाथ मिश्रा पिता— विश्वनाथ मिश्रा सकीम देहे, सशिनाथ मिश्रा सकीम देहे एवं केदार नाथ मिश्रा पिता— विश्वनाथ मिश्रा सकीम देहे
				235	निजी	कृषि	0.028	गौरीनाथ मिश्रा सकीम देहे एवं गौरीनाथ मिश्रा सकीम देहे
				234	निजी	कृषि	0.012	केदार नाथ मिश्रा पिता— विश्वनाथ मिश्रा सकीम देहे
				165	निजी	गैर—कृषि	0.008	दिलशबर मियाँ पिता—भोले मियाँ एवं सुलेमान मियाँ पिता— पुलकित मियाँ सकीम देहे
				169	निजी	गैर—कृषि	0.004	दिलशबर मियाँ पिता—भोले मियाँ एवं सुलेमान मियाँ पिता— पुलकित मियाँ सकीम देहे
				103	सरकारी	सड़क	0.004	बिहार सरकार
			(4) कोनार	98	निजी	गैर—कृषि	0.016	गुलाम रसूल पिता—स्व० माधुरी मिया सकीम देहे
				132	सरकारी	सड़क	0.008	बिहार सरकार
				564	निजी	कृषि	0.012	रामरसी यादव पिता—सुरीत यादव सकीम देहे
				567	निजी	कृषि	0.106	रामबहादुर यादव पिता— अमृत यादव सकीम देहे एवं रामरसी यादव पिता—सुरीत यादव सकीम देहे
				568	निजी	कृषि	0.36	रामरसी यादव पिता—सुरीत यादव सकीम देहे एवं सीताराम यादव पिता—अवध यादव सकीम देहे
				548	निजी	कृषि	0.392	सीताराम यादव पिता—अवध यादव सकीम देहे एवं सीताराम यादव पिता जीवछ यादव
				723	निजी	गैर—कृषि	0.1	बुद्धन पिता स्व. इसाद मो. कासीम पिता स्व. मो. जीवरल

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				734	निजी	गैर-कृषि	0.084	जान मोहम्मद पिता—स्व० छेदी मियाँ सकीम देहे, मो० जलिल पिता— स्व० शैबु मिया सकीम देहे, मो० गफुर एवं खालिद एवं सुलेमान पिता—बुधु मिया सकीम देहे, खुश मोहम्मद एवं मो० इजराइल एवं सुभम एवं दूख पिता—शेखावत सकीम देहे एवं मो० मुस्तफ़ा पिता— स्व० मो० रियाफत मियाँ सकीम देहे
				738	निजी	कृषि	0.008	मो० मुस्तफ़ा पिता— स्व० मो० रियाफत मियाँ सकीम देहे
				733	निजी	कृषि	0.028	दिल मोहम्मद पिता— बच्चा मियाँ सकीम देहे एवं मो० अली हक पिता—इस्लाम सकीम देहे
				740	निजी	गैर-कृषि	0.008	बाहिद पिता— समशेर मियाँ सकीम देहे
				730	निजी	गैर-कृषि	0.008	बाहिद पिता— समशेर मियाँ सकीम देहे
				729	निजी	कृषि	0.252	वजीर मियाँ पिता— शमशेर मियाँ सकीम देहे, जलील मियाँ पिता— बुधु मियाँ सकीम देहे, बजीर मियाँ पिता—शमशेर मियाँ एवं जलील मियाँ पिता— बुधु मियाँ सकीम देहे बजीर मियाँ पिता—शमशेर मियाँ सकीम देहे एवं बाहिद मियाँ पिता — जमील मियाँ सकीम देहे
				724	निजी	कृषि	0.016	मो० बुधन पिता— स्व० इशाक सकीम देहे
				726	निजी	कृषि	0.052	मो० शकील पिता— शेखावत सकीम देहे, मो० हकीम पिता—शेखावत सकीम देहे
				727	निजी	कृषि	0.004	जलील मियाँ पिता— बुधु मियाँ सकीम देहे
				709	सरकारी	सड़क	0.004	बिहार सरकार
				708	निजी	कृषि	0.014	भोला यादव पिता— बुआ यादव सकीम देहे, गंगा पाण्डे पिता— बलभद्र पाण्डे सकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				707	निजी	कृषि	0.064	तिरपित यादव पिता— स्व० जीवन यादव सकीम देहे, धनुरण यादव पिता— श्रीधर यादव सकीम देहे, धनुरण यादव पिता— श्रीधर यादव सकीम देहे
				704	निजी	गैर—कृषि	0.092	तिरपित मिश्रा पिता— स्व० भीम मिश्रा सकीम देहे, तिरपित मिश्रा पिता— स्व० भीम मिश्रा सकीम देह एवं रामऔतार यादव पिता— स्व० बंसीलाल यादव सकीम देहे
				703	निजी	कृषि	0.02	सीताराम यादव पिता—अवध यादव सकीम देहे
				702	निजी	गैर—कृषि	0.028	सीताराम यादव पिता—अवध यादव सकीम देहे
				691	सरकारी	सड़क	0.024	बिहार सरकार
				657	निजी	कृषि	0.012	रामबहादुर यादव पिता— अमृत यादव सकीम देहे
				656	निजी	कृषि	0.016	रामबहादुर यादव पिता— अमृत यादव सकीम देहे
				655	सरकारी	गैर—कृषि	0.036	बिहार सरकार
				652	सरकारी	गैर—कृषि	0.032	बिहार सरकार
				648	निजी	कृषि	0.112	बहादुर यादव पिता— सोते यादव सकीम देहे, शिव नारायण यादव पिता— शाहवीर यादव सकीम देहे, देव नारायण यादव पिता— महावीर यादव सकीम देहे
				644	निजी	कृषि	0.028	तेजलाल यादव पिता— उचित लाल यादव सकीम देहे
				612	निजी	कृषि	0.032	भागवत यादव पिता— रसलाल यादव सकीम देहे
				611	सरकारी	कृषि	0.044	बिहार सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				610	निजी	कृषि	0.144	हासय सदाय पिता— मोती सदाय सकीम देहे, मोती सदाय पिता— जदु सहाय सकीम देहे, सीता सफी पिता— हरिवन्द दास सकीम देहे
				608	निजी	कृषि	0.056	रामसुन्दर यादव पिता— तुनकलाल यादव सकीम देहे
				607	निजी	कृषि	0.024	दानी यादव पिता— रघुनन्दन यादव सकीम देहे
				598	सरकारी	कृषि	0.004	बिहार सरकार
				1059	निजी	कृषि	0.04	सीताराम यादव पिता—अवध यादव सकीम देहे, मोती पासवान पिता— संगम पासवान सकीम देहे
				596	निजी	कृषि	0.024	युगल किशोर यादव पिता— दोगे यादव सकीम देहे
				595	निजी	कृषि	0.044	हिगम लाल यादव पिता— कुकरू यादव सकीम देहे, फुदन यादव पिता— ज्ञानी यादव सकीम देहे
				594	निजी	कृषि	0.028	शिवनाथ ठाकुर पिता— अगम ठाकुर सकीम देहे
				569	निजी	कृषि	0.528	जुगल लाल यादव सकीम देहे
				593	सरकारी	कृषि	0.02	बिहार सरकार
				592	सरकारी	कृषि	0.024	बिहार सरकार
				591	निजी	कृषि	0.024	कपिलदेव ठाकुर पिता— बिन्देश्वर ठाकुर सकीम देहे
				590	निजी	कृषि	0.016	रामचन्द्र ठाकुर सकीम देहे
				589	निजी	कृषि	0.024	अगम ठाकुर सकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				570	सरकारी	कृषि	0.12	बिहार सरकार
				134	सरकारी	सड़क	0.112	बिहार सरकार
				571	सरकारी	सड़क	0.052	बिहार सरकार
				572	निजी	कृषि	0.012	रामबहादुर यादव पिता फुदन यादव
				581	सरकारी	सड़क	0.008	बिहार सरकार
			(5) बिशुनपुर गाढ़ाटोल	519	सरकारी	नदी	0.048	बिहार सरकार
				878	सरकारी	गैर—कृषि	0.064	बिहार सरकार
				916	निजी	गैर—कृषि	0.028	बालू कृष्णा झा एवं शिवकान्त झा पिता—जीवनाथ झा सकीम देहे
				917	निजी	गैर—कृषि	0.016	धनजय झा पिता—आमिर झा एवं श्याम झा पिता— कृष्णानन्द झा सकीम देहे
				918	निजी	कृषि	0.006	हरि मोहन झा पिता— सुशील झा सकीम देहे
				923	सरकारी	सड़क	0.02	बिहार सरकार
				926	सरकारी	सड़क	0.032	बिहार सरकार
				831	सरकारी	सड़क	0.16	बिहार सरकार
				932	निजी	कृषि	0.048	रामकिसुन ठाकुर पिता—मटर ठाकुर सकीम देहे
				937	सरकारी	सड़क	0.01	बिहार सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				940	निजी	कृषि	0.148	गणपति ठाकुर पिता—मंगल ठाकुर सकीम देहे, विधाय ठाकुर पिता— मंगल ठाकुर सकीम देहे, रामकिसुन ठाकुर पिता—मटर ठाकुर सकीम देहे, मंगनु ठाकुर पिता — मटर ठाकुर सकीम देहे, करी ठाकुर पिता — मटर ठाकुर सकीम देहे, सतीशचन्द्र झा पिता—भूप नारायण झा सकीम देहे, कुमार झा पिता — मधुरा झा सकीम देहे एवं मिश्री लाल ठाकुर पिता— पछू ठाकुर सकीम देहे
				943	निजी	कृषि	0.008	मिश्री लाल ठाकुर पिता— पछू ठाकुर सकीम देहे
				944	निजी	कृषि	0.052	कृष्णा नन्द झा पिता —कुशेश्वर झा सकीम देहे
				945	निजी	कृषि	0.068	जानकी प्रसाद पिता —कुशेश्वर झा सकीम देह एवं कृष्णा नन्द झा पिता —कुशेश्वर झा सकीम देहे
				949	निजी	कृषि	0.02	हर्ष नारायण झा पिता —अनुप नारायण झा सकीम देहे
				950	निजी	गैर—कृषि	0.02	बहादुर राम पिता—कान्ति राम सकीम देहे
				951	सरकारी	गैर—कृषि	0.032	बिहार सरकार
				952	निजी	गैर—कृषि	0.004	कैलु राम पिता— खुशी लाल राम सकीम देहे
				956	निजी	गैर—कृषि	0.064	कैलु राम पिता— खुशी लाल राम सकीम देहे, गाविन्द एवं छोटकन एवं बोकु राम एवं पंचू राम पिता —खुशीलाल राम सकीम देहे एवं गाविन्द एवं छोटकन एवं बोकु राम एवं पंचू राम पिता —खुशीलाल राम सकीम देहे
				955	निजी	गैर—कृषि	0.004	डोमी राम एवं चंदु राम पिता— बुधन राम सकीम देहे
				957	निजी	गैर—कृषि	0.024	डोमी राम एवं चंदु राम पिता— बुधन राम सकीम देहे
				1076	निजी	कृषि	0.008	चिरंजीव झा पिता— दौआ झा एवं बेचन झा पिता— हरिवचंद्र झा एवं अखिलेश झा पिता — देव कृष्ण झा एवं कृत नारायण झा पिता— बद्री झा सकीम देहे
				1124	निजी	गैर—कृषि	0.008	देवकी पति— खत्तार ठाकुर सकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(8) सिजौलिया	3956	निजी	कृषि	0.048	अरूण झा पिता— स्व० भुवनेश्वर झासकीम देहे, नर्भयी झा पिता— स्व० चतुरानन्द झा एवं नवीन झा पिता—अलीफ झा सकीम देहे
				3959	निजी	कृषि	0.08	अरूण झा पिता— स्व० भुवनेश्वर झासकीम देहे, नर्भयी झा पिता— स्व० चतुरानन्द झा एवं नवीन झा पिता—अलीफ झा सकीम देहे
				3873	सरकारी	कृषि	0.072	बिहार सरकार
				3869	सरकारी	कृषि	0.048	बिहार सरकार
				4515	निजी	कृषि	0.032	गौरी शंकर झा पिता—मुरूत झा सकीम देहे
				4510	सरकारी	सड़क	1.008	बिहार सरकार
				4531	सरकारी	सड़क	0.1	बिहार सरकार
				3396	निजी	गैर—कृषि	0.056	यदुलाल यादव पिता— स्व० बोएलाल यादव सकीम देहे
				3397	निजी	कृषि	0.092	महीन्द्र झा पिता धुरन झा, कपिलदेव राय पिता स्व० सुखदेव राय एवं सतन यादव पिता गुदरी यादव
				4564	निजी	कृषि	0.096	राजेश झा पिता— स्व० इन्द्रकान्त झा सकीम देहे, बोएजी झा पिता— स्व० शिव शंकर झा सकीम देहे, राजीन्द्र झा पिता— स्व० जीतू झा सकीम देहे एवं दिलिप कुमार झा पिता— स्व० फुलेश्वर झा सकीम देहे
				4563	निजी	कृषि	0.04	सुमित्रा देवी पत्नी— स्व० रामदेव यादव सकीम देहे
				4562	निजी	कृषि	0.04	सुमित्रा देवी पत्नी— स्व० रामदेव यादव सकीम देहे एवं जय किशोर मिश्रा पिता— स्व० यदुवीर मिश्रा सकीम देहे
				4560	निजी	कृषि	0.044	बोएजी झा पिता— स्व० शिव शंकर झा सकीम देहे
				4547	निजी	कृषि	0.096	जय नारायण यादव पिता— रामदेव यादव सकीम देहे एवं देव नारायण यादव पिता— कपिलदेव यादव सकीम देहे
				4548	निजी	कृषि	0.012	पृथ्वी लाल यादव पिता— स्व० बंगाली यादव सकीम देहे
				4543	निजी	कृषि	0.1	दयानन्द झा पिता— सहदेव झा सकीम देहे एवं गंगा नन्द झा पिता—स्व० जय नारायण झा सकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4542	निजी	कृषि	0.04	गंगा नन्द झा पिता—स्व० जय नारायण झा सकीम देहे, अशोक झा पिता—गणेश झा सकीम देहे, उदय नारायण झा पिता महेश झा सकीम देहे एवं शंकर झा पिता कपिलेश्वर झा सकीम देहे
				4539	निजी	कृषि	0.024	अशोक झा पिता—गणेश झा सकीम देहे एवं उदय नारायण झा पिता महेश झा सकीम देहे
				4538	निजी	कृषि	0.016	शंकर झा पिता कपिलेश्वर झा सकीम देहे
				4537	निजी	कृषि	0.008	शंकर झा पिता कपिलेश्वर झा सकीम देहे
				4536	निजी	कृषि	0.024	बौआ देवी उर्फ मीना देवी पत्नी—बौआ झा सकीम देहे
				4533	सरकारी	सड़क	0.096	बिहार सरकार
				4697	निजी	कृषि	0.136	नवीन्द्र झा पिता—स्व० गणेश्वर झा सकीम देहे एवं योगेन्द्र मंडल एवं गंगा राम मंडल पिता— जयदेव मंडल सकीम देहे
				4809	सरकारी	कृषि	0.008	बिहार सरकार
				4812	निजी	कृषि	0.004	जयचन्द्र झा पिता— देवकान्त झा सकीम देहे
				3971	निजी	कृषि	0.02	जुगेश्वर मंडल पिता—चुल्हाई मंडल सकीम देहे
				3986	निजी	कृषि	0.04	लेख नारायण झा पिता— स्व० नन्देश्वर झा सकीम देहे
				3994	निजी	कृषि	0.02	चित्रा नारायण झा पिता — स्व० दुखमोचन झा सकीम देहे
			(7) ब्रह्मपुर	131	निजी	कृषि	0.024	यामचन्द्र झापिता— नुनू झा सकीम देहे
				132	सरकारी	सड़क	0.0228	बिहार सरकार
				134	सरकारी	सड़क	0.01	बिहार सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				135	निजी	कृषि	0.056	कालू साह पिता— नेवाजी साह एवं विश्वनाथ साह पिता— लक्ष्मी साह सकीम देहे
				136	निजी	कृषि	0.012	सरोजनंद झा पिता— मोदानन्द झा सकीम देहे
				137	निजी	कृषि	0.012	लालजी मिश्रा सकीम देहे
				214	सरकारी	कृषि	0.013	बिहार सरकार
				1250	निजी	कृषि	0.024	मो० हामिद रजा पिता— समजुद्दीन रजा सकीम देहे
				1245	निजी	गैर—कृषि	0.032	मो० शाहिद रजा एवं मो० जीमल रजा पिता— बलदेव रैन सकीम देहे, मो० मुसलीम एवं मो० इसलाम उर्फ मोहन्जी पिता— नुरूल होदा सकीम देहे एवं मो० युनुस तय्यीन एवं मो० मुमताज आलम पिता— रियासत हुसैन सकीम देहे
				1244	निजी	गैर—कृषि	0.042	मो० इदरीश पिता— शाके रिया सकीम देहे एवं मो० खलील एवं मो० जमील एवं मो० युनुस पिता— याकुब अंसारी सकीम देहे
				1243	निजी	गैर—कृषि	0.03	मो० मुस्तकीम एवं मुस्तफा एवं कयुम एवं नुरूल हसन पिता— मो० अंसारी सकीम देहे, विश्वनाथ झा पिता— तिरपित नारायण झा सकीम देहे एवं मो० जोहरा खातुन पति— नवीजा अंसारी सकीम देहे
				1236	निजी	गैर—कृषि	0.024	अनिल कुमार जायसवाल पिता— महावीर चौधरी सकीम देहे
				9092	निजी	गैर—कृषि	0.244	अनवारूल हक अंसारी पिता— मो० इशाक अंसारी सकीम देहे, माजिद पिता— हनीफ सकीम देहे, इनामुल हक पिता— इशाक अंसारी सकीम देहे, रिजवानुल हक अंसारी पिता— मो० इशाक अंसारी सकीम देहे, इनामुल हक पिता— इशाक अंसारी सकीम देहे एवं इशालमुल हक अंसारी पिता— मो० इशाक अंसारी सकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1282	निजी	गैर-कृषि	0.04	अनिल कुमार जायसवाल पिता— महावीर चौधरी सकीम देहे
				1281	निजी	गैर-कृषि	0.038	अनिल कुमार जायसवाल पिता— महावीर चौधरी सकीम देहे एवं मो० मजीबुल रजा एवं मंजुर रजा पिता— नूर मोहम्मद रजा सकीम देहे
				1283	निजी	गैर-कृषि	0.032	प्रमोद जायसवाल पिता — महावीर चौधरी सकीम देहे
				1284	निजी	गैर-कृषि	0.008	प्रमोद जायसवाल पिता — महावीर चौधरी सकीम देहे
				1286	सरकारी	सड़क	0.0632	बिहार सरकार
				1563	निजी	गैर-कृषि	0.02	प्रमोद जायसवाल पिता — महावीर चौधरी सकीम देहे एवं मो० खलील अंसारी पिता— कारी अंसारी सकीम देहे
				1571	निजी	गैर-कृषि	0.028	मो० शमीम खातुन पति— सुल्तान अंसारी सकीम देहे, मो० जाहिद हुसैन पिता— अहमद अंसारी सकीम देहे एवं सबीर अंसारी पिता— यासीन अंसारी सकीम देहे
				1570	निजी	गैर-कृषि	0.018	सफीउर रहमान पिता— नूर मोहम्मद सकीम देहे, मो० इरफान अंसारी पिता— तसलीम अंसारी एवं मो० यासीन अंसारी पिता— बलित अंसारी सकीम देहे एवं सबीर अंसारी पिता— यासीन अंसारी सकीम देहे
				1600	निजी	गैर-कृषि	0.024	साधन यादव पिता यादव सकीम देहे, अनुप नारायण झा पिता— देवेन्द्र झा एवं मालिक झा पिता— बचन झा एवं दिवाकर झा पिता— जयेंद्र झा
				1608	निजी	गैर-कृषि	0.002	दिलिप कुमार झा पिता— सत्यनारायण झा एवं त्रिलोक झा एवं बाबू साह झा पिता— खेला नंद झा एवं गुड्डू झा पिता— कमल नारायण झा सकीम देहे
				1558	सरकारी	सड़क	0.0788	बिहार सरकार
				1553	निजी	गैर-कृषि	0.002	मो० खलील पिता— गफ्फर सकीम देहे
				1655	निजी	गैर-कृषि	0.006	मो० आशिषा पति— एहसान अंसारी एवं कुर्बान अंसारी पिता— गफ्फर सकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1554	निजी	गैर-कृषि	0.008	मो० आशिया पति— एहसान अंसारी एवं कुर्बान अंसारी पिता— गफ्फार सकीम देहे
				1556	निजी	गैर-कृषि	0.004	मो० उसमान अंसारी पिता— लतर अंसारी सकीम देहे
				1559	निजी	गैर-कृषि	0.008	मो० उसमान अंसारी पिता— लतर अंसारी सकीम देहे
				1513	निजी	गैर-कृषि	0.024	मो० यासीन अंसारी पिता— मो० बलित अंसारी सकीम देहे
				1507	निजी	गैर-कृषि	0.002	मो० कुलसम पिता— सलामत अंसारी सकीम देहे
				1487	निजी	गैर-कृषि	0.048	सरोजनंद झा पिता— मोदानन्द झा सकीम. देहे एवं विनोदानंद झा सकीम देहे
				1485	निजी	गैर-कृषि	0.008	विनोदानंद झा सकीम देहे
				1486	निजी	गैर-कृषि	0.002	विनोदानंद झा सकीम देहे
				1474	सरकारी	सड़क	0.0988	बिहार सरकार
				1478	निजी	गैर-कृषि	0.032	फुलेन्द्र नारायण झा पिता— जगत नारायण झा सकीम देहे
				1482	सरकारी	सड़क	0.1184	बिहार सरकार
				1562	सरकारी	सड़क	0.0158	बिहार सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4938	निजी	गैर-कृषि	0.344	पुनयानंद झा सकीम देहे, संजीव कुमार झा सकीम देहे, सरोजनंद झा पिता— मोदानन्द झा सकीम देहे, विनोदानंद झा सकीम देहे, रामजी झा पिता— स्व० सूर्यकान्त झा सकीम देहे, अनिल कुमार यादव पिता— गंगा प्रसाद यादव एवं संजीव कुमार पिता — कमल नारायण यादव एवं भारत कुमार पिता— जीवछ एवं रामविलास पिता— शोभित यादव एवं राम नारायण पिता— जुगत यादव सकीम देहे एवं जुगत लाल यादव पिता— नौबत यादव एवं दिनेश एवं रमेश यादव पिता— जगदीश यादव सकीम देहे
				4940	सरकारी	सड़क	0.08	बिहार सरकार
				1235	निजी	गैर-कृषि	0.132	अनिल कुमार जायसवाल पिता— महावीर चौधरी सकीम देहे, अनिल कुमार जायसवाल पिता— महावीर चौधरी सकीम देहे, गिरधर झा पिता— जय नारायण झा सकीम देहे, हर्ष नारायण झा पिता— राम अनुग्रह झा सकीम देहे, ललन कुमार झा पिता— बाबू नारायण झा सकीम देहे एवं सर्व नारायण झा पिता— तिरपित झा सकीम देहे
				1234	निजी	गैर-कृषि	0.004	मो० मकसूद आलम पिता— तसलीम अंसारी सकीम देहे
				4849	निजी	गैर-कृषि	0.032	जुगत लाल यादव पिता— नौबत यादव एवं दिनेश एवं रमेश यादव पिता— जगदीश यादव सकीम देहे
				2168	निजी	कृषि	0.01	सरोजनंद झा पिता— मोदानन्द झा सकीम देहे
				4833	निजी	कृषि	0.076	प्रेमलाल यादव सकीम देहे
				4827	निजी	कृषि	0.192	विनोदानंद झा सकीम देहे एवं संजीव कुमार झा सकीम देहे
				4828	निजी	कृषि	0.04	रामचन्द्र यादव एवं दुखी यादव पिता— भुल्लर यादव सकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4829	निजी	कृषि	0.016	गनेशी यादव पिता— स्व० भोली यादव सकीम देहे
				2233	निजी	कृषि	0.04	रामचन्द्र यादव एवं दुखी यादव पिता— भुल्लर यादव सकीम देहे
				2234	निजी	कृषि	0.176	फुलदेव यादव पिता— स्व० पारव यादव सकीम देहे
				2235	निजी	कृषि	0.112	योगेन्द्र यादव पिता— दोरिक यादव सकीम देहे एवं जगन्नाथ यादव पिता— सीताराम यादव सकीम देहे
				2236	निजी	कृषि	0.072	जगन्नाथ यादव पिता— सीताराम यादव सकीम देहे
				2332	सरकारी	सड़क	0.0116	बिहार सरकार
				2228	सरकारी	सड़क	0.0828	बिहार सरकार
				2237	सरकारी	सड़क	0.1224	बिहार सरकार
				4826	सरकारी	सड़क	0.0196	बिहार सरकार
				4952	सरकारी	सड़क	0.0672	बिहार सरकार
				4944	निजी	कृषि	0.024	निलाम्बर झा सकीम देहे
				4942	निजी	कृषि	0.04	निलाम्बर झा पिता— स्व० गंगाधर झा एवं चन्द्रनाथ झा पिता— जयधर झा सकीम देहे
				4948	निजी	कृषि	0.042	विनोदानन्द झा सकीम देहे, पुनवानन्द झा सकीम देहे, संजीवं कुमार झा सकीम देहे एवं सरोजनन्द झा पिता— मोदानन्द झा सकीम देहे
				4949	सरकारी	गैर—कृषि	0.012	बिहार सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4593	निजी	कृषि	0.108	धीरेन्द्र झा एवं सुरेन्द्र झा पिता—श्याम सुन्दर झा सकीम देहे एवं कृष्णानन्द झा पिता— बिन्दु नाथ झा सकीम देहे
				4594	निजी	कृषि	0.012	कृष्णानन्द झा पिता— बिन्दु नाथ झा सकीम देहे
				4795	निजी	कृषि	0.01	सुर्य नारायण चौधरी सकीम देहे
				4770	निजी	कृषि	0.056	इन्द्र नारायण सिंह पिता— स्व०महन्थ सिंह सकीम देहे
				2340	निजी	कृषि	0.04	हरeram यादव पिता—खुशीलाल यादव सकीम देहे
				2348	निजी	कृषि	0.032	लक्ष्मी साह पिता— केशवर साह सकीम देहे
				2349	निजी	कृषि	0.056	रघुनाथ यादव सकीम देहे
				2389	निजी	कृषि	0.002	सुरीलाल यादव पिता— इश्वर यादव सकीम देहे
				2500	निजी	कृषि	0.248	राज कुमार यादव सकीम देहे
				2501	निजी	कृषि	0.126	राज कुमार यादव सकीम देहे
				2333	सरकारी	सड़क	0.0236	बिहार सरकार
				2238	निजी	कृषि	0.192	हरeram यादव पिता—खुशीलाल यादव सकीम देहे एवं महेन्द्र यादव एवं अमित कुमार यादव पिता— शिवनन्दन यादव सकीम देहे
				2288	निजी	कृषि	0.104	बिकाव यादव सकीम देहे
				2289	निजी	कृषि	0.096	रामचरित्र यादव एवं विनोद यादव पिता जियालाल यादव सकीम देहे
				2308	निजी	कृषि	0.02	कृष्ण लाल यादव पिता— इश्वर नारायण यादव सकीम देहे
				2309	निजी	कृषि	0.076	तिरपित लाल यादव एवं पृथ्वी लाल यादव पिता—मुनालाल यादव सकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2310	निजी	कृषि	0.068	हेम नारायण झा पिता—बौवन झा सकीम देहे
				2324	निजी	कृषि	0.112	कृष्णलाल यादव सकीम देहे
				2321	निजी	कृषि	0.004	देवसुन्दर यादव पिता— जुगतलाल यादव सकीम देहे
				2325	निजी	कृषि	0.064	कृष्णलाल यादव सकीम देहे
				2326	निजी	कृषि	0.028	गंगा प्रसाद यादव पिता— भोला यादव सकीम देहे
				2329	निजी	कृषि	0.04	रामचरण यादव एवं दुखी यादव पिता—भुलर यादव सकीम देहे
				2330	निजी	कृषि	0.064	तिरपित यादव एवं पुलकित यादव एवं राम कुमार यादव पित—अयोधी यादव सकीम देहे
				2520	निजी	कृषि	0.008	श्री लाल साह पिता—लक्ष्मण साह सकीम देहे
				2521	निजी	कृषि	0.062	जशोलाल यादव पिता—सिफैत यादव सकीम देहे
				3403	निजी	कृषि	0.136	स्वरूप लाल यादव पिता— चरित्तर यादव सकीम देहे, लक्ष्मी साह पिता—अच्छे साह सकीम देहे एवं जगदीश ठाकुर पिता— रामसुन्दर ठाकुर सकीम देहे
				2707	सरकारी	कृषि	0.0868	बिहार सरकार
				3217	सरकारी	कृषि	0.0392	बिहार सरकार
				3400	निजी	कृषि	0.192	बृजमोहन झा सकीम देहे एवं बालाकान्त झा सकीम देहे
				3395	निजी	कृषि	0.132	जगदीश कुमार सकीम देहे, बृजमोहन झा सकीम देहे एवं बालाकान्त झा सकीम देहे
				3381	निजी	कृषि	0.054	अजय एवं विजय सिंह पिता— राम चन्द्र सिंह सकीम देहे, संजय सिंह एवं रामलखन सिंह सकीम देहे एवं अजय एवं विजय सिंह पिता— राम चन्द्र सिंह सकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(8) फुलपरास	467	निजी	गैर-कृषि	0.048	सुजान देवी पिता—पृथ्वी लाल यादव सकीम देहे, कृष्णा कुमार पाण्डे पिता—स्व० शिवनाथ प्रसाद पाण्डे सकीम देहे एवं महेश्वर पाण्डे पिता—सर्व नारायण पाण्डे सकीम देहे
				471	सरकारी	सड़क	1.06	बिहार सरकार
				498	सरकारी	सड़क	0.048	बिहार सरकार
				3765	सरकारी	सड़क	0.044	बिहार सरकार
				3762	सरकारी	सड़क	0.064	बिहार सरकार
				3761	सरकारी	सड़क	0.032	बिहार सरकार
				496	निजी	गैर-कृषि	0.104	जगदीश ठाकुर पिता— स्व० मिश्री लाल ठाकुर सकीम देहे, रामाशंकर ठाकुर मसीबलाल ठाकुर सकीम देह एवं रामसागर ठाकुर पिता— स्व० जीलेबी ठाकुर सकीम देहे
				477	निजी	कृषि	0.072	रामचरित्र साह पिता — स्व० बुचकुन साह एवं श्याम सुन्दर साह पिता —बुचकुन साह सकीम देहे एवं तुरंतलाल साह पिता— बंसीलाल साह सकीम देहे
				729	निजी	गैर-कृषि	0.016	रामप्रीत साह पिता— डोमी साह एवं ब्रज किशोर साह पिता — युगत लाल साह सकीम देहे
				735	निजी	गैर-कृषि	0.018	तेजी लाल ठाकुर पिता—स्व० देवी ठाकुर सकीम देहे एवं रामउदगर ठाकुर पिता श्री बागेश्वर ठाकुर
				748	निजी	गैर-कृषि	0.012	दुनिया लाल ठाकुर प्रताप ठाकुर सकीम देहे, भोल प्रसाद ठाकुर जंगीलाल ठाकुर सकीम देहे, राज कुमार दुबे पिता— विन्देश्वरी दुबे एवं राम सुन्दर यादव पिता— स्व० कमल नारायण यादव सकीम देहे
				854	सरकारी	कृषि	0.528	बिहार सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				856	निजी	गैर—कृषि	0.0012	सरस्वती देवी विश्वनाथ तिवारी सकीम देहे
				885	निजी	गैर—कृषि	0.002	चन्देश्वर साह पिता— तेज नारायण साह सकीम देहे
				886	निजी	गैर—कृषि	0.002	रामचन्द्र साह तेज नारायण साह सकीम देहे
				891	सरकारी	सड़क	0.0012	बिहार सरकार
				892	निजी	गैर—कृषि	0.008	तपेश्वर साह पिता—सूर्य नारायण साह सकीम देहे
				893	निजी	गैर—कृषि	0.01	राम प्रसाद साह एवं प्रसाद साह पिता— भानु साह सकीम देहे
				895	निजी	गैर—कृषि	0.006	गया प्रसाद साह पिता— भानु साह सकीम देहे
				954	सरकारी	गैर—कृषि	0.01	बिहार सरकार
				955	सरकारी	गैर—कृषि	0.008	बिहार सरकार
				956	सरकारी	गैर—कृषि	0.004	बिहार सरकार
				959	सरकारी	गैर—कृषि	0.016	रजिस्ट्री ऑफिस
				959	निजी	गैर—कृषि	0.0536	देव नन्दन साह पिता— राम नारायण चौधरी सकीम—देहे, रघुनन्दन साह एवं रामनन्दन साह सकीम—देहे, गुनेश्वर साह पिता—सूर्य नारायण साह सकीम देहे एवं तपेश्वर साह पिता—सूर्य नारायण साह सकीम देहे
				960	निजी	गैर—कृषि	0.01	देव नन्दन साह पिता— राम नारायण चौधरी सकीम—देहे, हरिनन्दन साह पिता—रामनन्दन साह सकीम—देहे एवं रघुनन्दन साह रामनन्दन साह सकीम—देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				962	सरकारी	सड़क	0.008	बिहार सरकार
				1099	निजी	गैर-कृषि	0.008	लल्लु प्रसाद साह पिता—गणेशी साह सकीम देहे
				1100	निजी	गैर-कृषि	0.004	लल्लु प्रसाद साह पिता—गणेशी साह सकीम देहे
				1139	सरकारी	सड़क	0.008	बिहार सरकार
				1162	निजी	गैर-कृषि	0.024	दुखी यादव पिता — शिगुर यादव सकीम देहे एवं जीबछ यादव पिता — दुलार यादव सकीम देहे
				1186	सरकारी	कृषि	0.096	बिहार सरकार
				1242	निजी	कृषि	0.004	अनुप यादव, दुलार यादव एवं दुखी यादव पिता— भागवत यादव सकीम देहे
				1251	सरकारी	कृषि	0.088	बिहार सरकार
				2527	सरकारी	सड़क	0.396	बिहार सरकार
				2507	निजी	कृषि	0.016	बृजनंदन यादव पिता—रसीकलाल यादव सकीम देहे
				2499	सरकारी	सड़क	0.096	बिहार सरकार
				272	सरकारी	गैर-कृषि	0.08	बिहार सरकार
				273	सरकारी	गैर-कृषि	0.064	बिहार सरकार
				274	सरकारी	गैर-कृषि	0.016	बिहार सरकार
				275	सरकारी	गैर-कृषि	0.032	बिहार सरकार
				276	सरकारी	गैर-कृषि	0.08	बिहार सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				277	सरकारी	गैर-कृषि	0.06	बिहार सरकार
				278	सरकारी	गैर-कृषि	0.004	बिहार सरकार
				282	सरकारी	गैर-कृषि	0.02	बिहार सरकार
				217	सरकारी	सड़क	0.048	बिहार सरकार
				219	निजी	गैर-कृषि	0.002	बिन्देश्वरी यादव पिता — बच्चुलाल यादव, रामकुमार यादव, पिता— स्व० दिगम्बर यादव, सुगम्बर यादव, सुभनाथ यादव, विरेन्द्र यादव, पिता— स्व० बंसीलाल यादव, जितेन्द्र यादव, पिता— नसीबलाल यादव सकीम देहे
				220	निजी	गैर-कृषि	0.012	राकेश कुमार, राजेश कुमार पिता— रामकुमार यादव एवं राजन कुमार, पिता — अशोक कुमार यादव सकीम देहे
				221	सरकारी	सड़क	0.016	बिहार सरकार
				207	सरकारी	सड़क	0.128	बिहार सरकार
				153	निजी	कृषि	0.088	बालकान्त झा एवं मोहनजी झा, पिता— सत्यनारायण झा, सकीम देहे
				495	निजी	कृषि	0.006	सियाराम ठाकुर पिता— स्व० अमलेश्वर ठाकुर सकीम देहे
				906	सरकारी	सड़क	0.002	बिहार सरकार
				216	सरकारी	सड़क	1.896	बिहार सरकार
			(9) महगौर	9165	निजी	कृषि	0.004	राम प्रकाश साह बौआलाल साह सकीम देहे
				9107	निजी	कृषि	0.06	प्रभु यादव पिता—धनपति यादव सकीम देहे
				9106	निजी	कृषि	0.052	प्रभु यादव पिता—धनपति यादव सकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				9105	निजी	कृषि	0.072	प्रभु यादव पिता—धनपति यादव सकीम देहे
				9103	निजी	कृषि	0.076	प्रभु यादव पिता—धनपति यादव सकीम देहे
				9102	निजी	कृषि	0.028	प्रभु यादव पिता—धनपति यादव सकीम देहे
				9098	निजी	कृषि	0.008	अशर्फी यादव पिता—स्व० सुन्दर यादव सकीम देहे
				9000	निजी	कृषि	0.044	प्रभु यादव पिता—धनपति यादव सकीम देहे
				9099	निजी	कृषि	0.012	प्रभु यादव पिता—धनपति यादव सकीम देहे
				8291	निजी	कृषि	0.172	हरि नारायण यादव पिता—जीवछ यादव सकीम देहे एवं हरेकृष्ण यादव उर्फ कांरी यादव पिता—रामी यादव सकीम देहे
				8280	निजी	कृषि	0.052	बजरंगी यादव पिता—स्व० उत्तीम लाल यादव सकीम देहे
				8279	निजी	कृषि	0.076	जागेश्वर यादव एवं राज कुमार यादव पिता—स्व० पार्ले लाल यादव सकीम देहे एवं खुशी लाल यादव पिता—भोला यादव सकीम देहे
				8278	निजी	कृषि	0.008	सुकल साफी पिता—रामफल साफी सकीम देहे एवं सुखारी यादव पिता—स्व० बच्छू यादव सकीम देहे
				8260	निजी	कृषि	0.144	जगदीश साह पिता—किसुन साह सकीम देहे, शिवजी साह एवं रामचन्द्र साह एवं श्याम सुन्दर साह एवं सूर्य नारायण साह एवं ललित साह पिता—कैलू साह सकीम देहे एवं देव नारायण साह पिता—रघुनन्दन साह सकीम देहे
				8259	निजी	कृषि	0.008	देव नारायण साह पिता—रघुनन्दन साह सकीम देहे
				8258	निजी	कृषि	0.056	देव नारायण साह पिता—रघुनन्दन साह सकीम देहे एवं बौकु यादव पिता—बचकून यादव सकीम देहे
				8257	निजी	कृषि	0.032	राम अवतार यादव पिता—महावीर यादव एवं राज नारायण यादव पिता—स्व० बुडडी यादव सकीम देहे
				8220	निजी	कृषि	0.028	राजेन्द्र मंडल एवं दशरथ मंडल एवं भारीरथ मंडल पिता—जुगेश्वर मंडल एवं सतीश मंडल पिता—स्व० रामेश्वर मंडल सकीम देहे
				8219	निजी	कृषि	0.076	सुकल साफी पिता—रामफल साफी सकीम देहे, राम प्रकाश साह बौआलाल साह सकीम देहे एवं नन्दी साह पिता—खुशी लाल साह सकीम देहे
				8201	निजी	कृषि	0.024	जागेश्वर यादव एवं राज कुमार यादव पिता—स्व० पार्ले लाल यादव सकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				8200	निजी	कृषि	0.032	जब्बार पासवान पिता—रामजी पासवान सकीम देहे
				8198	निजी	कृषि	0.08	राम लखन यादव पिता—मलिक यादव सकीम देहे
				8196	निजी	कृषि	0.028	बृजनन्दन यादव पिता—स्व० सिफैत यादव सकीम देहे
				8195	निजी	कृषि	0.044	उपन्द्र यादव पिता— रामबाबू यादव सकीम देहे
				8194	निजी	कृषि	0.012	राजेन्द्र यादव एवं योगेन्द्र यादव एवं संजय यादव एवं अशोक यादव पिता—बिहारी यादव एवं चक्रधारी यादव पिता— स्व० उपेन्द्र यादव सकीम देहे
				8184	निजी	कृषि	0.004	रूप नारायण यादव पिता—पार्टेलाल यादव सकीम देहे
				8192	निजी	कृषि	0.008	खुशी लाल मुखिया एवं प्रयाग मुखिया एवं कुसुमलाल मुखिया एवं जसो मुखिया एवं राज कुमार मुखिया एवं राजेन्द्र मुखिया पिता—मुन्की मुखिया सकीम देहे
				9288	निजी	कृषि	0.204	लक्ष्मी साह एवं मुन्नालाल साह एवं देवलाल साह पिता—स्व० रामकिसुन साह सकीम देहे एवं भागवत साह पिता— राम किसुन साह सकीम देहे
				9261	सरकारी	सड़क	0.224	बिहार सरकार
				9283	निजी	कृषि	0.152	बृजनन्दन यादव एवं छेत्रु यादव पिता— रसिकलाल यादव सकीम देहे
				9262	निजी	कृषि	0.072	लक्ष्मी साह एवं मुन्नालाल साह एवं देवलाल साह पिता—स्व० रामकिसुन साह सकीम देहे
				9258	निजी	कृषि	0.112	ललन साह पिता—लक्ष्मी साह सकीम देहे, मुन्ना लाल साह पिता—रामकिसुन साह सकीम देहे एवं भागवत साह पिता— राम किसुन साह सकीम देहे
				9221	निजी	कृषि	0.14	हरि नारायण यादव एवं सूर्य नारायण यादव पिता—स्व० अवधलाल यादव सकीम देहे
				9160	निजी	कृषि	0.04	राम प्रकाश साह बौआलाल साह सकीम देहे
				9163	निजी	कृषि	0.04	परमेश्वर साह एवं कामेश्वर साह एवं रामेश्वर साह पिता—रामचन्द्र साह सकीम देहे एवं बच्चू लाल साह पिता— मुश्कून साह सकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				9119	निजी	कृषि	0.072	जीवछ यादव एवं सत्य नारायण यादव एवं रामचन्द्र यादव एवं रामजी यादव एवं नारायण यादव एवं देबु यादव पिता—सिफैत यादव सकीम देहे
				9121	निजी	कृषि	0.006	प्रभु यादव पिता—धनपति यादव सकीम देहे एवं प्रभु यादव पिता—धनपति यादव सकीम देहे
				9116	निजी	कृषि	0.04	जीवछ यादव एवं सत्य नारायण यादव एवं रामचन्द्र यादव एवं रामजी यादव एवं नारायण यादव एवं देबु यादव पिता—सिफैत यादव सकीम देहे
				9117	निजी	कृषि	0.004	जीवछ यादव एवं सत्य नारायण यादव एवं रामचन्द्र यादव एवं रामजी यादव एवं नारायण यादव एवं देबु यादव पिता—सिफैत यादव सकीम देहे
				9118	निजी	कृषि	0.036	जीवछ यादव एवं सत्य नारायण यादव एवं रामचन्द्र यादव एवं रामजी यादव एवं नारायण यादव एवं देबु यादव पिता—सिफैत यादव सकीम देहे
				9115	निजी	कृषि	0.02	जीवछ यादव एवं सत्य नारायण यादव एवं रामचन्द्र यादव एवं रामजी यादव एवं नारायण यादव एवं देबु यादव पिता—सिफैत यादव सकीम देहे
				9114	निजी	कृषि	0.016	जीवछ यादव एवं सत्य नारायण यादव एवं रामचन्द्र यादव एवं रामजी यादव एवं नारायण यादव एवं देबु यादव पिता—सिफैत यादव सकीम देहे
				9113	निजी	कृषि	0.076	प्रभु यादव पिता—धनपति यादव सकीम देहे
				9111	निजी	कृषि	0.006	प्रभु यादव पिता—धनपति यादव सकीम देहे
				9112	निजी	कृषि	0.002	प्रभु यादव पिता—धनपति यादव सकीम देहे
				9109	निजी	कृषि	0.01	प्रभु यादव पिता—धनपति यादव सकीम देहे
				9110	निजी	कृषि	0.004	प्रभु यादव पिता—धनपति यादव सकीम देहे
			(10) सिसवा बरही	2590	निजी	कृषि	0.004	बजरंगी यादव पिता—स्व० उत्तीम लाल यादव सकीम देहे
				2591	निजी	कृषि	0.052	रामगुलाम यादव पिता—शोभालाल यादव सकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2594	निजी	कृषि	0.032	रामअधीन यादव पिता— चुन्नी यादव साकीम देहे
				2595	निजी	कृषि	0.192	बाली यादव पिता— जयलाल यादव एवं भोज प्रसाद यादव पिता भिखारी यादव
		(11) नरहीया		2994	निजी	कृषि	0.004	भागवत साह पिता राम एवं लक्ष्मी साह पिता किशुन साह साकीम देहे
				3012	सरकारी	कृषि	0.148	बिहार सरकार
				3085	निजी	कृषि	0.024	रामाशीष यादव पिता खुशीलाल यादव साकीम देहे
				3087	निजी	कृषि	0.044	भोला साह पिता स्व. लेलहय साह साकीम देहे
				3089	निजी	कृषि	0.088	बालचन्द यादव पिता स्व. नधु यादव साकीम देहे
				3093	निजी	कृषि	0.04	बालचन्द यादव पिता स्व. नधु यादव साकीम देहे
				3090	निजी	कृषि	0.104	राजेन्द्र अग्रवाल पिता स्व. जगदीश अग्रवाल साकीम देहे
				3092	निजी	कृषि	0.212	लक्ष्मी साह पिता स्व. रामेश्वर साह एवं अभिशोक अग्रवाल पिता दीनदयाल अग्रवाल साकीम देहे, बरेलाल यादव पिता स्व. रूपलाल यादव साकीम देहे, अनिरुद्ध प्रसाद पिता स्व. बाबुलाल साह साकीम देहे एवं मंजू देवी पति विनोद कुमार अग्रवाल साकीम देहे
				3095	निजी	कृषि	0.1824	सत्य नारायण अग्रवाल पिता गिरीराज अग्रवाल साकीम देहे, यशोदी अग्रवाल पिता गिरीराज अग्रवाल साकीम देहे, कैलास अग्रवाल पिता गिरीराज अग्रवाल साकीम देहे एवं श्याम सुन्दर अग्रवाल पिता स्व. राम कुमार अग्रवाल साकीम देहे
				3111	निजी	कृषि	0.032	यशोदी अग्रवाल पिता गिरीराज अग्रवाल साकीम देहे
				3096	निजी	कृषि	0.34	श्याम सुन्दर अग्रवाल पिता स्व. राम कुमार अग्रवाल साकीम देहे एवं लक्ष्मी प्रसाद साह पिता स्व. रामेश्वर साह साकीम देहे
				3097	निजी	कृषि	0.02	लक्ष्मी प्रसाद साह पिता स्व. रामेश्वर साह साकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3098	सरकारी	गैर-कृषि	0.084	बिहार सरकार
				3099	सरकारी	कृषि	0.016	बिहार सरकार
				3101	सरकारी	गैर-कृषि	0.092	बिहार सरकार
				3100	सरकारी	कृषि	0.064	बिहार सरकार
				3138	सरकारी	कृषि	0.056	बिहार सरकार
				3149	सरकारी	कृषि	0.176	बिहार सरकार
				3150	निजी	कृषि	0.032	अब्दुल्लाई पयायी पिता स्व. सकरुला साकीम देहे
				3147	निजी	कृषि	0.048	अब्दुल्लाई पयायी पिता स्व. सकरुला साकीम देहे
				3146	निजी	कृषि	0.12	अब्दुल्लाई पयायी पिता स्व. सकरुला साकीम देहे
				3152	निजी	कृषि	0.092	हरि शाह पिता स्व. करी साह एवं बच्चू साह पिता बलदेव साह साकीम देहे
				3153	निजी	कृषि	0.144	राजकिशोर पिता स्व. लक्ष्मी साह साकीम देहे, डोमी साह पिता रवि साह यकिम देहे एवं हेमनारायण साह पिता स्व. लक्ष्मी साह साकीम देहे
				3154	सरकारी	कृषि	0.1	बिहार सरकार
				3155	सरकारी	कृषि	0.042	बिहार सरकार
				3156	सरकारी	कृषि	0.048	बिहार सरकार
				3151	सरकारी	कृषि	0.224	बिहार सरकार
				3581	निजी	कृषि	0.024	हेमनारायण साह पिता स्व. लक्ष्मी साह साकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3579	सरकारी	कृषि	0.276	बिहार सरकार
				3580	सरकारी	कृषि	0.216	बिहार सरकार
				3751	निजी	गैर-कृषि	0.08	वैद्यनाथ साह पिता जसो साह साकीम देहे, दुर्गा प्रसाद साह पिता स्व. भोला साह साकीम देहे, शंभू प्रसाद साह एवं राजू प्रसाद साह पिता स्व. मिश्रीलाल साह साकीम देहे, लाल मोहम्मद पिता स्व. जुमन मियां साकीम देहे, अनवारूल मियां पिता स्व. जुमन मियां साकीम देहे, समसुल मियां पिता स्व. जुमन मियां साकीम देहे, अयुब मियां पिता स्व. हनीफ मियां साकीम देहे, मो. मोस्ताक पिता स्व. अब्दुल रहमान साकीम देहे एवं प्रमोद साह पिता स्व. बलदेव साह साकीम देहे
				3757	निजी	गैर-कृषि	0.04	रामजानकी मंदिर लक्ष्मी साह साकीम देहे
				3759	निजी	गैर-कृषि	0.032	रामजानकी मंदिर लक्ष्मी साह साकीम देहे
				3756	निजी	गैर-कृषि	0.06	रामजानकी मंदिर लक्ष्मी साह साकीम देहे, लक्ष्मी साह पिता सतन साह एवं लक्ष्मी देवी पति उपेन्द्र साह साकीम देहे
				3752	निजी	गैर-कृषि	0.028	मो. अब्बास पिता मो. जमीर साकीम देहे एवं प्रदीप कुमार साह पिता स्व. लाल बाबु साह साकीम देहे
				3754	निजी	गैर-कृषि	0.008	प्रदीप कुमार साह पिता स्व. लाल बाबु साह साकीम देहे
				3755	निजी	गैर-कृषि	0.072	लाल बाबु साह पिता स्व. शिवजी साह साकीम देहे एवं मसोमात रबुल खातून पति मरहुम अलीम साकीम देहे
				5272	निजी	कृषि	0.048	मोहन रामदीन पिता स्व. युगेश्वर राम साकीम देहे
				5273	निजी	कृषि	0.052	जयप्रकाश साह पिता जगरनाथ साह साकीम देहे
				5274	निजी	कृषि	0.008	शंभू प्रसाद साह पिता स्व. बिन्देश्वर साह साकीम देहे
				5275	निजी	कृषि	0.008	प्रसाद साह पिता स्व. विनोद प्रसाद साह साकीम देहे
				5279	निजी	गैर-कृषि	0.004	मोहन रामदीन पिता स्व. युगेश्वर राम साकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				5294	निजी	गैर—कृषि	0.028	मदन प्रसाद साह पिता स्व. रामेश्वर साह साकीम देहे एवं पवन कुमार साह एवं विनोद साह पिता स्व. रामेश्वर साह साकीम देहे
				5296	सरकारी	सड़क	0.056	बिहार सरकार
				7780	सरकारी	कृषि	0.016	बिहार सरकार
				5297	सरकारी	कृषि	0.012	बिहार सरकार
				5558	सरकारी	सड़क	0.148	बिहार सरकार
				5558	निजी	गैर—कृषि	0.112	लखन दास पिता स्व. राजमुमार दास, रघुनाथ दास पिता मिश्री दास, जीवछ दास पिता किरय दास
				7781	निजी	गैर—कृषि	0.012	मुन्नी देवी पति मोहन मंडल साकीम देहे
				5525	निजी	कृषि	0.024	हीरा साह पिता रामेश्वर साह साकीम देहे
				5604	निजी	गैर—कृषि	0.04	भागीरथ प्रसाद सिंह पिता स्व. अनुपलाल सिंह साकीम देहे, अनंतेश कुमार सिंह पिता स्व. आनन्दीलाल सिंह, सूर्यनारायण सिंह पिता स्व. अनुपलाल सिंह एवं लक्ष्मी नारायण सिंह पिता स्व. तपेश्वर सिंह साकीम देहे
				5602	निजी	गैर—कृषि	0.2	सूर्यनारायण सिंह एवं भागीरथ प्रसाद सिंह एवं अनंतेश कुमार सिंह पिता स्व. अनुप लाल सिंह
				5600	निजी	कृषि	0.008	विश्वनाथ सिंह पिता स्व. बाबु सहदेव सिंह साकीम देहे
				5601	सरकारी	सड़क	0.02	बिहार सरकार
				5571	निजी	कृषि	0.004	अनिरुद्ध प्रसाद पिता स्व. बाबुलाल साह साकीम देहे
				5569	निजी	गैर—कृषि	0.388	चन्द्रशेखर माहतो एवं भरत माहतो एवं प्रमोद माहतो एवं मनोज माहतो पिता स्व. सूर्यनारायण माहतो साकीम देहे, सूर्य नारायण सिंह पिता स्व. अनुपलाल सिंह साकीम देहे एवं भागीरथ प्रसाद सिंह पिता स्व. अनुपलाल सिंह साकीम देहे
				5832	निजी	कृषि	0.024	सूर्यनारायण सिंह पिता स्व. अनुप लाल सिंह

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				7677	निजी	गैर—कृषि	0.016	मुरली मनोहर साह पिता स्व. शिवजी साह साकीम देहे राजकपूर साह पिता दुखी साह साकीम देहे एवं अशोक साह पिता स्व. बिलटु साह साकीम देहे
				4659	निजी	गैर—कृषि	0.032	डोमी साह पिता राम साह साकीम देहे एवं सुकल साह पिता स्व. शोभी साह साकीम देहे
				4657	निजी	गैर—कृषि	0.064	देवनारायण साह पिता स्व. राम लोचन साह साकीम देहे
				4651	निजी	गैर—कृषि	0.012	देवनारायण साह पिता स्व. राम लोचन साह साकीम देहे
				4652	निजी	गैर—कृषि	0.04	देवनारायण साह पिता स्व. राम लोचन साह साकीम देहे
				4655	निजी	गैर—कृषि	0.004	देवनारायण साह पिता स्व. राम लोचन साह साकीम देहे
				4653	निजी	गैर—कृषि	0.012	हेमनारायण साह एवं किशोर कुमार साह पिता स्व. लक्ष्मी साह साकीम देहे
				4650	निजी	गैर—कृषि	0.02	सत्य नारायण सुन्दर साह साकीम देहे
				4644	सरकारी	गैर—कृषि	0.004	बिहार सरकार
				4643	सरकारी	गैर—कृषि	0.012	बिहार सरकार
				4635	निजी	गैर—कृषि	0.036	चन्द्रेश्वर ठाकुर एवं रामशरण ठाकुर पिता लक्ष्मी ठाकुर साकीम देहे एवं संजय गुप्ता पिता रघुनाथ गुप्ता साकीम देहे
				4634	निजी	गैर—कृषि	0.032	राजकुमार पिता किशुन राय साकीम देहे एवं राधे साह पिता स्व. सुकल साह साकीम देहे
				4633	निजी	गैर—कृषि	0.044	राधे साह पिता स्व. सुकल साह साकीम देहे, गुरन साह उर्फ उमेश साह पिता झरीलाल साह साकीम देहे, हरि राय पिता बौधू साह साकीम देहे, प्रभु साह पिता स्व. चलितर साह साकीम देहे एवं उमाकान्त राय पिता बदरी नारायण राय साकीम देहे
				4632	निजी	गैर—कृषि	0.016	उमाकान्त राय पिता बदरी नारायण राय साकीम देहे एवं रामदास पिता लौधू दास साकीम देहे
				4594	निजी	गैर—कृषि	0.004	दीपक कुमार साह पिता स्व. लीलाधर साह साकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4595	निजी	गैर-कृषि	0.024	दीपक कुमार साह पिता स्व. लीलाधर साह साकीम देहे, अबध नारायण साह साकीम देहे एवं प्रसाद साह पिता स्व. विनोद प्रसाद साह साकीम देहे
				4592	निजी	गैर-कृषि	0.024	प्रसाद साह पिता स्व. विनोद प्रसाद साह साकीम देहे, भोला प्रसाद साह पिता स्व. बिन्देश्वर साह साकीम देहे एवं भुवनेश्वर साह पिता स्व. बिन्देश्वर साह साकीम देहे
				4591	निजी	गैर-कृषि	0.004	भुवनेश्वर साह पिता स्व. बिन्देश्वर साह साकीम देहे
				4537	निजी	गैर-कृषि	0.036	लीलाधर साह पिता स्व. रामौतार साह साकीम देहे, वैद्यनाथ साह पिता स्व. रामशोभित साह साकीम देहे एवं ठकय साह एवं जनक साह पिता लखीचन्द्र साह साकीम देहे
				4534	निजी	गैर-कृषि	0.008	विजय साह पिता स्व. राधे साह साकीम देहे
				4535	निजी	गैर-कृषि	0.028	कुष्णप्रसाद साह पिता दीपनारायण साह साकीम देहे
				4536	निजी	गैर-कृषि	0.028	ठकय साह एवं जनक साह पिता लखीचन्द्र साह साकीम देहे
				4538	निजी	गैर-कृषि	0.004	ठकय साह एवं जनक साह पिता लखीचन्द्र साह साकीम देहे
				4539	निजी	गैर-कृषि	0.008	ठकय साह एवं जनक साह पिता लखीचन्द्र साह साकीम देहे
				7679	निजी	गैर-कृषि	0.008	ठकय साह एवं जनक साह पिता लखीचन्द्र साह साकीम देहे
				4513	निजी	गैर-कृषि	0.036	हीरा प्रसाद साह पिता स्व. रामेश्वर साह साकीम देहे, लाल बहादुर धानीकर पिता स्व. अच्छेलाल धानीकर साकीम देहे, छेदी धानीकर पिता दुखय धानीकर साकीम देहे एवं बिलदु धानीकर एवं जयलाल धानीकर पिता अच्छेलाल धानीकर साकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4491	निजी	गैर—कृषि	0.132	रामेश्वर मल्लिक पिता—बुदु डोम सकीम देहे, सूर्यनारायण सिंह पिता—स्व० अनूपलाल सिंह सकीम देहे, भगीरथ प्रसाद सिंह पिता—स्व० अनूपलाल सिंह सकीम देहे, अतनेश कुमार सिंह पिता—स्व० अनन्दीलाल सिंह, छेदी धनिकार पिता—दुखे धनिकार सकीम देहे, नथुनी धनिकार पिता—कल्लर धनिकार सकीम देहे, हीरा प्रसाद साह पिता—स्व० रामेश्वर साह सकीम देहे एवं रामकुमारी पति—शोभित राय सकीम देहे
				4503	सरकारी	सड़क	0.008	बिहार सरकार
				5261	निजी	गैर—कृषि	0.064	रामबिलास साह पिता—स्व० चुल्हाई साह सकीम देहे एवं लालबहादुर साह पिता—शिवजी साह सकीम देहे
				5260	निजी	कृषि	0.012	किशुन साह पिता—लक्ष्मण साह सकीम देहे
				5259	निजी	कृषि	0.012	किशुन साह पिता—लक्ष्मण साह सकीम देहे
				4853	निजी	कृषि	0.016	दीपक कुमार साह पिता—स्व० रामलोचन साह
				4850	निजी	गैर—कृषि	0.012	शिवन साह पिता—जनक साह सकीम देहे
				4853	निजी	गैर—कृषि	0.004	शिवन साह पिता—जनक साह सकीम देहे
				4851	निजी	गैर—कृषि	0.008	दीपक कुमार साह पिता—स्व० रामलोचन साह
				4852	निजी	गैर—कृषि	0.004	दीपक कुमार साह पिता—स्व० रामलोचन साह

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4849	निजी	गैर-कृषि	0.012	दीपक कुमार साह पिता—स्व० रामलोचन साह एवं राधे साह पिता—स्व० शुखलाल साह सकीम देहे
				4848	निजी	गैर-कृषि	0.004	राधे साह पिता—स्व० शुखलाल साह सकीम देहे
				4847	निजी	गैर-कृषि	0.004	राधे साह पिता—स्व० शुखलाल साह सकीम देहे
				4846	निजी	गैर-कृषि	0.004	गोपाल साह पिता—स्व० रामसागर साह सकीम देहे
				4845	निजी	गैर-कृषि	0.008	गोपाल साह पिता—स्व० रामसागर साह सकीम देहे
				4844	निजी	गैर-कृषि	0.004	गोपाल साह पिता—स्व० रामसागर साह सकीम देहे
				4843	निजी	गैर-कृषि	0.004	गोपाल साह पिता—स्व० रामसागर साह सकीम देहे
				4842	निजी	गैर-कृषि	0.004	सूरज साह पिता—स्व० रामबिहारी साह सकीम देहे
				4841	निजी	गैर-कृषि	0.008	सूरज साह पिता—स्व० रामबिहारी साह सकीम देहे
				4840	निजी	गैर-कृषि	0.004	लालबहादुर साह पिता—शिवजी साह सकीम देहे
				4839	निजी	गैर-कृषि	0.012	लालबहादुर साह पिता—शिवजी साह सकीम देहे
				4858	निजी	गैर-कृषि	0.004	लालबहादुर साह पिता—शिवजी साह सकीम देहे
				4838	निजी	गैर-कृषि	0.012	लालबहादुर साह पिता—शिवजी साह सकीम देहे
				4859	निजी	गैर-कृषि	0.008	ललन कुमार साह एवं शंभू प्रसाद साह पिता—स्व० विन्देश्वर साह सकीम देहे
				4860	निजी	गैर-कृषि	0.008	ललन कुमार साह एवं शंभू प्रसाद साह पिता—स्व० विन्देश्वर साह सकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4861	निजी	गैर-कृषि	0.004	हंस प्रसाद साह पिता-स्व० रामेश्वर साह एवं दीपक कुमार पिता-स्व० लोलाधर साह सकीम देहे
				4862	निजी	गैर-कृषि	0.004	हंस प्रसाद साह पिता-स्व० रामेश्वर साह एवं दीपक कुमार पिता-स्व० लोलाधर साह सकीम देहे
				4863	निजी	गैर-कृषि	0.004	रामेश्वर साह पिता-स्व० पृथ्वीलाल साह सकीम देहे
				4868	निजी	गैर-कृषि	0.004	बेचन साह पिता-मिश्रीलाल साह सकीम देहे
				4870	निजी	गैर-कृषि	0.004	सेहनलाल साह पिता-स्व० रामचन्द्र साह सकीम देहे
				4782	सरकारी	सड़क	0.048	बिहार सरकार
				4831	निजी	गैर-कृषि	0.008	रामेश्वर साह पिता-स्व० पृथ्वीलाल साह सकीम देहे एवं बेचन साह पिता-मिश्रीलाल साह सकीम देहे
				4830	निजी	गैर-कृषि	0.004	रामेश्वर साह पिता-स्व० पृथ्वीलाल साह सकीम देहे एवं बेचन साह पिता-मिश्रीलाल साह सकीम देहे
				4829	निजी	गैर-कृषि	0.004	लक्ष्मी साह पिता-स्व० बाबूलाल साह सकीम देहे
				4828	निजी	गैर-कृषि	0.004	लक्ष्मी साह पिता-स्व० बाबूलाल साह सकीम देहे
				4827	निजी	गैर-कृषि	0.004	लक्ष्मी साह पिता-स्व० बाबूलाल साह सकीम देहे
				4826	निजी	गैर-कृषि	0.004	लक्ष्मी साह पिता-स्व० बाबूलाल साह सकीम देहे
				4825	निजी	गैर-कृषि	0.008	लक्ष्मी साह पिता-स्व० बाबूलाल साह सकीम देहे
				4824	निजी	गैर-कृषि	0.008	अणो देवी पति-उत्तम साह सकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4823	सरकारी	गैर—कृषि	0.004	बिहार सरकार
				4822	निजी	गैर—कृषि	0.008	विश्वनाथ सिंह पिता—स्व० महावीर साह सकीम देहे एवं मो० इनस मियाँ पिता—रफीक मियाँ सकीम देहे
				4821	निजी	गैर—कृषि	0.004	सदरे आलम पिता—मो० नायीम सकीम देहे
				4820	निजी	गैर—कृषि	0.008	सदरे आलम पिता—मो० नायीम सकीम देहे एवं मो० इस्माइल पिता—लाल मोहम्मद सकीम देहे
				4819	निजी	गैर—कृषि	0.004	मो० इस्माइल पिता—लाल मोहम्मद सकीम देहे
				4783	निजी	गैर—कृषि	0.004	मो० इस्माइल पिता—लाल मोहम्मद सकीम देहे
				4817	निजी	गैर—कृषि	0.012	अशोक कुमार चोपड़ा पिता—स्व० नेमचन्द्र चोपड़ा सकीम देहे एवं लक्ष्मी प्रसाद साह पिता—स्व० रामेश्वर साह सकीम देहे
				4818	निजी	गैर—कृषि	0.008	अशोक कुमार चोपड़ा पिता—स्व० नेमचन्द्र चोपड़ा सकीम देहे एवं लक्ष्मी प्रसाद साह पिता—स्व० रामेश्वर साह सकीम देहे
				4815	निजी	गैर—कृषि	0.008	लक्ष्मी प्रसाद साह पिता—स्व० रामेश्वर साह सकीम देहे
				4816	निजी	गैर—कृषि	0.004	लक्ष्मी प्रसाद साह पिता—स्व० रामेश्वर साह सकीम देहे
				4813	निजी	गैर—कृषि	0.004	लक्ष्मी प्रसाद साह पिता—स्व० रामेश्वर साह सकीम देहे
				4812	निजी	गैर—कृषि	0.008	लक्ष्मी प्रसाद साह पिता—स्व० रामेश्वर साह सकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4814	निजी	गैर-कृषि	0.008	लक्ष्मी प्रसाद साह पिता—स्व० रामेश्वर साह सकीम देहे, रामगुलाम मंडल पिता—जनकलाल मंडल सकीम देहे एवं सीता देवी पति—स्व० दुखी मंडल सकीम देहे
				4808	निजी	गैर-कृषि	0.012	रमेश चन्द्र चोपड़ा पिता—स्व० चमनलाल चोपड़ा सकीम देहे, भोला महतो एवं सतन महतो एवं खोलो महतो एवं अशोक महतो पिता—शुकन महतो सकीम देहे एवं चुल्हाई महतो पिता—सुरज महतो सकीम देहे
				4783	सरकारी	सड़क	0.012	बिहार सरकार
				4807	निजी	गैर-कृषि	0.016	बनारस महता पिता—स्व० बिलट महतो सकीम देहे, बेचन साह पिता—स्व० मिश्रीलाल साह
				4810	निजी	गैर-कृषि	0.004	लक्ष्मी प्रसाद साह पिता—स्व० रामेश्वर साह सकीम देहे
				4811	निजी	गैर-कृषि	0.008	लक्ष्मी प्रसाद साह पिता—स्व० रामेश्वर साह सकीम देहे एवं रमेश चन्द्र चोपड़ा पिता—स्व० चमनलाल चोपड़ा सकीम देहे
				4809	निजी	गैर-कृषि	0.008	रमेश चन्द्र चोपड़ा पिता—स्व० चमनलाल चोपड़ा सकीम देहे
				4806	निजी	गैर-कृषि	0.008	राकेश कुमार चोपड़ा पिता—स्व० चमनलाल चोपड़ा सकीम देहे
				4805	निजी	गैर-कृषि	0.016	राकेश कुमार चोपड़ा पिता—स्व० चमनलाल चोपड़ा सकीम देहे
				4804	निजी	गैर-कृषि	0.004	पंकज कुमार चोपड़ा पिता—स्व० करीचन्द जैन सकीम देहे
				4803	निजी	गैर-कृषि	0.008	पंकज कुमार चोपड़ा पिता—स्व० करीचन्द जैन सकीम देहे
				4802	निजी	गैर-कृषि	0.008	अनिल कुमार चोपड़ा पिता—स्व० चमनलाल चोपड़ा सकीम देहे एवं महावीर चोपड़ा पिता—स्व० तोलाराम चोपड़ा सकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4801	निजी	गैर-कृषि	0.008	महावीर चोपड़ा पिता—स्व० तोलाराम चोपड़ा सकीम देहे
				4800	निजी	गैर-कृषि	0.008	महावीर चोपड़ा पिता—स्व० तोलाराम चोपड़ा सकीम देहे एवं लाल चोपड़ा पिता— तोलाराम चोपड़ा सकीम देहे
				4798	निजी	गैर-कृषि	0.012	लाल चोपड़ा पिता— तोलाराम चोपड़ा सकीम देहे एवं मनोज भोतरा पिता—तेजकरण भोतरा सकीम देहे
				4796	निजी	गैर-कृषि	0.004	कुलदीप मिश्रा पिता—स्व० फकीरचन्द्र मिश्रा सकीम देहे
				4795	निजी	गैर-कृषि	0.004	कुलदीप मिश्रा पिता—स्व० फकीरचन्द्र मिश्रा सकीम देहे
				4833	निजी	गैर-कृषि	0.008	चूनीलाल चोपड़ा पिता—स्व० जोहर चोपड़ा सकीम देहे
				4834	निजी	गैर-कृषि	0.004	चूनीलाल चोपड़ा पिता—स्व० जोहर चोपड़ा सकीम देहे
				4835	निजी	गैर-कृषि	0.008	चन्द्रशेखर शर्मा पिता— स्व० श्रवण कुमार शर्मा सकीम देहे
				4887	निजी	गैर-कृषि	0.004	शंभूलाल सचेती पिता— तोलाराम सचेती
				4836	सरकारी	गैर-कृषि	0.016	बिहार सरकार
				7629	निजी	गैर-कृषि	0.032	दीपक साह पिता—लीलाधर साह एवं आलित दास पिता— भुवाई दास
				7614	निजी	गैर-कृषि	0.016	आलित दास पिता— भुवाई दास एवं मोहन दास एवं बंगाली दास पिता— नसीब लाल दास
				7798	सरकारी	गैर-कृषि	0.068	बिहार सरकार
				7628	निजी	गैर-कृषि	0.056	जगलाल दास एवं छेदी दास पिता— अली दास, रंजीत दास पिता—रामचन्द्र दास, राजेन्द्र दास एवं अरूण दास पिता— महावीर दास एवं भोली दास पिता— उतय दास

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				7627	निजी	गैर-कृषि	0.036	शिवन दास पिता— रामखेलावन दास
				7625	निजी	गैर-कृषि	0.008	रामचन्द्र दास पिता—महावीर दास
				7624	निजी	गैर-कृषि	0.028	रामचन्द्र दास पिता—महावीर दास, सुमरति दास पिता— झरि दास, श्री प्रसाद पिता— विनोद साह
				5675	निजी	कृषि	0.048	श्रीप्रसाद साह पिता—स्व० विनोद प्रसाद साह
				5963	निजी	कृषि	0.012	प्रमोद साह पिता—स्व० बलदेव साह एवं राधे साह पिता— शुखलाल साह सकीम देहे
				7793	सरकारी	सड़क	0.048	बिहार सरकार
				5823	निजी	कृषि	0.016	लालबहादुर साह पिता—शिवजी साह सकीम देहे
				5830	निजी	गैर-कृषि	0.036	मसोमात दाना पति— स्व० रामविलास साह, महेन्द्र साह पिता—स्व० शिवनंदन साह एवं मंगल साह पिता— बहादुर साह सकीम देहे
				5843	निजी	कृषि	0.012	मिश्रीलाल साह पिता—लाल साह सकीम देहे
				7790	निजी	गैर-कृषि	0.22	श्याम राय पिता—सूर्य नारायण राय एवं किशुनदेव राय पिता—लक्ष्मण राय सकीम देहे एवं बोलिया देवी पति—सीताराम राय सकीम देहे
				5951	निजी	कृषि	0.076	किशुनदेव राय पिता—लक्ष्मण राय सकीम देहे, कमलेश प्रसाद यादव पिता— कुमार प्रसाद यादव एवं महेन्द्र पूर्वे पिता—तेजलाल पूव, विनोद कुमार साह पिता— विष्णू प्रसाद साह सकीम देहे एवं बोलिया देवी पति—सीताराम राय सकीम देहे
				5944	निजी	कृषि	0.048	रामचन्द्र साह एवं देवनारायण साह पिता—स्व० मकखन साह

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				5942	निजी	कृषि	0.068	किशुनदेव साह पिता—लक्ष्मण साह
				5927	सरकारी	सड़क	0.092	बिहार सरकार
				7630	निजी	कृषि	0.06	मानिक दास पिता— स्व० भुदटे दास सकीम देहे
				7655	सरकारी	सड़क	0.02	बिहार सरकार
				7657	निजी	कृषि	0.036	मानिक दास पिता— स्व० भुदटे दास सकीम देहे
				5833	सरकारी	सड़क	0.256	बिहार सरकार
				4513	निजी	कृषि	0.072	मिश्रीलाल साह एवं जगदीश साह पिता—स्व० सरयुग साह सकीम देहे
				4512	निजी	कृषि	0.016	सरयुग साह सकीम देहे
				4511	निजी	कृषि	0.02	किशुनदेव साह पिता स्व. लक्ष्मण साह
				4510	निजी	कृषि	0.008	किशुनदेव साह पिता स्व. लक्ष्मण साह
				4509	निजी	कृषि	0.008	किशुनदेव साह पिता स्व. लक्ष्मण साह
				4508	निजी	कृषि	0.012	किशुनदेव साह पिता स्व. लक्ष्मण साह
			(12) नवटोली	830	निजी	गैर—कृषि	0.108	दीपक साह पिता—लिलाधर साह एवं प्रभु साह पिता—स्व० चलित्र साह सकीम देहे, खलतर दास पिता—स्व० अनूप दास सकीम देहे, खुशी लाल साह पिता—शीतल साह सकीम देहे, छुथारू दास पिता—राम किशुन साह सकीम देहे एवं पोशपति दास पिता—किरय दास सकीम देहे
				829	निजी	कृषि	0.028	भोला साह पिता—स्व० बिन्देश्वर साह सकीम देहे एवं शम्भू साह पिता—स्व० बिन्देश्वर साह सकीम देहे
				827	निजी	कृषि	0.04	भोला साह पिता—स्व० बिन्देश्वर साह सकीम देहे एवं शम्भू साह पिता—स्व० बिन्देश्वर साह सकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1005	निजी	कृषि	0.032	मानिक दास पिता—भूते दास सकीम देहे
				1483	निजी	कृषि	0.004	पुलकित साह पिता—तिलक साह सकीम देहे
				60	निजी	कृषि	0.06	बिन्देश्वर साह पिता—स्व० झमेली साह सकीम देहे
				82	निजी	कृषि	0.016	भरत साह पिता—नथुनी साह एवं जगत साह पिता—नथुनी साह एवं यदूनन्दन साह पिता—स्व० शिवलाल साह सकीम देहे
				83	निजी	कृषि	0.02	संतोष कुमार साह पिता—स्व० बिनोद प्र० साह सकीम देहे
				85	निजी	कृषि	0.008	मोती लाल राम पिता—लालजी राम सकीम देहे
				94	निजी	कृषि	0.02	राम नारायण मंडल पिता—रसलाल मंडल सकीम देहे
				95	निजी	कृषि	0.004	मो० अयूब मियाँ पिता—स्व० मो० इब्राहिम सकीम देहे
				96	सरकारी	कृषि	0.048	बिहार सरकार
				97	निजी	कृषि	0.004	झौली साह पिता—स्व० बौकु साह सकीम देहे
				131	निजी	कृषि	0.004	बासुदेव मंडल पिता—स्व० योगी मंडल सकीम देहे
				819	सरकारी	सड़क	0.092	बिहार सरकार
				821	सरकारी	सड़क	0.06	बिहार सरकार
				1150	सरकारी	सड़क	0.024	बिहार सरकार
				1150	निजी	कृषि	0.024	शिव नारायण साह जयलाल साह सकीम देहे
				1198	सरकारी	सड़क	0.012	बिहार सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1170	सरकारी	सड़क	0.092	बिहार सरकार
				1172	सरकारी	सड़क	0.04	बिहार सरकार
				1270	निजी	कृषि	0.052	हरिनंदन प्रसाद पिता— स्व० हनुमान प्रसाद सकीम देहे
				1244	निजी	कृषि	0.072	रामटहल मंडल एवं डोम नारायण मंडल पिता— फौदी मंडल. सकीम देहे
				1245	निजी	कृषि	0.028	राजेन्द्र साह पिता— सहदेव साह सकीम देहे
				1438	सरकारी	सड़क	0.34	बिहार सरकार
				820	निजी	कृषि	0.016	रामजस साह पिता—स्व० रामचलित्र साह एवं दुखी साह पिता— स्व० अच्छेलाल साह सकीम देहे
				819	निजी	कृषि	0.012	उचित ठाकुर पिता— खत्तर ठाकुर एवं गंगे ठाकुर पिता— अधिकारी ठाकुर एवं रामाधीन मुखिया पिता— मखे मुखिया सकीम देहे
				818	निजी	गैर—कृषि	0.016	सोहन लाल साह पिता— स्व० रामचलित्र साह सकीम देहे
				1452	सरकारी	सड़क	0.248	बिहार सरकार
				1453	निजी	गैर—कृषि	0.096	सोहन लाल साह पिता— स्व० रामचलित्र साह सकीम देहे
				1454	सरकारी	सड़क	0.372	बिहार सरकार
				1455	सरकारी	सड़क	0.092	बिहार सरकार
				816	निजी	गैर—कृषि	0.02	हेक नारायण साह पिता— लक्ष्मण साह एवं यदुनंदन साह पिता— शिवलाल साह एवं सोहन साह पिता — महावीर साह
				811	निजी	कृषि	0.004	रामचन्द्र साह एवं अवध नारायण साह एवं सोहन साह पिता— चलित्र साह सकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				810	निजी	कृषि	0.004	बनिकलाल मंडल पिता— मोहन मंडल सकीम देहे
				809	निजी	कृषि	0.016	गुप्त नारायण साह पिता— अशफाई साह सकीम देहे
				832	सरकारी	सड़क	0.0392	बिहार सरकार
				146	सरकारी	सड़क	0.2092	बिहार सरकार
			(13) भुतहा	1069	निजी	कृषि	0.012	महेन्द्र साह पिता— स्व० रामप्रसाद साह सकीम देहे
				1113	निजी	कृषि	0.004	रसलाल मंडल एवं शोभित मंडल एवं अवध मंडल पिता— खुशी लाल मंडल सकीम देहे
				1127	निजी	कृषि	0.008	निरंजन साह पिता— स्व० महावीर साह सकीम देहे
				1129	निजी	कृषि	0.052	रामशरण साह एवं रामलखन साह पिता — स्व० भोला साह सकीम देहे
				1097	निजी	कृषि	0.02	रामचन्द्र मंडल पिता— बनवारी मंडल सकीम देहे एवं गंगे मंडल पिता— फुदनी मंडल सकीम देहे
				1372	निजी	कृषि	0.004	रघुनाथ साह एवं दिलिप साह पिता— मिश्रीलाल साह एवं रामाकान्त साह सकीम देहे
				700	निजी	कृषि	0.064	किशुनदेव साह पिता— स्व० भंडारी साह सकीम देहे, नागेश्वर साह पिता— ब्रह्मदेव साह सकीम देहे, रामनारायण साह पिता— डोमी साह सकीम देहे एवं रामलखन साह एवं रामनारायण साह पिता— स्व० भोला साह सकीम देहे
				1309	सरकारी	सड़क	0.072	बिहार सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1310	सरकारी	सड़क	0.068	बिहार सरकार
				1312	सरकारी	सड़क	0.188	बिहार सरकार
				1100	सरकारी	सड़क	0.04	बिहार सरकार
				1103	सरकारी	सड़क	0.024	बिहार सरकार
				1102	सरकारी	सड़क	0.12	बिहार सरकार
				99	सरकारी	सड़क	0.008	बिहार सरकार
				1130	सरकारी	सड़क	0.04	बिहार सरकार
				1366	सरकारी	सड़क	0.056	बिहार सरकार
				1368	सरकारी	सड़क	0.008	बिहार सरकार
			(14) बनगामा	9864	निजी	कृषि	0.044	मिश्रीलाल साह एवं सरयुग साह पिता— स्व० रामकिशन साह सकीम देहे
				9685	निजी	कृषि	0.038	सुरेन्द्र यादव पिता— स्व० नागेश्वर यादव सकीम देहे
				9683	निजी	कृषि	0.064	सियाराम एवं सिताराम साह पिता— खुशीलाल साह सकीम देहे, रामबहादुर साह एवं छोटकू पिता—स्व० सौदागर साह सकीम देह, एवं शंभु साह पिता— मुसारू साह सकीम देहे
				9672	निजी	कृषि	0.066	लक्ष्मीकान्त झा एवं कामेश्वर झा पिता— रामाकान्त झा सकीम देहे
				9671	निजी	कृषि	0.024	भागवत झा एवं दिनेश झा पिता— स्व० मधुकान्त झा सकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				9656	निजी	कृषि	0.0376	सियाराम एवं सिताराम साह पिता— खुशीलाल साह सकीम देह एवं मिश्रीलाल मंडल पिता— धनिकलाल मंडल सकीम देहे
				9655	निजी	कृषि	0.06	मिश्रीलाल मंडल पिता— धनिकलाल मंडल सकीम देहे
				9652	निजी	कृषि	0.12	मकुन मंडल एवं कृष्ण मंडल पिता— रघुनाथ मंडल सकीम देहे, लक्ष्मी मंडल पिता— स्व० बौआ लाल मंडल सकीम देहे एवं सूर्य नारायण मंडल पिता— स्व० बवछा लाल मंडल सकीम देहे
				9651	निजी	कृषि	0.086	धनराज मंडल पिता— बौआलाल मंडल
				9635	निजी	कृषि	0.04	आलोक झा पिता— नारायण झा सकीम देहे
				9407	निजी	गैर—कृषि	0.07	विनोद राय पिता— रामकिशोर राय सकीम देहे, महेन्द्र प्रसाद सिंह पिता— रामनारायण सिंह एवं जय प्रकाश झा पिता— शिव नारायण झा सकीम देहे, नथुनी साह पिता— बटकु साह सकीम देहे, मनोज कुमार पोद्दार पिता— रामदेव पोद्दार सकीम देहे एवं योगेन्द्र राय पिता—श्रीलाल राय एवं बैजू राय पिता— खुशीलाल राय सकीम देहे
				9417	निजी	गैर—कृषि	0.004	विनोद राय पिता— रामकिशोर राय सकीम देहे
				9419	निजी	गैर—कृषि	0.354	विनोद राय पिता— रामकिशोर राय सकीम देहे, महादेव राय पिता— सत्तन राय एवं महेन्द्र सिंह पिता— रामनारायण सिंह एवं बद्री सिंह पिता—सत्यनारायण सिंह एवं मनोज कुमार पोद्दार पिता—रामदेव पोद्दार एवं बैजुलाल राय पिता—खुशीलाल राय एवं रामसेवक राय पिता—मुंशीलाल राय एवं योगी साहु

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				9401	सरकारी	सड़क	0.004	बिहार सरकार
				9393	निजी	गैर-कृषि	0.024	सत्यनारायण पोद्दार एवं हरि पोद्दार पिता— स्व० गोपाल पोद्दार सकीम देहे, बेचन पोद्दार एवं विष्णु पोद्दार पिता— राम प्रसाद पोद्दार सकीम देहे एवं रामकृपाल यादव पिता— रामबिहारी यादव सकीम देहे
				9383	सरकारी	सड़क	0.032	बिहार सरकार
				10528	निजी	गैर-कृषि	0.056	रवि कामत एवं राज कुमार कामत पिता— स्व० भातु कामत सकीम देहे
				9428	निजी	गैर-कृषि	0.014	रवि कामत एवं राज कुमार कामत पिता— स्व० भातु कामत सकीम देहे
				10529	निजी	गैर-कृषि	0.1	परमेश्वर राय पिता—खुशीलाल राय सकीम देहे, शंकर साह पिता—स्व० देबु राय सकीम देहे, सुबोध साह पिता—हनुमान साह सकीम देहे, शिव कुमार साह पिता— बुचन साह एवं विश्वनाथ साह पिता— बुचन साह सकीम देहे, जगेश्वर मुखिया पिता— स्व० बाबूजी मुखिया सकीम देहे एवं शिवलाल मुखिया पिता—उचित मुखिया सकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				9423	निजी	गैर—कृषि	0.02	सत्यनारायण पोद्दार एवं हरि पोद्दार पिता— स्व० गोपाल पोद्दार सकीम देहे
				9424	निजी	गैर—कृषि	0.032	सत्यनारायण पोद्दार एवं हरि पोद्दार पिता— स्व० गोपाल पोद्दार सकीम देह, बेचन पोद्दार एवं विष्णु पोद्दार पिता— राम प्रसाद पोद्दार सकीम देहे एवं बेचन पोद्दार एवं विष्णु पोद्दार पिता— राम प्रसाद पोद्दार सकीम देहे
				9422	निजी	गैर—कृषि	0.008	ब्रह्मदेव पोद्दार एवं शिवदेव पोद्दार एवं राजदेव पोद्दार पिता— महात्तम पोद्दार
				9425	निजी	गैर—कृषि	0.024	ब्रह्मदेव पोद्दार एवं शिवदेव पोद्दार एवं राजदेव पोद्दार पिता— महात्तम पोद्दार, बांकेलाल पोद्दार पिता— सर्वनारायण पोद्दार सकीम देहे एवं सकलदेव पोद्दार पिता— सर्व नारायण पोद्दार सकीम देहे
				9421	निजी	गैर—कृषि	0.008	सकलदेव पोद्दार पिता— सर्व नारायण पोद्दार सकीम देहे
				8819	निजी	गैर—कृषि	0.012	नागे पोद्दार एवं तेज नारायण पोद्दार पिता— नंद लाल यादव एवं नबुनी यादव पिता— बांके यादव सकीम देहे
				8821	निजी	गैर—कृषि	0.024	राम जानकी मंदिर मनोज कुमार पोद्दार पिता—रामदेव पोद्दार एवं राम किरपाल पोद्दार पिता—राम बिहारी यादव सकीम देहे
				8822	निजी	गैर—कृषि	0.008	राम जानकी मंदिर मनोज कुमार पोद्दार पिता—रामदेव पोद्दार एवं राम किरपाल पोद्दार पिता—राम बिहारी यादव सकीम देहे
				8823	निजी	गैर—कृषि	0.072	राम जानकी मंदिर मनोज कुमार पोद्दार पिता—रामदेव पोद्दार एवं राम किरपाल पोद्दार पिता—राम बिहारी यादव सकीम देहे, राजे साफी एवं बद्री साफी पिता—स्व० तिलकेश्वर साफी सकीम देहे, भोला राय पिता—नयन राय सकीम देहे, सुगदेव राय पिता—नयन राय सकीम देहे, गुलशन कामत पिता—स्व० अधिकलाल कामत एवं शिव नारायण कामत पिता—अधिकलाल कामत, प्रेम लाल कामत पिता—साजन लाल कामत सकीम देहे एवं साजन लाल कामत पिता— धेनु कामत सकीम देहे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				8833	निजी	गैर—कृषि	0.016	बिनोद साह एवं सुबोध साह पिता— हनुमान साह सकीम देहे
				8853	निजी	गैर—कृषि	0.016	राम जानकी मंदिर मनोज कुमार पोटदार पिता—रामदेव पोटदार एवं राम किरपाल पोटदार पिता—एम बिहारी यादव सकीम देहे
				9377	निजी	गैर—कृषि	0.012	बुधराम पोटदार पिता— स्व० अमृत पोटदार सकीम देहे
				9379	निजी	गैर—कृषि	0.008	राम कुमार पोटदार पिता—देव नारायण पोटदार सकीम देहे
				9380	निजी	गैर—कृषि	0.004	राम कुमार पोटदार पिता—देव नारायण पोटदार सकीम देहे
				9381	निजी	गैर—कृषि	0.008	राम कुमार पोटदार पिता—देव नारायण पोटदार सकीम देहे
				9382	निजी	गैर—कृषि	0.004	राम कुमार पोटदार पिता—देव नारायण पोटदार सकीम देहे
				9370	निजी	गैर—कृषि	0.008	बेचन पोटदार पिता—स्व० राम प्र० पोटदार सकीम देहे
				9372	निजी	गैर—कृषि	0.016	सियाराम साह एवं बिन्देश्वर साह पिता—महावीर साह सकीम देहे एवं सुरेश साफी पिता—छेदी साफी एवं भेदी साफी पिता—कैलु साफी सकीम देहे
				10437	निजी	गैर—कृषि	0.024	बुधराम पोटदार पिता— स्व० अमृत पोटदार सकीम देहे
				9374	निजी	गैर—कृषि	0.008	राम नारायण साफी पिता— मोहन साफी सकीम देहे
				9376	निजी	गैर—कृषि	0.04	झाबर पोटदार पिता—रामेश्वर पोटदार सकीम देहे, राम किसुन राय पिता—अनूप राय एवं सोबो देवी पत्नी—झाबर राय सकीम देहे एवं राजेन्द्र कामत पिता— लक्ष्मी कामत
				9420	सरकारी	सड़क	0.0168	बिहार सरकार
				9453	सरकारी	सड़क	0.212	बिहार सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				10541	सरकारी	सड़क	0.096	बिहार सरकार
				9868	सरकारी	सड़क	0.288	बिहार सरकार
				9869	सरकारी	सड़क	1.224	बिहार सरकार
				9870	सरकारी	सड़क	0.688	बिहार सरकार
				4418	सरकारी	सड़क	0.088	बिहार सरकार
				9936	सरकारी	सड़क	0.24	बिहार सरकार
				91543	सरकारी	सड़क	0.096	बिहार सरकार
				9918	सरकारी	सड़क	0.164	बिहार सरकार
				9871	सरकारी	सड़क	0.32	बिहार सरकार
				10544	सरकारी	सड़क	0.108	बिहार सरकार
				10396	सरकारी	सड़क	0.108	बिहार सरकार
				10397	सरकारी	सड़क	0.144	बिहार सरकार
				10545	सरकारी	सड़क	0.088	बिहार सरकार
				13399	सरकारी	सड़क	0.128	बिहार सरकार
				10400	सरकारी	सड़क	0.06	बिहार सरकार
				10401	सरकारी	सड़क	0.176	बिहार सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				8824	सरकारी	सड़क	0.048	बिहार सरकार
				7048	निजी	गैर-कृषि	0.14	भोला राय पिता ननय राम साकीम देहे, सुगदेव राय पिता ननय राय साकीम देहे, गुलटेन कामत पिता स्व. अधिकलाल कामत एवं शिवनारायण कामत पिता अधिकलाल कामत, प्रेम लाल कामत पिता सजन लाल कामत साकीम देहे, सजन लाल कामत पिता धेनू कामत साकीम देहे, योगी साह पिता खतर साह साकीम देहे, प्रभुलाल कामत पिता टुकुलाल कामत एवं मोफतलाल कामतल पिता स्व. बालेश्वर कामत एवं उगन कामत एवं विद्यानन्द कामतल पिता रामयतन कामत साकीम देहे, नारायण राय पिता जीरप राय एवं भुजुनगी साह पिता रामलाल साह एवं जयनाथ साह पिता अमृत साह एवं उपेन्द्र कामत एवं सोनी लाल कामत पिता चुतहरू कामत साकीम देहे
				7036	निजी	गैर-कृषि	0.004	भोगी झा पिता लक्षेश्वर झा साकीम देहे
				7038	निजी	गैर-कृषि	0.088	राजकुमार यादव एवं शिवकुमार एवं सत्यनारायण यादव पिता रितलाल यादव साकीम देहे, शिवकुमार यादव पिता रितलाल यादव साकीम देहे, उपेन्द्र कामत एवं सोनेलाल कामत पिता छुतारु कामत साकीम देहे, शिवू कामत पिता गुलडन कामत एवं योगी झा पिता लक्षेश्वर झा साकीम देहे, रामायतन कामत पिता नन्दलाल कामत साकीम देहे, उग्री मिश्रा पिता जगरनाथ मिश्रा साकीम देहे, महेन्द्र साह पिता खतर साह एवं कुसुमलाल साह पिता अधिकारी साह साकीम देहे
				7047	निजी	गैर-कृषि	0.012	महेन्द्र साह पिता खतार साह एवं कुसुम लाल साह पिता अधिकारी साह साकीम देहे
				7006	सरकारी	सड़क	0.008	बिहार सरकार
				6967	सरकारी	सड़क	0.024	बिहार सरकार
				7051	निजी	गैर-कृषि	0.02	रामजानकी मंदिर मनोज कुमार पोद्दार पिता रामदेव पोद्दार एवं राम कृपाल यादव पिता राम बिहारी यादव साकीम देहे

[फा. सं. भाराप्र/30050/3/99/तक-III/मधुबनी-1/3डी]

प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2008

S.O. 354(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O. 1075(E), dated the 3rd July, 2007, -published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four laning, etc.), of National Highway No. 57 on the stretch of land from Km.0.000 to Km.310.000 (Muzaffarpur - Purnea Section) in District Madhubani in the State of Bihar;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Dainik Jagran" and "Hindustan", both dated the 9th August, 2007, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 310.000 (Muzaffarpur-Purnea Section) on the National Highway No. 57 in the district of Madhubani in the State of Bihar

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in hectares)	Name of the land owner/interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Madhubani	1. Pandol	(1) Narpat Nagar	1892	Private	Agriculture	0.132	Ram Prasad Yadav S/o-Lt. Thakko Yadav Hati
				1893	Private	Agriculture	0.103	Prabhu Yadav S/o-Lt. Dorik Yadav Hati, Raj Kumar Yadav S/o-Lt. Dorik Yadav Hati, Ramlal Yadav S/o-Lt. Dorik Yadav Hati
				1891	Private	Agriculture	0.060	Md. Faruk S/o-Lt. Md. Jainul Adaiapur
				1890	Private	Agriculture	0.073	Md. Mohim S/o-Lt. Taslim Adaiapur, Ram Prasad Yadav S/o-Lt. Thakko Yadav Hati
				1889	Private	Agriculture	0.048	Ram Prasad Yadav S/o-Lt. Thakko Yadav Hati, Md. Faruk S/o-Lt. Md. Jainul Adaiapur, Gulien Yadav S/o-Lt. Thakko Yadav Hati
				1888	Government	Road	0.049	Bihar government
				1886	Private	Agriculture	0.115	Ramchandra Yadav S/o-Lt. Sonelal Yadav Hati, Masomat Bano Jouje Lt. Md. Yunus Sima
				1883	Private	Agriculture	0.024	Kusho Yadav S/o-Lt. Kishun Yadav Hati
				1884	Private	Agriculture	0.020	Kusho Yadav S/o-Lt. Kishun Yadav Hati, Bibi Jarina Jouje Lt. Abbas Sima
				1885	Private	Agriculture	0.012	Kusho Yadav S/o-Lt. Kishun Yadav Hati
				1887	Private	Agriculture	0.016	Kusho Yadav S/o-Lt. Kishun Yadav Hati
				1882	Private	Agriculture	0.070	Mahendra Choupal & Upendra Choupal & Rajendra Choupal S/o-Lt. Mangal Choupal Hati
				1881	Private	Agriculture	0.061	Ramchandra Yadav S/o-Lt. Sonelal Yadav Hati, Md. Manjoor S/o-Lt. Yunus Hati, Mahendra Choupal & Upendra Choupal & Rajendra Choupal S/o-Lt. Mangal Choupal Hati
				1880	Government	Road	0.018	Bihar government
				2030	Private	Agriculture	0.004	Gulien Yadav S/o-Lt. Thakko Yadav Hati
				1876	Private	Agriculture	0.076	Chandra Prakash Singh S/o-Lt. Suraj Nr. Singh Narpatnagar, Gulien Yadav S/o-Lt. Thakko Yadav Hati
				1878	Private	Agriculture	0.073	Baidyanath Sah S/o-Lt. Laxmi Sah Hati
				1877	Private	Agriculture	0.032	Chandra Prakash Singh S/o-Lt. Suraj Nr. Singh Narpatnagar
				1869	Private	Agriculture	0.016	Gulien Yadav S/o-Lt. Thakko Yadav Hati
				1875	Private	Agriculture	0.016	Gulien Yadav S/o-Lt. Thakko Yadav Hati
				1874	Private	Agriculture	0.038	Kusho Yadav S/o-Lt. Unknown Hati
				1873	Private	Agriculture	0.039	Md. Taiyab S/o-Lt. Md. Jainul Sima, Lal Mohammad S/o-Lt. Md. Khalil Sima
				1871	Private	Agriculture	0.033	Fakir Mohammad S/o-Lt. Baban Sardar Sima
				1872	Private	Agriculture	0.012	Md. Muddusir S/o-Lt. Md. Ataul Rahman Sima
				1856	Private	Agriculture	0.065	Md. Farir S/o-Lt. Samshul Haq Sima, Md. Taiyab S/o-Lt. Md. Sabdul Sima, Md. Arman S/o-Lt. Md. Habib Sima
				1857	Private	Agriculture	0.021	Md. Arman S/o-Lt. Md. Habib Sima
				1852	Private	Agriculture	0.006	Md. Taiyab S/o-Lt. Md. Jainul Sima
				1858	Private	Agriculture	0.044	Md. Alaudin S/o-Lt. Md. Kasim Sima, Md. Shabir S/o-Lt. Abdul Hakim Sima
				1859	Private	Agriculture	0.049	Md. Imamuddin S/o-Lt. Ali Husen Sima
				1860	Private	Agriculture	0.112	Md. Arman & Md. Shamim S/o-Lt. Md. Habib & Md. Abdul Mazid, Md. Manjoor S/o-Lt. Md. Amir Sima, Md. Dastagir S/o-Lt. Md. Wali Sima

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1866	Private	Agriculture	0.020	Md. Idria S/o-Lt. Md. Etwarl Sima
				1854	Private	Agriculture	0.081	Md. Destigir S/o-Lt. Md. Wali Sima
				1846	Private	Agriculture	0.016	Md. Harun S/o-Lt. Md. Yasin Sima
				1843	Private	Agriculture	0.028	Rambharosh Yadav S/o-Lt. Duniyal Yadav Hatli
				1844	Private	Agriculture	0.016	Md. Jahir S/o-Lt. Md. Khalil Sima
				1842	Private	Agriculture	0.012	Rambharosh Yadav S/o-Lt. Duniyal Yadav Hatli
				1841	Private	Agriculture	0.004	Md. Idriah & Md. Jhir S/o-Lt. Md. Nby Sima
				1838	Private	Agriculture	0.006	Gulten Yadav S/o-Lt. Thakko Yadav Hatli
				1845	Private	Agriculture	0.008	Noor Mohammad S/o-Lt. Md. Gulab Sima, Md. Tabrez S/o-Lt. Md. Moti Sima
				1848	Private	Agriculture	0.008	Md. Suleman S/o-Lt. Nabi Sima
				1853	Private	Agriculture	0.020	Md. Jalli S/o-Lt. Md. Huseini Sima
				1865	Private	Agriculture	0.028	Md. Gyesudin S/o-Lt. Md. Manjoor Sima
				1862	Private	Agriculture	0.036	Md. Tayab S/o-Lt. Md. Sabdul Sima, Md. Mohammad S/o-Lt. Md. Abbas Sima
				1861	Private	Agriculture	0.041	Md. Idriah S/o-Lt. Md. Nby Sima
				1813	Private	Agriculture	0.044	Md. Tayab S/o-Lt. Jamul Haq Sima, Md. Chhedi S/o-Lt. Md. Khalil Sima
				1814	Private	Agriculture	0.020	Lal Mohammad S/o-Lt. Md. Palat Sima
				1812	Private	Agriculture	0.016	Md. Muslim & Md. Husen S/o-Lt. Md. Mahboob & Lt. Md. Danival Sima
				1811	Private	Agriculture	0.028	Md. Muslim & Md. Husen S/o-Lt. Md. Mahboob & Lt. Md. Danival Sima
				1808	Private	Agriculture	0.028	Md. Arman S/o-Lt. Habib Sima
				1807	Private	Agriculture	0.018	Md. Jakir S/o-Lt. Gulem Rasul Sima
				1806	Private	Agriculture	0.008	Md. Salammat & Md. Islam S/o-Lt. Ramjani Sima, Ful Hasan S/o-Lt. Md. Maneer Sima, Noo Mohammad S/o-Lt. Md. Maneer Sima
				1805	Private	Agriculture	0.032	Noor Mohammad S/o-Lt. Md. Gulab Sima, Abdul Rasid S/o-Lt. Md. Yunus Sima, Md. Tabrez S/o-Lt. Md. Moti Sima
				1804	Private	Agriculture	0.066	Md. Jalli S/o-Lt. Md. Huseini Sima
				1810	Private	Agriculture	0.068	Md. Abdula S/o-Lt. Bashrudin Sima
				1803	Private	Agriculture	0.081	Md. Idria & Md. Suleman S/o-Lt. Md. Nabi Sima
				1743	Private	Agriculture	0.012	Md. Imamuddin S/o-Lt. Ali Husen Sima
				1744	Private	Agriculture	0.032	Md. Tayab S/o-Lt. Md. Sabdul Sima
				1740	Private	Agriculture	0.010	Md. Firoz S/o-Lt. Md. Sharik Sima
				1745	Private	Agriculture	0.032	Md. Ahmdulla S/o-Lt. Md. Salim Sima
				1801	Private	Agriculture	0.048	Md. Ahmdulla S/o-Lt. Md. Salim Sima
				1802	Private	Agriculture	0.051	Md. Mehendi & Md. Mangal S/o-Lt. Md. Kari Sima
				1746	Private	Agriculture	0.059	Abdul Rasid S/o-Lt. Md. Yunus Sima, Noor Mohammad S/o-Lt. Md. Gulab Sima, Md. Abdula S/o-Lt. Md. Basiruddin Sima
				1800	Private	Agriculture	0.024	Md. Abdula S/o-Lt. Md. Basiruddin Sima
				1799	Private	Agriculture	0.012	Md. Ahmdulla S/o-Lt. Md. Salim Sima
				1750	Private	Agriculture	0.004	Md. Abdul Rasid S/o-Lt. Md. Yunus Sima
				1749	Private	Agriculture	0.028	Sabir Husen S/o-Lt. Abdul Hakim Sima
				1748	Private	Agriculture	0.055	Md. Suleman S/o-Lt. Nathu Sima
				1747	Private	Agriculture	0.059	Md. Suleman S/o-Lt. Nathu Sima
				1741	Private	Agriculture	0.063	Juber Alam S/o-Lt. Khurshid Alam Sima

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1486	Private	Agriculture	0.060	Md. Ibrarul Haq & Md. Ehsaramul Haq S/o-Lt. Md. Azizul Haq Sima
				1739	Private	Agriculture	0.177	Md. Idris & Md. Mustafa S/o-Lt. Md. Mangal Sima
				1487	Private	Agriculture	0.054	Md. Mustafa Sima, Sobera Khatun Jouje Sabir Husen Sima, Md. Tanveer S/o-Lt. Abdul Bahav Sima
				1485	Private	Agriculture	0.075	Bibi Jarins Jouje Lt. Abbas Sima, Shivshankar Yadav S/o-Lt. Parmeshwar Yadav Hali
				1513	Private	Agriculture	0.041	Md. Ibrar S/o-Lt. Abdul Aziz Sima
				1508	Private	Agriculture	0.008	Md. Alauddin S/o-Lt. Md. Kasim Sima
				1508	Private	Agriculture	0.007	Md. Bilal S/o-Lt. Md. Jibechh Sima
				1506	Private	Agriculture	0.007	Md. Rafakat S/o-Lt. Md. Hafiz Sima
				1515	Private	Agriculture	0.012	Md. Abdul Kadir S/o-Lt. Md. Salim Sima
				1514	Private	Agriculture	0.008	Md. Alauddin S/o-Lt. Md. Kasim Sima
				1510	Private	Agriculture	0.020	Masomat Hasbunisa Jouje -Tufajul Husen Sima
				1517	Private	Agriculture	0.004	Masomat Hasbunisa Jouje -Tufajul Husen Sima
				1482	Private	Agriculture	0.031	Masomat Hasbunisa Jouje -Tufajul Husen Sima
				1518	Private	Agriculture	0.072	Md. Jali S/o-Lt. Md. Hussaini Sima
				1483	Private	Agriculture	0.008	Md. Sabir Husen S/o-Lt. Md. Hakim Sima
				1481	Private	Agriculture	0.038	Md. Tahir S/o-Lt. Md. Jaiul Sima
				1480	Private	Agriculture	0.012	Sadre Alam S/o-Lt. Md. Yusuf Sima
				1479	Private	Agriculture	0.024	Sadre Alam S/o-Lt. Md. Yusuf Sima
				1471	Private	Agriculture	0.041	Md. Anisul Haq S/o-Lt. Md. Mehendi Jean Sima
				1478	Private	Agriculture	0.128	Fakir Mohammad S/o-Lt. Basan Sarder Sima
				1523	Private	Agriculture	0.008	Md. Anisul Haq S/o-Lt. Md. Mehendi Jean Sima
				1526	Private	Agriculture	0.036	Md. Ibrahul Nadder S/o-Lt. Abdul Satter Sima, Md. Firoz Alam S/o-Lt. Md. Sharik Sima
				1528	Private	Agriculture	0.016	Md. Abdulla S/o-Lt. Md. Bashruddin Sima
				1527	Private	Agriculture	0.032	Md. Bilal S/o-Lt. Md. Jibechh Sima
				1477	Private	Agriculture	0.109	Md. Sivan S/o-Lt. Noor Mohammed Sima, Md. Firoz Alam S/o-Lt. Md. Sharik Sima, Md. Ibrahul Nadder S/o-Lt. Abdul Satter Sima
				1473	Private	Agriculture	0.024	Md. Yunus S/o-Lt. Ameer Sima, Sadre Alam S/o-Lt. Md. Yusuf Sima
				1472	Private	Agriculture	0.032	Sadre Alam S/o-Lt. Md. Yusuf Sima, Md. Hakim S/o-Lt. Md. Muddi Sima
				1470	Private	Agriculture	0.020	Shalendra Pd. Singh S/o-Lt. Viewanath Singh Narpatnagar
				1474	Private	Agriculture	0.028	Md. Bilal S/o-Lt. Md. Jibechh Sima
				1475	Private	Agriculture	0.028	Md. Harun S/o-Lt. Md. Yasin Sima
				1476	Private	Agriculture	0.045	Md. Bilal S/o-Lt. Md. Jibechh Sima, Md. Yunus S/o-Lt. Md. Yunus Sima
				1531	Private	Agriculture	0.024	Md. Bilal S/o-Lt. Md. Jibechh Sima
				1443	Private	Agriculture	0.073	Md. Bilal S/o-Lt. Md. Jibechh Sima, Md. Jahir S/o-Lt. Md. Khalil Sima
				1442	Private	Agriculture	0.020	Md. Sulaman S/o-Lt. Md. Nathu Sima
				1438	Private	Agriculture	0.044	Md. Dasigir S/o-Lt. Md. Wali Sima
				1437	Private	Agriculture	0.041	Md. Kalimullah S/o-Lt. Md. Salim Sima
				1444	Private	Agriculture	0.112	Md. Gysaudin S/o-Lt. Md. Manjoor Sima
				1445	Private	Agriculture	0.020	Hafiz Mohammed Jakir S/o-Lt. Alhusan Sima
				1447	Private	Agriculture	0.008	Md. Abrarul Haq S/o-Lt. Ajjul Haq Sima

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1414	Private	Agriculture	0.125	Md. Ubed Alam S/o-Lt. Kursede Alam Sima, Md. Salauddin S/o-Lt. Md. Jamshed Sima
				1436	Private	Agriculture	0.042	Md. Ahmdulla S/o-Lt. Md. Salim Sima
				1435	Private	Agriculture	0.012	Md. Aslam S/o-Lt. Md. Yasin Sardar Sima
				1416	Private	Agriculture	0.027	Md. Ilyas S/o-Lt. Abdul Karim Sima
				1412	Private	Agriculture	0.046	Md. Sarfuddin S/o-Lt. Md. Jamshed Sima, Md. Sarfuddin S/o-Lt. Md. Jamshed Sima
				1413	Private	Agriculture	0.068	Md. Sarfuddin S/o-Lt. Md. Jamshed Sima, Md. Aslam S/o-Lt. Md. Yasin Sardar Sima
				1415	Private	Agriculture	0.012	Md. Aslam S/o-Lt. Md. Yasin Sardar Sima
				1411	Private	Agriculture	0.016	Md. Badrul Haq S/o-Lt. Abdul Mazid Sima, Md. Badrul Haq S/o-Lt. Abdul Mazid Sima
				1401	Private	Agriculture	0.020	Md. Aslam S/o-Lt. Md. Yasin Sardar Sima
				1406	Private	Agriculture	0.012	Md. Keish S/o-Lt. Md. Abdul Satter Sima
				1402	Private	Agriculture	0.083	Barida Khatun Jouie Lt. Abdul Hamid Sima
				1403	Private	Agriculture	0.103	Md. Hasim S/o-Lt. Ismail Sima, Md. Samim S/o-Lt. Abdul Sakul Sima
				5600	Private	Agriculture	0.012	Md. Suleman S/o-Lt. Md. Nathu Sima
				1809	Private	Agriculture	0.073	Md. Saemat S/o- Isam
				1360	Private	Agriculture	0.008	Md. Im tyaz Ahmad S/o-Lt. Md. Ilyas Sima
				1359	Private	Agriculture	0.113	Md. Suleman S/o-Lt. Md. Nathu Sima
				1350	Private	Agriculture	0.026	Parmeshwer Sah S/o-Lt. shouki Sah Sima
				1349	Private	Agriculture	0.083	Badrul Haq S/o-Lt. Abdul Mazid Sima
				1352	Private	Agriculture	0.020	Firoj Alam S/o-Lt. Md. Shafik Sima
				1353	Private	Agriculture	0.026	Md. Ilyas S/o-Lt. Nabi Jaan Sima
				1351	Private	Agriculture	0.046	Parmeshwer Sah S/o-Lt. shouki Sah Sima
				1358	Private	Agriculture	0.026	Md. Shamim S/o-Lt. Abdul Sakur Sima
				1357	Private	Agriculture	0.012	Md. Shamim S/o-Lt. Abdul Sakur Sima
				1356	Private	Agriculture	0.012	Md. Shamim S/o-Lt. Abdul Sakur Sima
				1355	Private	Agriculture	0.024	Idris Nadaf S/o-Lt. Abdul Nadaf Sima
				1354	Private	Agriculture	0.016	Hajra Begam Jouie Jainul Haq Sima
				1347	Private	Agriculture	0.035	Md. Shahabuddin S/o-Lt. Md. Jamshed Sima, Idris Nadaf S/o-Lt. Abdul Nadaf Sima
				1846	Private	Agriculture	0.026	Md. Harun S/o-Lt. Md. Yasin Sima
				2199	Private	Agriculture	0.012	Musai Sah S/o-Lt. Premlal Sah
				1149	Government	Road	0.082	Bihar government
				1132	Private	Agriculture	0.081	Jitendra Kr. Singh S/o-Lt. Gounishanker Singh Narpatnagar, Ravindra Singh S/o-Lt. Premlal Singh Narpatnagar
				1135	Private	Agriculture	0.028	Meena Devi W/o. Harendra Pd. Singh Narpatnagar
				1136	Private	Agriculture	0.008	Yogendra Singh S/o-Lt. Kedar nath Singh Narpatnagar
				1134	Private	Agriculture	0.041	Gyatri Devi & Beena Devi & Chandraprabha Devi D/o. Rameshwer Singh Narpatnagar
				1133	Private	Agriculture	0.107	Gopal Sh S/o-Lt. Jamun Sah Narpatnagar
				1111	Private	Agriculture	0.032	Dr. Harendra Pd. Singh S/o-Lt. Yadunandan singh Narpatnagar
				1113	Private	Agriculture	0.036	Dr. Harendra Pd. Singh S/o-Lt. Yadunandan singh Narpatnagar, Rajendra singh & Viawambher singh & Gajendra singh S/o-Lt. Yadunandan Singh Narpatnagar
				1112	Private	Agriculture	0.032	Dr. Harendra Pd. Singh S/o-Lt. Yadunandan singh Narpatnagar, Rajendra singh & Viawambher singh & Gajendra singh S/o-Lt. Yadunandan Singh Narpatnagar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1120	Private	Agriculture	0.107	Subhash Kr. Singh S/o-Lt. Bijay Pd. Singh Narpalnagar, Raj Kishore Singh S/o-Lt. Fuleshwar Singh Narpalnagar
				1121	Private	Agriculture	0.054	Viswambher Pd. Singh S/o-Lt. Yadunandan Singh Narpalnagar
				1122	Private	Agriculture	0.055	Jitendra Kr. Singh S/o-Lt. Gourishanker Singh Narpalnagar
				1124	Private	Agriculture	0.018	Viswambher Pd. Singh S/o-Lt. Yadunandan Singh Narpalnagar
				1119	Private	Agriculture	0.089	Bimal Singh Jouje-Suresh Pd. Singh Narpalnagar
				1114	Private	Agriculture	0.045	Chandrakant Jha S/o-Lt. Ganesh Jha Narpalnagar
				1118	Private	Agriculture	0.045	Raj Kr. Mishra S/o-Lt. Gyskant Mishra Narpalnagar
				1115	Private	Agriculture	0.018	Rameshwar Jhas & Laxmishwar Jha & Bidyand Jha & Madan Jha S/o-Lt. Nand Jha Narpalnagar
				1116	Private	Agriculture	0.028	Amrendra Jha & Madhukant Jha S/o-Lt. Satya Nr. Jha Narpalnagar, Musal Jha S/o-Lt. Motilal Jha Narpalnagar
				1117	Private	Agriculture	0.008	Rajendra Jha S/o-Lt. Sarvadev Jha Narpalnagar
				1104	Private	Agriculture	0.016	Babujee Thakur S/o-Lt. Harinandan Thakur Narpalnagar
				1102	Private	Agriculture	0.028	Maresh Pd. Singh S/o-Lt. Udit Singh Narpalnagar
				888	Private	Agriculture	0.182	Kailash Pd. Singh & Shyamanandan Singh S/o-Lt. Ganga Pd. Singh Narpalnagar, Yashindra Kr. Mishra S/o-Lt. Raghunath Mishra Narpalnagar
				2327	Private	Agriculture	0.187	Yashindra Kr. Mishra S/o-Lt. Raghunath Mishra Narpalnagar, Binodanand Mishra S/o-Lt. Bishwanath Mishra Narpalnagar
				2325	Private	Agriculture	0.076	Krishna Kr. Singh S/o-Lt. Kali Pd. Singh Narpalnagar
				2324	Private	Agriculture	0.053	Pramod Kr. Singh & Sushil Kr. Singh S/o-Lt. Surendra Pd. Singh Narpalnagar
				2315	Private	Agriculture	0.031	Krishna Kr. Singh & Sunil Kr. Singh S/o-Lt. Kali Pd. Singh Narpalnagar
				2314	Private	Agriculture	0.014	Aaditya Nr. Singh S/o-Lt. Hardev Singh & Bishwanath Singh S/o- Lt. Ramadhir Singh Narpalnagar
				2316	Private	Agriculture	0.002	Dhirendra Kr. Singh S/o-Lt. Tribhuvan Pd. Singh Narpalnagar
				2323	Private	Agriculture	0.012	Raj Kishore Singh S/o-Lt. Fuleshwar Singh Narpalnagar, Subhash Kr. Singh S/o-Lt. Bijay Pd. Singh Narpalnagar
				2326	Private	Agriculture	0.060	Sunil Kr. Singh S/o-Lt. Durg Nr. Singh Narpalnagar
				889	Private	Agriculture	0.024	Rubi Devi Jouje Heera Mandal Narpalnagar
				890	Private	Agriculture	0.020	Md. Naseer Sima
				891	Private	Agriculture	0.012	Md. Naseer Sima
				895	Private	Agriculture	0.024	Abdresh Mandal S/o- Rambhass Mandal Narpalnagar
				896	Private	Agriculture	0.011	Sunder Mandal Narpalnagar
				884	Private	Agriculture	0.028	Jitendra Kr. Singh S/o-Lt. Gourishanker Singh Narpalnagar
				885	Private	Agriculture	0.035	Kailash Pd. Singh & Shyamanandan Singh S/o-Lt. Ganga Pd. Singh Narpalnagar
				886	Private	Agriculture	0.093	Gyatri Devi, Bina Devi, Chandraprabha Devi S/o-Rameshwar Singh Narpalnagar
				887	Private	Agriculture	0.123	Gajendra Pd. Singh S/o-Lt. Yadunandan Singh Narpalnagar
				2331	Private	Agriculture	0.010	Bipin Bihari Singh S/o-Lt. Bhogeshwar Singh
				2329	Private	Agriculture	0.010	Bipin Bihari Singh S/o-Lt. Bhogeshwar Singh
				883	Private	Agriculture	0.600	Radhanandan Singh S/o-Lt. Triveni Singh Narpalnagar, Radhanandan Singh S/o-Lt. Triveni Singh Narpalnagar
				851	Private	Agriculture	0.012	Md. Muskim S/o-Lt. Ayub Sima
				868	Private	Agriculture	0.060	Jamila Khatun Jouje Lt. Ayub Sima
				869	Private	Agriculture	0.016	Gyatri Devi, Bina Devi, Chandraprabha Devi S/o-Rameshwar Singh Narpalnagar
				880	Private	Agriculture	0.008	Jakri Hussain S/o - Ali Hussain

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				874	Private	Agriculture	0.006	Jogendra Singh S/o-Lt. Kedar Singh Narpatnagar
				873	Private	Agriculture	0.027	Jogendra Singh S/o-Lt. Kedar Singh Narpatnagar
				872	Private	Agriculture	0.029	Binodanand Mishra S/o-Lt. Bishwanath Mishra Narpatnagar
				870	Private	Agriculture	0.060	Binodanand Mishra S/o-Lt. Bishwanath Mishra Narpatnagar, Shekh Jainul S/o-Lt. Md. Taslim Sims
				871	Private	Agriculture	0.020	Binodanand Mishra S/o-Lt. Bishwanath Mishra Narpatnagar, Gopal Jha & Dhaneshwer Jha S/o-Lt. Kunjilal Jha Narpatnagar
				1839	Private	Agriculture	0.008	Lal Mohammad S/o- Md. Khalil
				5612	Private	Agriculture	0.012	Jainul Haque S/o- Taslim
				5613	Private	Agriculture	0.008	Jainul Haque S/o- Taslim
				1434	Private	Agriculture	0.020	Jainul Haque S/o- Taslim
				1446	Private	Agriculture	0.004	Md. Irfan S/o- Abdul Rahman
				1361	Private	Agriculture	0.008	Md. Eleyss S/o- Nabi Jan
				1404	Private	Agriculture	0.072	Md. Sabir S/o- Abdul Bahab, Md. Kalimula S/o- Md. Salim
				1840	Private	Agriculture	0.006	Lal Mohammad S/o- Md. Khalil
				1483	Private	Agriculture	0.014	Md. Sabir Husain S/o- Abdul Hakim
				862	Private	Agriculture	0.006	Md. Jasir Ahmad S/o- Abdul Sakur
		(2) Mokaram Pur		7801	Private	Agriculture	0.013	Devchandra Jha & Jaychandra Jha S/o-Shambhu Nr. Jha
				7802	Private	Agriculture	0.013	Madhukant Jha S/o-Lt. Satya Nr. Jha
				7803	Private	Agriculture	0.013	Shiv Shanker Jha S/o-Lt. Batuk Jha
				7806	Private	Agriculture	0.010	Laxmeshwer Jha S/o-Lt. Nand Jha
				7805	Private	Agriculture	0.022	Kashinath Jha S/o-Lt. Mahaveer Jha
				7771	Private	Agriculture	0.002	Shashikant Jha S/o-Lt. Radhakant Jha
				7770	Private	Agriculture	0.014	Upendra Jha S/o-Lt. Lilakant Jha
				7807	Private	Agriculture	0.034	Chandra Nr. Jha S/o-Lt. Ganesh Jha
				7800	Private	Agriculture	0.002	Vedanand Jha S/o-Lt. Tunuklal Jha Sakim-Dehe
				7804	Private	Agriculture	0.008	Rajendra Jha S/o- Sukdev Jha
				7814	Private	Agriculture	0.020	Binodanand Mishra S/o-Lt. Bishwanath Mishra
				7813	Private	Agriculture	0.015	Kashinath Jha S/o-Lt. Mahaveer Jha
				7812	Private	Agriculture	0.020	Kashinath Jha S/o-Lt. Mahaveer Jha
				7811	Private	Agriculture	0.026	Devchandra Jha & Jaychandra Jha S/o-Shubh Nr. Jha
				7810	Private	Agriculture	0.026	Krishnakant Mishra & Bishnakant Mishra & Bhadrakant Mishra S/o-Lt. Umakant Mishra
				7808	Private	Agriculture	0.018	Dayanand Jha S/o-Lt. Kameshwer Jha
				7809	Private	Agriculture	0.020	Vedanand Jha S/o-Lt. Tunuklal Jha Sakim-Dehe
				7787	Private	Agriculture	0.058	Hemkar Jha S/o-Lt. Jaykant Jha, Chandra Mohan Jha S/o-Lt. Deevakar Jha
				7823	Private	Agriculture	0.042	Raj Kr. Mishra S/o-Lt. Gayakant Mishra
				7824	Private	Agriculture	0.064	Binodanand Mishra S/o-Lt. Gayakant Mishra
				7825	Private	Agriculture	0.036	Gajendra Jha S/o-Lt. Santlal Jha
				7826	Private	Agriculture	0.012	Dayanand Jha S/o-Lt. Kameshwer Jha
				7827	Private	Agriculture	0.012	Vedanand Jha S/o-Lt. Tunuklal Jha Sakim-Dehe
				7828	Private	Agriculture	0.012	Devchandra Jha & Jaychandra Jha S/o-Shambhu Nr. Jha
				7786	Private	Agriculture	0.020	Hemkar Jha S/o-Lt. Jaykant Jha
				7781	Private	Agriculture	0.004	Gopal Singh S/o-Lt. Bhupendra Saingh
				7829	Private	Agriculture	0.081	Hemkar Jha & Chandra Mohan Jha S/o-Lt. Jaykant Jha & Lt. Deevakar Jha
				7830	Private	Agriculture	0.041	Chandra Nr. Jha S/o-Lt. Ganesh Jha, Gajendra Jha S/o-Lt. Santlal Jha

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				7831	Private	Agriculture	0.040	Muktinath Mishra S/o-Lt.Kantir Mishra, Upendra Jha S/o-Lt.Lilekant Jha
				7832	Private	Agriculture	0.032	Shashikant Jha S/o-Lt.Radhakant Jha
				7833	Private	Agriculture	0.084	Chandra Mohan Jha S/o-Lt. Deevakar Jha
				7834	Private	Agriculture	0.032	Shivkant Jha S/o-Lt. Bekuk Jha
				7765	Private	Agriculture	0.208	Harivansh Nr. Singh & Rajesh Roushan S/o- Lt.Priyant Singh & Lt.Raghuvansh Nr. Singh
				7762	Private	Agriculture	0.008	Muridhar Singh S/o-Lt. Shiv Nr. Singh
				7763	Private	Agriculture	0.040	Harivansh Nr. Singh & Rajesh Roushan S/o- Lt.Priyant Singh & Lt.Raghuvansh Nr. Singh
				7764	Private	Agriculture	0.048	Raghuvendra Pd. Singh S/o-Lt.Braj Kishore Singhi, Kaushikendra Pd. Singh S/o-Lt.Lal Kishore Singh
				7759	Private	Agriculture	0.028	Aaditya Nr. Singh S/o-Lt. Jaymangal Pd. Singh
				7842	Private	Agriculture	0.076	Biher Govt.
				7897	Private	Agriculture	0.108	Radhanandan Singh S/o-Lt.Triveni Singh, Sanjay Singh & Mritunjay Singh S/o-Lt. Shyamnandan Singh, Kanhaiya Singh S/o-Lt.Triveni Singh
				7928	Private	Agriculture	0.280	Binodanand Mishra & Brajesh Kr. Mishra S/o-Lt.Bishwanath Mishra & Lt.Yadunath Mishra, Yatindra Kr. Mishra S/o-Lt.Raghunath Mishra
				7898	Private	Agriculture	0.108	Yatindra Kr. Mishra S/o-Lt.Raghunath Mishra
				7899	Private	Agriculture	0.044	Aaditya Nr. Singh S/o-Lt. Hardev Singh
				7900	Private	Agriculture	0.020	Bishwanath Singh S/o-Lt.Ramdhir Singh
				7901	Private	Agriculture	0.048	Suresh Pd. Singh S/o-Lt.Nathani Singh
				7905	Private	Agriculture	0.012	Chandra Nr. Jha S/o-Lt.Ganesh Jha
				7904	Private	Agriculture	0.020	Vednand Jha & Dayanand Jha & Jaychandra Jha S/o-Lt.Tunukdal Jha & Lt.Kameshwer Jha & Lt.Shubh Nr. Jha Sakim-Cshe
				7903	Private	Agriculture	0.058	Hemkar Jha & Chandramohan Jha & Sudhaker Jha S/o- Lt.Jaykant Jha & Lt.Deevakar Jha & Lt.Kalkant Jha
				7910	Private	Agriculture	0.052	Kashinath Jha S/o-Lt.Mahaveer Jha
				7913	Private	Agriculture	0.002	Muktinath Mishra S/o-Lt.Kantir Mishra
				7912	Private	Agriculture	0.002	Muktinath Mishra S/o-Lt.Kantir Mishra
				7911	Private	Agriculture	0.052	Sudhaker Jha S/o-Lt.Kalkant Jha
				7902	Private	Agriculture	0.064	Hemkar Jha & Chandramohan Jha S/o-Lt.Jaykant Jha & Lt.Deevakar Jha
				7945	Private	Agriculture	0.040	Brajesh Kumar Mishra S/o-Lt.Yadunath Mishra
				7944	Private	Agriculture	0.081	Brajesh Kumar Mishra S/o-Lt.Yadunath Mishra
				7941	Private	Agriculture	0.078	Muktinath Mishra S/o-Lt.Kantir Mishra, Upendra Jha S/o-Lt.Lilekant Jha
				7940	Private	Agriculture	0.044	Shashikant Jha S/o-Lt.Radhakant Jha, Dhaneshwer Jha S/o-Lt.Kunjilal Jha
				7942	Private	Agriculture	0.097	Brajesh Kumar Mishra S/o-Lt.Yadunath Mishra
				7939	Private	Agriculture	0.008	Bishwanath Singh S/o-Lt.Ramdhir Singh
				7943	Private	Agriculture	0.120	Yatindra Kr. Mishra S/o-Lt.Raghunath Mishra
				7755	Private	Agriculture	0.024	Hemkar Jha S/o- Jaykant Jha
		(3) Kanak Pur		411	Private	Agriculture	0.048	Bishwanath Singh S/o-Lt.Ramdhir Singh Narpalnagar
				412	Private	Agriculture	0.060	Pankaj Mandal S/o-Lt.Ramsevak Mandal Narpalnagar
				429	Private	Agriculture	0.058	Yatindra Kr. Mishra S/o-Lt.Raghunath Mishra Narpalnagar
				428	Private	Agriculture	0.068	Chandeshwer Mandal S/o-Lt.Achha Mandal Narpalnagar
				413	Private	Agriculture	0.056	Bishwanath Singh S/o-Lt.Ramdhir Singh Narpalnagar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				414	Private	Agriculture	0.081	Bishwanath Singh S/o-Lt. Ramdhir Singh Narpatnagar
				415	Private	Agriculture	0.020	Jawahar Yadav S/o-Lt. Mauze Yadav Kanakpur & Nathuni Yadav
				416	Private	Agriculture	0.018	S/o-Lt. Budhen Yadav Kanakpur Jawahar Yadav
				421	Private	Agriculture	0.016	S/o-Lt. Mauze Yadav Kanakpur Rambias Yadav
				424	Private	Agriculture	0.016	S/o-Lt. Sotilal Yadav Kanakpur Jawahar Yadav
				422	Private	Agriculture	0.012	S/o-Lt. Mauze Yadav Kanakpur Rambias Yadav
				423	Private	Agriculture	0.012	S/o-Lt. Sotilal Yadav Kanakpur Sitaram Mandal
				425	Private	Agriculture	0.036	S/o-Lt. Uchit Lal Mandal Kanakpur & Masomat Jaya Devi
				427	Private	Agriculture	0.110	W/o-Unknown Narpatnagar Laxmi Yadav
				426	Private	Agriculture	0.008	S/o-Lt. Uchit Yadav Kanakpur Sitaram Mandal
				420	Private	Agriculture	0.038	S/o-Lt. Uchit Lal Mandal Kanakpur & Masomat Jaya Devi
				419	Private	Agriculture	0.008	W/o-Unknown Narpatnagar Laxmi Yadav
				418	Private	Agriculture	0.032	S/o-Lt. Uchit Yadav Kanakpur Shambhu Sharan Yadav
				417	Private	Agriculture	0.093	S/o-Lt. Jay Hareram Yadav Dihitol Kanakpur & Jay Nr. Yadav
				441	Private	Agriculture	0.028	S/o-Lt. Jagdishwar Yadav Sakim-Dehe Maksudan Yadav
				442	Private	Agriculture	0.038	S/o-Lt. Lakhan Yadav Sakim-Dehe Madan Thakur
				433	Private	Agriculture	0.020	S/o-Domu Thakur Sakim-Dehe Devendra Pd. Singh
				400	Private	Agriculture	0.132	S/o-Lt. Brajnandan Singh Narpatnagar Saryug Thakur
				399	Private	Agriculture	0.041	S/o-Lt. Kankeshwar Thakur Kanakpur Shashibhushan Thakur
				393	Private	Agriculture	0.032	S/o-Lt. Ganga Thakur Kanakpur Ramsevak yadav
				390	Private	Agriculture	0.044	S/o-Lt. Chittu Yadav Kanakpur Anand Mohan Jhab
				389	Private	Agriculture	0.032	S/o-Lt. Deevakar Jha Narpatnagar Pankaj Mandal
				387	Private	Agriculture	0.031	S/o-Lt. Ramsevak Mandal Narpatnagar Pankaj Mandal
				388	Private	Agriculture	0.028	S/o-Lt. Ramsevak Mandal Narpatnagar Ramlogan Yadav
				371	Private	Non-Agriculture	0.712	S/o-Lt. Kapileshwar Yadav Sakim-Dehe Beidyanath Yadav
				990	Private	Agriculture	0.096	S/o-Lt. Domu Yadav Sakim-Dehe Sanjay Kr. Yadav
				893	Private	Agriculture	0.004	S/o-Aghnu Yadav Sakim-Dehe Ramlochan yadav
				927	Government	Road	0.024	S/o-Lt. Harinandan Yadav Sakim-Dehe Abhay Kr. Jha
				837	Private	Agriculture	0.042	S/o-Satya Nr. Jha Sakim-Dehe & Nirbhay Jha S/o-Satya Nr. Jha Sakim-Dehe
				1092	Private	Agriculture	0.006	Charitra Yadav S/o-Lt. Buchkun Yadav Sakim-Dehe & Rohit Yadav
				1083	Private	Agriculture	0.034	S/o-Lt. Sahdev Yadav Sakim-Dehe Shambhu Sharan Yadav
				1104	Private	Agriculture	0.051	S/o-Lt. Jay Hareram Yadav Dihitol Kanakpur Pradeep Yadav
				1142	Private	Agriculture	0.016	S/o-Lt. Harinandan Yadav Sakim-Dehe Raj Kishore Yadav
				1143	Private	Agriculture	0.077	S/o-Lt. Butan Yadav Sakim-Dehe & Ramashish Yadav
				1204	Private	Agriculture	0.014	S/o-Lt. Butan Yadav Sakim-Dehe Chandra Prakash Singh
				1145	Private	Agriculture	0.012	S/o-Lt. Shahid Suraj Nr. Singh Narpatnagar Sanjay Kr. Yadav
				1146	Private	Agriculture	0.013	S/o-Aghnu Yadav Sakim-Dehe Sanjay Kr. Yadav
				1147	Private	Agriculture	0.018	S/o-Aghnu Yadav Sakim-Dehe Ashok Yadav
								S/o-Jamun Yadav Sakim-Dehe
								Sanjay Kr. Yadav
								S/o-Aghnu Yadav Sakim-Dehe
								Ramlochan yadav
								S/o-Lt. Harinandan Yadav Sakim-Dehe
								Ramlochan yadav
								S/o-Lt. Harinandan Yadav Sakim-Dehe

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1186	Private	Agriculture	0.145	Raj Kr. Paswan S/o-Lt. Jitan Paswan Sakim-Dehe&Rajendra Paswan S/o-Lt. Shauki Paswan Sakim- Dehe&Ramashish Yadav S/o-Lt. Butan Yadav Sakim-Dehe&Shital Paswan S/o-Lt. Akli paswan Sakim-Dehe&
				1185	Private	Agriculture	0.027	Sanjay Kr. Yadav S/o-Aghnu Yadav Sakim-Dehe
				1187	Private	Agriculture	0.061	Sanjay Kr. Yadav S/o-Aghnu Yadav Sakim-Dehe
				1165	Private	Agriculture	0.078	Masomat Jamuna Devi W/o-Lt. Kapileshwar Yadav & Motur Rahman S/o-Lt. Abdur Rahman Sakim-Dehe
				1164	Private	Agriculture	0.042	Aghnu Yadav S/o-Lt. Raghunandan Yadav Sakim-Dehe
				1163	Private	Agriculture	0.070	Aghnu Yadav S/o-Lt. Raghunandan Yadav Sakim-Dehe, East Koshi Nahar
				1159	Government	Agriculture	0.004	Bihar Govt.
				1162	Private	Agriculture	0.105	Janak yadav S/o-Lt. Kiray Yadav Sakim-Dehe&East Koshi Nahar
				1160	Private	Agriculture	0.012	East Koshi Nahar
				1398	Private	Agriculture	0.041	Ram Adhin Yadav S/o-Lt. Bhilay Yadav Sakim-Dehe
				1401	Private	Agriculture	0.240	Abdul Kayum S/o-Lt. Anwarul Haq Sakim-Dehe
				1608	Private	Agriculture	0.028	Laxmi Thakur S/o- Kapileshwar Thakur, Motur Rahman S/o- Abdur Rahman
				1750	Private	Agriculture	0.006	Prithvi Nr Choudhari S/o-Lt. Rangulam Chaudhari Kanakpur
				1751	Private	Agriculture	0.002	Bishwanath Sah S/o-Lt. Govind Sah Sansopah
				1752	Private	Agriculture	0.034	Laxman Paswan S/o-Mushar Paswan Kanakpur
				1760	Private	Agriculture	0.004	Hukumdev Yadav S/o-Ramsharan Yadav Sakim-Dehe
				1761	Private	Agriculture	0.002	Raj Kr. Paswan S/o-Lt. Jitan Paswan Sakim-Dehe
				1766	Private	Agriculture	0.002	Ganga Pd. Yadav S/o-Lt. Chua Yadav Sakim-Dehe
				1767	Private	Agriculture	0.002	Meera Devi Urf-Meera Thakur W/o-Madan Mohan Thakur Sakim-Dehe
				1772	Private	Agriculture	0.041	Amarnath Yadav S/o-Lt. Shivnandan Yadav Kanhau&Chaudhari Yadav S/o-Lt. Khubel Yadav Kanhau
				1773	Private	Agriculture	0.004	Baldyanath Yadav S/o-Lt. Rupan Yadav Sakim-Dehe
				1774	Private	Agriculture	0.004	Parmeshwar Yadav S/o-Lt. Moti Yadav Sakim-Dehe
				1775	Private	Agriculture	0.002	Bishundev Yadav S/o-Lt. Anup Yadav Kanhau
				1779	Private	Agriculture	0.002	Bitu Yadav S/o-Lt. Bachu Yadav Kanhau
				1780	Private	Agriculture	0.002	Bitu Yadav S/o-Lt. Bachu Yadav Kanhau
				1781	Private	Agriculture	0.004	Parmeshwar Yadav S/o-Lt. Moti Yadav Sakim-Dehe
				1788	Private	Agriculture	0.006	Ram Udgar Yadav S/o-Lt. Mangen Yadav Sakim-Dehe
				2034	Private	Agriculture	0.014	Bishwanath Chaudhari S/o-Lt. Lutan Chaudhari Mohan Badhyam
				2033	Private	Agriculture	0.012	Narayan Jee Chaudhari S/o-Lt. Harichandra Chaudhari
				2585	Government	Road	0.060	Bihar Govt.
				1491	Private	Non-Agriculture	0.022	Baudhu Sati S/o-Faudar Sati Mokrapur
				1525	Private	Agriculture	0.210	Md. Dawd S/o-Lt. Md. Kari Soripatti
				1561	Private	Agriculture	0.002	Abdul Malik S/o-Lt. Abdul Ajim Sakim-Dehe&Ashari Yadav S/o-Lt. Lakshari Yadav Sakim-Dehe&Harindra Pd. Singh S/o-Lt. Yadunandan Singh Narpatnagar
				1562	Private	Agriculture	0.008	Abdul Malik S/o-Lt. Abdul Ajim Sakim-Dehe&Ashari Yadav S/o-Lt. Lakshari Yadav Sakim-Dehe&Harindra Pd. Singh S/o-Lt. Yadunandan Singh Narpatnagar
				1570	Private	Agriculture	0.007	Harindra Pd. Singh S/o-Lt. Yadunandan Singh Narpatnagar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2051	Private	Agriculture	0.018	Jageshwar Yadav S/o-Lt. Bausel Yadav Kanhauli
				2050	Private	Agriculture	0.020	Rameshwar Yadav & Rambhushan Yadav S/o-Lt. Bausel Yadav & Lt. Balsei Yadav Kanhauli
				2049	Private	Agriculture	0.036	Parneshwar Yadav S/o-Lt. Moti Yadav Sakim-Dehe
				2047	Private	Agriculture	0.012	Bitu Yadav S/o-Lt. Bachu Yadav Sakim-Dehe
				2281	Private	Agriculture	0.054	Gopal Nr. Chaudhari S/o-Lt. Ram Nr. Chaudhari Mohan Bedhiyam
				2329	Private	Agriculture	0.012	Rajendra Pd. S/o-Lt. Satyadev Sah
				2328	Private	Non-Agriculture	0.018	Puranchandra Prasad S/o-Lt. Bharat Pd. Leheri Tol Pandaul
				2327	Private	Agriculture	0.014	Santosh Kr. Sah S/o-Lt. Mahendra Sah Kanakpur
				2508	Private	Agriculture	0.004	Jageshwarin Devi W/o-Lt. Laxmikant Thakur Sakim-Dehe
				2527	Private	Non-Agriculture	0.003	Bhole Thakur & Ram Lakhan Thakur S/o-Lt. Sanyug Thakur
				933	Government	Road	0.032	Biher Govt.
				1529	Private	Agriculture	0.012	Baudhu Saff S/o-Faudei Saff Mokrapur
				1524	Private	Agriculture	0.028	Baudhu Saff S/o-Faudei Saff Mokrapur
				2618	Private	Agriculture	0.016	Biher Govt.
				1492	Private	Agriculture	0.006	Baudhu Saff S/o-Faudei Saff Mokrapur
				384	Private	Agriculture	0.003	Yogindra Yadav S/o- Debu Yadav, Rohit Yadav S/o- Sahdev Yadav, Prabhu Yadav S/o Sahdev Yadav
				385	Private	Agriculture	0.003	Ramdhani Yadav S/o- Milay Yadav
				386	Private	Agriculture	0.024	Yogindra Yadav S/o- Debu Yadav
				401	Private	Agriculture	0.100	Viswanath Singh S/o- Ramaadhir Singh
				402	Private	Agriculture	0.011	Viswanath Singh S/o- Ramaadhir Singh
				927	Private	Agriculture	0.012	Prabhu Yadav S/o- Sahdev Yadav
				928	Private	Agriculture	0.002	Ram Adhin Yadav S/o- Milay Yadav
				929	Private	Agriculture	0.003	Beldhnath Yadav S/o- Domu Yadav
				938	Private	Agriculture	0.010	Jawahar Yadav S/o- Mauji Yadav Ram Lakhan Yadav S/o- Laxmi Yadav
				940	Private	Agriculture	0.008	Shambhusharan Yadav S/o- Hareram Yadav Ramratan Yadav S/o- Laxmi Yadav
				941	Private	Agriculture	0.002	Jawahar Yadav S/o- Mauji Yadav
				992	Private	Agriculture	0.027	Chaiter Yadav S/o- Bachkun Yadav, Rohit Yadav S/o- Sahdev Yadav, Ramadhin Yadav S/o- Milay Yadav
				1071	Private	Agriculture	0.031	Pradeep Yadav S/o-Lt. Harihandan Yadav
				1073	Private	Agriculture	0.028	Devnarayan Yadav S/o- Jageshwar Yadav
				1074	Private	Agriculture	0.031	Jawahar Yadav S/o- Mauji Yadav
				1075	Private	Agriculture	0.030	Arun Yadav S/o- Hareram Yadav
				1076	Private	Agriculture	0.005	Chandra Prakesh Singh S/o-Lt. Shahid Suraj Nr. Singh Narpalnagar
				1100	Private	Agriculture	0.106	Mo. Jamuna Devi W/o- Kapleshwar Yadav & Chandra Prakesh Singh S/o- Shahid Suraj Narayan Singh
				1168	Private	Agriculture	0.010	Raj Kumar Paswan S/o- Jitan Paswan
				1169	Private	Agriculture	0.110	Rambilas Yadav S/o-Lt. Sotial Yadav Kanakpur

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1183	Private	Agriculture	0.039	Janak Yadav S/o-Lt. Kray Yadav Sakim-Dehe&East Koshi Nahar
				1187	Private	Agriculture	0.017	Bhikhari Sah&Lal Bihar Sah S/o- Ramkheuan Sah
				1197	Private	Agriculture	0.052	Ramadhan Yadav S/o- Miley Yadav
				1195	Private	Agriculture	0.076	Raj Kumar Paswan S/o- Jitan Paswan
				1196	Private	Agriculture	0.062	Sanjay Kr. Yadav S/o-Aghnu Yadav Sakim-Dehe
				1199	Private	Agriculture	0.070	Sanjay Kr. Yadav S/o-Aghnu Yadav Sakim-Dehe
				1161	Private	Agriculture	0.128	Kosi Nahar
				2524	Private	Agriculture	0.041	Anwarul S/o- Chhedi, Kapidev Prasad S/o- Hajari Lal Sah, Meer Hasan S/o- Meer Salim
				2525	Private	Agriculture	0.009	Kapidev Prasad S/o- Hajari Lal Sah
				1395	Private	Agriculture	0.060	Mo. Jamuna Devi W/o- Kapileshwar Yadav
				1398	Private	Agriculture	0.054	Md. Jafir S/o- Ful Hasan
				1527	Private	Agriculture	0.060	Mo. Punita Devi W/o- Ram Chandra Chaudhary
				1528	Private	Agriculture	0.010	Md. Jmaluddin S/o- Md. Hakim
				1544	Private	Agriculture	0.029	Md. Jahangir S/o- Rahman Sarder
				1545	Private	Agriculture	0.010	Sanjay Kumar Singh S/o- Rajkumar Singh
				1567	Private	Agriculture	0.010	Lal Bihar Sah S/o- Ram Khelaun Sah
				1568	Private	Agriculture	0.003	Lal Bihar Sah S/o- Ram Khelaun Sah
				1569	Private	Agriculture	0.002	Ashanti Yadav S/o- Lal Dhari Yadav
				2771	Private	Agriculture	0.024	Ram Sunder Yadav S/o- Palat Yadav
				1574	Private	Agriculture	0.003	Sudhira Deve W/o- Nitya Nand Jha
				1577	Private	Agriculture	0.004	Jagamath Yadav S/o- Domu Yadav
				1586	Private	Agriculture	0.052	Satyanarayan Thakur S/o- Jageshwar Thakur
				1587	Private	Agriculture	0.013	Naveen Kumar Chaudhary S/o- Gopikanth Chodhary
				1588	Private	Agriculture	0.019	Suresh Chodhary S/o- Radhakant Chodhary
				1589	Private	Agriculture	0.056	Jageshwarin Devi W/o-Lt. Laxmikant Thakur
				1590	Private	Agriculture	0.046	Jatun Nisha W/o- Abdul Rahman
				1594	Private	Agriculture	0.006	Hukumdev Yadav S/o-Ramsharan Yadav
				1596	Private	Agriculture	0.002	Vidyanath Sah S/o- Raghunandan Sah
				1597	Private	Agriculture	0.017	Nashara Khatun W/o- Nasir
				1606	Private	Agriculture	0.150	Abdul Kayum S/o- Masjid ka Jamin
				1610	Private	Agriculture	0.003	Gaibu Nisha W/o- Md. Habib
				2523	Private	Agriculture	0.002	Anwarul S/o- Chhedi, Meer Hasan S/o- Meer Salim
				2037	Private	Agriculture	0.006	Sandeep Kumar Chodhary S/o- Hriday Narayan Chodhary
				2507	Private	Agriculture	0.017	Jageshwari Devi W/o- Laxmi Kant Chodhary
				2038	Private	Agriculture	0.011	Raj Kumar Chodhary S/o- Subodh Kant Chodhary
				2039	Private	Agriculture	0.020	Ram Udgar Yadav S/o-Lt. Mangar Yadav

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2040	Private	Agriculture	0.023	Ram Udgar Yadav S/o-Lt. Mangam Yadav
				2041	Private	Agriculture	0.004	Makhan Lal Chodhary & Gopi Lal Chodhary S/o- Krishan Lal Chodhary
				2042	Private	Agriculture	0.008	Sanjay Yadav S/o- Prabhu Lal Yadav
				2044	Private	Agriculture	0.013	Ram Udgar Yadav S/o- Bechan Yadav
				2046	Private	Agriculture	0.006	Bitu Yadav S/o- Bechan Yadav
				2058	Private	Agriculture	0.012	Badhnath Yadav S/o- Rupam Yadav
				2060	Private	Agriculture	0.007	Chandra Yadav S/o- Laxmi Yadav
				2061	Private	Agriculture	0.004	Chandra Yadav S/o- Laxmi Yadav
				2063	Private	Agriculture	0.014	Indra Dev Yadav S/o- Laxmi Yadav
				2064	Private	Agriculture	0.011	Asharfi Yadav S/o- Lal Dhari Yadav
				2279	Private	Agriculture	0.025	Perithwi Narayan Chodhary S/o- Ram Gulam Chodhary
				2280	Private	Agriculture	0.017	Perithwi Narayan Chodhary S/o- Ram Gulam Chodhary
				2282	Private	Agriculture	0.006	Ram Sewak Mahto S/o- Nathuni Mahto
				2284	Private	Agriculture	0.009	Madan Kant Chodhary S/o- Gulab Chodhary
				2286	Private	Agriculture	0.008	Prameshwar Sah S/o- Laxmi Sah
				2288	Private	Agriculture	0.039	Munni Jha S/o- Kali Kant Jha
				2289	Private	Agriculture	0.001	Shiv Shankar Jha S/o- Washith Narayan Jha
				2319	Private	Agriculture	0.062	Munni Jha S/o- Kali Kant Jha
				2321	Private	Agriculture	0.003	N.K. Singh
				2324	Private	Agriculture	0.045	Puranchandra Prasad S/o-Lt. Bharat Pd. Laheri Tol Pandaul
				2325	Private	Agriculture	0.047	Ashok Kumar Sah S/o- Mahendra Sah
				2506	Private	Agriculture	0.112	Rahmat Ali S/o- Meer Amant
				1184	Private	Agriculture	0.002	Asharfi Paswan S/o- Dhuki Paswan
				1072	Private	Agriculture	0.010	Pradeep Yadav S/o- Harinandan Yadav
				1397	Private	Agriculture	0.117	Raj Kumar Paswan S/o- Jitan Paswan
				1607	Private	Agriculture	0.006	Laxmi Thakur S/o- Kapleshwar Thakur
				2322	Private	Agriculture	0.015	Ashok Kumar Sah S/o- Mahendra Sah
				2323	Private	Agriculture	0.014	Rajendra Pd. S/o-Lt. Satyadev Sah
				1526	Private	Agriculture	0.020	Md. Jamluddin S/o- Halim
				1543	Private	Agriculture	0.010	Badrul Haque S/o- Md Halim, Sanjay Kumar Singh S/o- Raj Kumar Singh
			(4)Mohanbediyam	1895	Private	Agriculture	0.001	Binod Sahu S/o-Lt. Ramdev Sah Sakim-Dehe
				2228	Private	Agriculture	0.009	Kushma Devi W/o-Gajadhar Thakur Sakim Dehe
				2229	Private	Agriculture	0.009	Pawitri Devi W/o-Muneshwar Thakur Sakim-Dehe
				2230	Private	Agriculture	0.009	Narayan Thakur S/o-DevDatt Thakur Sakim-Dehe
				2231	Private	Agriculture	0.020	Munni Thakur S/o-Nathuni Thakur Sakim-Dehe
				2232	Private	Agriculture	0.020	Upendra Thakur S/o-Dhodhay Thakur Sakim-Dehe
				2234	Private	Agriculture	0.022	Binod Thakur S/o-Dhodhay Thakur Sakim-Dehe&Madan Mahaseth
				2248	Private	Agriculture	0.004	Butay Thakur

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2249	Private	Agriculture	0.003	Butay Thakur
				2252	Private	Agriculture	0.012	Sunil Thakur S/o-Ramlakhan Thakur Sakim-Dehe
				2251	Private	Agriculture	0.006	Sunil Thakur S/o-Ramlakhan Thakur Sakim-Dehe
				2253	Private	Agriculture	0.026	Raj Kr. Thakur S/o-Sitaram Thakur Sakim-Dehe
				2425	Private	Agriculture	0.010	Md. Raiyaz S/o-Moskim Sakim-Dehe
				2426	Government	Road	0.010	Bihar Govt.
				2480	Private	Agriculture	0.032	Hafinul Hasan S/o-Md. Hanun Sakim-Dehe
				2481	Government	Non-Agriculture	0.020	Bihar Govt.
				2526	Government	Road	0.012	Bihar Govt.
				2981	Government	Kabristan	0.065	Bihar Govt.
				2983	Private	Agriculture	0.012	Md. Mahmood S/o-Md. Hasnen Sakim-Dehe
				2985	Private	Non-Agriculture	0.010	Mustak Ahmad S/o-Md. Hasan Sakim-Dehe
				2986	Government	Road	0.022	Bihar Govt.
				2980	Private	Agriculture	0.004	Pawati Devi W/o-Muneshwar Thakur Sakim-Dehe
				3017	Private	Agriculture	0.010	Badri Nr. Thakur S/o-Ayodhya Nr. Thakur Sakim-Dehe
				3025	Private	Agriculture	0.010	Hari Narayan Singh S/o- Danwari Singh
				3058	Private	Agriculture	0.004	Yogendra Sah & Baidyanath Sah & Ram Nr. Sah S/o-Baldev Sah Sakim-Dehe
				3067	Private	Non-Agriculture	0.012	Mahadev Sah S/o-Bindeshwar Sah & Parmeshwar Sah S/o-Jagdish Sah Sakim-Dehe
				3025/3887	Private	Agriculture	0.032	Hari Nr. Singh S/o-Darban Singh Sakim-Dehe & Shamim Alam S/o-Sam Suddin Thakur Sakim-Dehe
				3077	Private	Non-Agriculture	0.01	Rambabu Gupta S/o- Kailash Gupta
				3080	Private	Non-Agriculture	0.006	Mozibul Sah S/o- Manjul Sah
				3081	Private	Non-Agriculture	0.006	Abdul Majid Hajam S/o- Ibrahim Hajam
				3082	Private	Non-Agriculture	0.013	Dasai Yadav S/o- Jay Lal Yadav
				3098	Private	Non-Agriculture	0.017	Sukharam Yadav S/o- Sital Yadav
				3099	Private	Non-Agriculture	0.028	Bhagwan Yadav S/o- Baldev Yadav, Ram Julum Yadav S/o- Bhole Yadav
				3637	Private	Non-Agriculture	0.005	Sohel Ahmad Khan S/o- Abdul Rahman Khan, Ganga Yadav S/o- Ram Khelaun Yadav
				3647	Private	Non-Agriculture	0.014	Marindra Yadav S/o- Muneshwar Yadav
				3650	Private	Non-Agriculture	0.002	Safula S/o- Kashmir
				2274	Private	Non-Agriculture	0.015	Raj Kumar Thakur S/o- Sitaram Thakur
				2275	Private	Agriculture	0.003	Meer Asgar Ali S/o- Meer Kamjad
				2276	Private	Non-Agriculture	0.001	Baidhnath Thakur S/o- Bindeshwar Thakur
				2280	Private	Agriculture	0.006	Ram Narayan Sah S/o- Baldev Sah
				2453	Private	Agriculture	0.004	Ram Narayan Sah S/o- Baldev Sah
				2454	Private	Agriculture	0.007	Mustak Ali S/o- Meer Alam
				2458	Private	Non-Agriculture	0.011	Sita Devi W/o- Jharokhi Sah
				2477	Private	Agriculture	0.023	Bitu Sah S/o- Raghunandan Sah
				2479	Private	Agriculture	0.021	Bitu Sah S/o- Raghunandan Sah
				3060	Private	Agriculture	0.002	Jogendra Sah & Vidyanath Sah S/o- Bal Dev Sah
				3081	Private	Non-Agriculture	0.002	Jogendra Sah & Vidyanath Sah S/o- Bal Dev Sah
				3078	Private	Non-Agriculture	0.022	Arun Sah S/o- Sitaram Sah
				3987	Private	Non-Agriculture	0.225	Arun Sah S/o- Sitaram Sah
				3020	Private	Agriculture	0.01	Ganga Devi W/o- Nagendra Thakur

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3025	Private	Agriculture	0.004	Harl Narayan Singh S/o- Darwari Singh
				3026	Private	Agriculture	0.004	Samim Alam S/o- Ramsuddin
				3068	Private	Non-Agriculture	0.021	Bal Govind Sah S/o- Mahavir Sah
				3076	Private	Non-Agriculture	0.006	Rambabu Gupta S/o- Kailash Sah
				1899	Private	Agriculture	0.027	Rambabu Gupta S/o- Kailash Sah
				1940	Private	Agriculture	0.027	Ramday Devi W/o- Binod Sah
				1941	Private	Agriculture	0.014	Madan Kant Chodhary S/o- Gulab Chodhary
				1947	Private	Agriculture	0.026	Ganga Yadav S/o- Ramkheleun Yadav
				1948	Private	Agriculture	0.005	Ganga Yadav S/o- Ramkheleun Yadav
				1950	Private	Agriculture	0.015	Shankar Prasad S/o- Ramchandra Sah
				1951	Private	Agriculture	0.018	Gulab Devi W/o- Buchi Thakur
				1952	Private	Non-Agriculture	0.039	Gulab Devi W/o- Buchi Thakur
				1953	Private	Agriculture	0.039	Ram Sewak Sah S/o- Prayag Sh
				2099	Private	Agriculture	0.002	Shambhu Nath Singh S/o- Ram Dhan Singh
				2100	Private	Non-Agriculture	0.052	Shambhu Nath Singh S/o- Ram Dhan Singh
				2103	Private	Agriculture	0.01	Kusum Devi W/o- Gajadhar Thakur
				2104	Private	Agriculture	0.014	Raghunath Sah S/o- Dwarik Sah
				2107	Private	Agriculture	0.004	Pawitri Devi W/o- Muneshwer Thakur
				2108	Private	Agriculture	0.012	Pawitri Devi W/o- Muneshwer Thakur
				2109	Private	Non-Agriculture	0.012	Pawitri Devi W/o- Muneshwer Thakur
				2110	Private	Agriculture	0.011	Binod Singh S/o- Ramjatan Singh
				2115	Private	Non-Agriculture	0.028	Shiv Kumar Singh S/o- Jaykrishan Singh
				2279	Private	Agriculture	0.025	Suninandan Thakur S/o- Dudhai Thakur
				2422	Government	Road	0.009	Bihar Govt.
				2447	Private	Non-Agriculture	0.011	Alaudin Sah S/o- Yusuf Sah
				2448	Private	Non-Agriculture	0.001	Ram Prasad Sah S/o- Jagdish Sah
				2452	Private	Non-Agriculture	0.002	Jamjan Ali S/o- Alam
				3851	Private	Agriculture	0.031	Raiul Khatun W/o- Md. Suleman
				3906	Private	Agriculture	0.001	Jauhar Ali S/o- Abdul Wahid
				3838	Government	Road	0.01	Bihar Gpvt.
				3021	Private	Non-Agriculture	0.014	Satrudhan Thakur S/o- Butai Thakur
				3079	Private	Non-Agriculture	0.014	Satter Sah S/o- Chandu Sah
				2455	Private	Non-Agriculture	0.006	Chhedu Sah S/o- Ganga Sah
				3889	Government	Pond	0.007	Bihar Govt.
				1897	Private	Agriculture	0.003	Madan Kant Chodhary S/o- Gulab Chodhary
				1898	Private	Agriculture	0.001	Madan Kant Chodhary S/o- Gulab Chodhary
				2986	Private	Agriculture	0.007	Shushil Thakur S/o- Ram Narayan Thakur
				2116	Private	Agriculture	0.009	Shushil Thakur S/o- Ram Narayan Thakur
		(5) Sakuni		63	Private	Non-Agriculture	0.036	Kashi Sharama S/o- Chanukhi

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				178	Private	Non-Agriculture	0.008	Sarada Nand Chodhary S/o- Ram Babu Chodhary Chanda Devi W/o- Viswanath Prasad Kejri Babu Safina W/o- Shamsul Hque Md. Juber S/o- Md. Husain
				1495	Private	Non-Agriculture	0.080	Motfur Rahman S/o-Lt. Md. Kasim Sakim-Dehe & Habibul Rahman S/o-Lt. Md. Kasim Sakim-Dehe Fool Biby W/o-Lt. Md. Ishak Sakim-Dehe & Shaiful Nisa S/o-Lt. Ataur Rahman Sakim-Dehe Shaiful Nisa S/o-Lt. Ataur Rahman Sakim-Dehe Md. Shakir S/o-Lt. Md. Khalil Sakim-Dehe Rajiya Alam & Md. Bark & Md. Mustak & Fakar Alam & Md. Shamim S/o-Lt. Md. Mustafa Sakim-Dehe Md. Dawd S/o-Abdul Latif Sakim-Dehe
				1142	Private	Non-Agriculture	0.108	Rashid Hussain S/o-Lt. Hamid Hussain Sakim-Dehe & Md. Alam & Abdul Alam S/o-Lt. Md. Hakim Sakim-Dehe & Amir Sah S/o-Lt. Nazeeer Sah Amir Sah S/o-Lt. Nazeeer Sah & Sarful Islam S/o-Lt. Nurul Islam Sakim-Dehe Sarful Islam S/o-Lt. Nurul Islam Sakim-Dehe & Gulam Rabbani & Wasida Khatun S/o-Lt. Md. Kasim & Jouje - Gulam Rabbani Sakim-Dehe & Shami Akhtar Jilani S/o-Lt. Md. Kasim Sakim-Dehe & Md. Javed S/o-Abdul Kalam & Rashid Hussain S/o-Lt. Hamid Hussain Sakim-Dehe & Haider Ali & Anwar Ali & Ashraf Ali Md. Murtuja & Md. Shamshuj Jama & Ladden Md. Mosin Md. Sharif Alam S/o-Lt. Md. Habib & Sarful Islam S/o-Lt. Nurul Islam Sakim-Dehe
				1476	Private	Non-Agriculture	0.032	Ramawtar Mahto & Masomat Dukhni Devi S/o-Lt. Rameshwar Mahto & Jouje Lt. Rambilas Mahto Sakim-Dehe & Ramawtar Mahto & Masomat Dukhni Devi S/o-Lt. Rameshwar Mahto & Jouje Lt. Rambilas Mahto Sakim-Dehe & Laxmi Mahto S/o-Lt. Musa Mahto Sakim-Dehe & Sutta Mahto S/o-Lt. Musa Mahto Sakim-Dehe
				1473	Private	Non-Agriculture	0.012	Abdul Rahman S/o- Jakir
				1472	Private	Non-Agriculture	0.024	Bindeshwar Sah S/o-Lt. Saryug Sah Sakim-Dehe & Masomat Binda Devi Jouje - Lt. Chaitu Sah Sakim-Dehe
				1487	Private	Non-Agriculture	0.048	Hesamul Haq S/o-Lt. Ijharul Haq Sakim-Dehe Hesamul Haq S/o-Lt. Ijharul Haq Sakim-Dehe & Md. Kalim S/o-Unknown & Abu Shaiba S/o-Lt. Ijharul Haq Sakim-Dehe & Gyesuddin S/o-Lt. Ijharul Haq Sakim-Dehe & Singheshwar Sah S/o-Lt. Baao Sah Sakim-Dehe & Abu Shaiba S/o-Lt. Ijharul Haq Sakim-Dehe
				1536	Government	Non-Agriculture	0.020	Bihar Govt.
				1544	Government	Non-Agriculture	0.016	Bihar Govt.
				1545	Government	Non-Agriculture	0.016	Bihar Govt.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1546	Private	Non-Agriculture	0.008	Raso Devi W/o-Shivjee Thakur Sakim-Dehe&Masomat Siyabiya W/o-Lt.Bhajan Mahto Sakim- Dehe&Bindeshwar Mahto S/o-Lt.Ramchandra Mahto Sakim- Dehe&Yogendra Mahto & Kashi Mahto S/o-Lt.Rampratap Mahto Sakim-Dehe&Masomat Tara Devi W/o-Lt.Ramchandra Mahto Sakim- Dehe&Yogendra Mahto & Kashi Mahto S/o-Lt.Rampratap Mahto Sakim-Dehe
				1560	Private	Non-Agriculture	0.026	Mo. Siyabiya W/o- Bhajan Mahto Bindeshwar Mahto S/o- Ramchandra Mahto, Yogendra Mahto & Kashi Mahto S/o- Ram Pratap Mahto Mo. Tara Devi W/o- Ram Chandra Mahto Mo. Sita Devi W/o- Asharfi Mahto
				1558	Private	Non-Agriculture	0.008	Mo. Siyabiya W/o- Bhajan Mahto Yogendra Mahto & Kashi Mahto S/o- Ram Chandra Mahto Mo. Tara Devi W/o- Ramchandra Mahto Mo. Sita Devi W/o- Asharfi Mahto
				1582	Private	Non-Agriculture	0.018	Mo. Tara Devi W/o- Ramchandra Mahto Mo. Sita Devi W/o- Asharfi Mahto
				1567	Government	Road	0.006	Bihar Govt.
				1568	Private	Non-Agriculture	0.011	Sima Kumari W/o- Binod Prasad
				1589	Private	Non-Agriculture	0.010	Sakuntala Devi W/o- Ramchandra Prasad
				1570	Private	Non-Agriculture	0.018	Nathuni Chodhary S/o- Bilal Chodhary
				1572	Private	Non-Agriculture	0.027	Ganga Devi W/o- Dukharan Chodhary Sudharshan Chodhary S/o- Mishri Lal Chodhary Jageshwari Devi W/o- Vishwnath Chodhary
				1571	Private	Non-Agriculture	0.008	Sima Kumari W/o- Binod Prasad Binod Prasad S/o- Sukdev Chodhary
				1574	Private	Non-Agriculture	0.024	Jageshwari Devi W/o- Vishwnath Chodhary Shiv Kumar Giri S/o- Mishri Lal Giri Shila Devi W/o- Ram Sagar Sah
				1607	Private	Non-Agriculture	0.029	Dukhi Sah & Masomat uniya Devi S/o-Lt.Bhuttu Sah & Jouje Lt.Jamun Sah Sakim-Dehe Dukhi Sah & Masomat uniya Devi S/o-Lt.Bhuttu Sah & Jouje Lt.Jamun Sah Sakim-Dehe&Kusum Devi W/o-Lt.Ramlakhan Sah Sakim -Dehe Fojail Ahmad S/o-Wald Md.Safi Marhum Sakim-Dehe
				1806	Private	Non-Agriculture	0.024	Jason Devi S/o-W/o-Lt.Ramchandra Sah Sakim-Dehe Bihar Govt. Md. Yunus S/o-Lt.Ishak Sakim-Dehe Md. Yunus S/o-Lt.Ishak Sakim-Dehe
				1575	Private	Non-Agriculture	0.069	Md. Yunus S/o- Lt. Eshak, Md. Sabir S/o- Rahman, Ashrifi Khatun W/o- Md. Akbar, Md. Parvej S/o- Md. Subhan
				1687	Private	Non-Agriculture	0.044	Md.Ashraf Ali S/o-Abdul Hakim Mina Khatun W/o-Md.Juber Md Murtuja S/o-Lt Chhedi Sakim-Dehe
				1695	Private	Non-Agriculture	0.031	Rambahadur Das S/o-Lt.Nathuni Das Sakim-Dehe Parneela Devi W/o-Babulal Ram Sakim-Dehe
				1700	Private	Non-Agriculture	0.006	Amina Khatun W/o-Md.Juber Sakim-Dehe
				2002	Private	Non-Agriculture	0.005	Abdul Sattar S/o- Md. Enush
				2027	Private	Non-Agriculture	0.023	Md.Neyazuddin S/o-Md.Mustafa Sakim-Dehe
				2034	Private	Non-Agriculture	0.004	Msubhan & Md.Alam S/o-Lt.Uzman Sakim-Dehe

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2035	Private	Non-Agriculture	0.004	Maubhan & Md. Alam S/o-Lt. Usman Sakim-Dehe
				2215	Private	Non-Agriculture	0.030	Nibha Devi W/o-Lt. Vinit Singh Sakim-Dehe
				2218	Private	Non-Agriculture	0.056	Baidyanath Sah S/o-Lt. Bouku Sah Sakim-Dehe & Anoj Kr. Singh S/o-Lt. Gya Pd. Singh Sakim-Dehe & Baleshwar Singh S/o-Lt. Khubal Singh Sakim-Dehe Pappu Singh S/o-Lt. Bindeshwar Singh Sakim-Dehe Banarsi Sah S/o-Lt. Bouku Sah Sakim-Dehe
				2218	Private	Non-Agriculture	0.017	Lalan Singh S/o-Lt. Ramchandra Singh Sakim-Dehe Co-operative Bank
				2654	Private	Non-Agriculture	0.007	Lalan Singh S/o-Lt. Ramchandra Singh Sakim-Dehe Co-operative Bank
				2512	Private	Non-Agriculture	0.024	Ram Sah S/o-Kapleshwar Sah Sakim-Dehe
				2508	Private	Non-Agriculture	0.018	Lalan Singh S/o-Lt. Ramchandra Singh Sakim-Dehe Co-operative Bank
				3590	Private	Non-Agriculture	0.024	Ram Sah S/o-Kapleshwar Sah Sakim-Dehe
				3625	Government	Road	0.024	Bihar Govt.
				3794	Private	Non-Agriculture	0.148	Ram Prakash Yadav S/o-Ramawtar Yadav Sakim-Dehe Arigation Md. Tarik S/o-un-Known Sakim-Dehe
				3770	Private	Non-Agriculture	0.074	Md. Moyn S/o-Ainul Haq Sakim-Dehe
				3711	Private	Non-Agriculture	0.195	Baidyanath Yadav S/o-Lt. Moti Yadav Sakim-Dehe Ramsevak Yadav S/o-Lt. Moti Yadav Sakim-Dehe
				3747	Private	Non-Agriculture	0.128	Baidyanath Yadav S/o-Lt. Moti Yadav Sakim-Dehe Ramsevak Yadav S/o-Lt. Moti Yadav Sakim-Dehe
				143	Private	Non-Agriculture	0.002	Gayas Ahamed S/o- Wasir Ahamed
				144	Private	Non-Agriculture	0.05	Md. Alam S/o- Md. Edrish Gansur Mandal S/o- Jokhan Mandal Md. Suleman S/o- Md. Sahid Md. Nijam S/o- Hamid Md. Jabbar & Md. Asfak & Md. Abbas S/o- Md. Jafir
				1141	Private	Non-Agriculture	0.019	Sarif Islam S/o- Nurul Islam Md. Kan Sahab (Imam) Khalid Hussein S/o- Jahid Hussein Arjumand Hussein S/o- Sahid Hussein
				1348	Private	Non-Agriculture	0.035	Mojahida Khatun W/o- Md. Umar Jaiul Haque S/o- Najrul Haque Biby Firoja Khatun W/o- Md. Manjur Md. Tahir S/o- Late Lal Mohammad Md. Minnat S/o- Badrul Md. Alam S/o- Edrish Md. Sabir S/o- Wajul Haque Hasmat Ali & Niyamat Ali S/o- Badrul Haque
				1348	Private	Non-Agriculture	0.036	Biby Nurjahan W/o- Hatim Habib Ansari S/o- Abdul Ansari Md. Sakir S/o- Md. Abdul Karim
				1533	Private	Non-Agriculture	0.004	Ram Autter Mahto S/o- Rameshwar Mahto
				1535	Private	Non-Agriculture	0.008	Fulendra Mohan Mishra S/o- Sandev Mishra
				1688	Private	Non-Agriculture	0.05	Ram Narayan Thakur S/o- Govind Thakur Kaile Sahu S/o- Nathuni Nayak
				1867	Private	Non-Agriculture	0.121	Shiva Das S/o- Matuk Das
				1964	Private	Non-Agriculture	0.037	Md. Nijamuddin S/o- Md. Kashim
				1685	Private	Non-Agriculture	0.102	Gauri Shankar Thakur & Sanjay Thakur S/o- Ram Sewak Thakur Abdul Kayum & Abdul Kalam S/o- Shakh Nathuni Md. Ashik S/o- Sekh Chhedi Abdul Hakim S/o- Sekh Nathuni
				1688	Private	Non-Agriculture	0.019	Parmeshwar Sahu S/o- Bauku Sahu Ram Chandra Sahu S/o- Chhathu Sahu

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1888	Private	Non-Agriculture	0.019	Md. Araf S/o- Md. Hakim
				1697	Private	Non-Agriculture	0.057	Md. Abdula S/o- Md. Hasnan Parmila Devi W/o- Babu Lal Ram
				1701	Private	Non-Agriculture	0.004	Amina Khatun W/o- Md. Juber Sakim-Dehe, Md. Ayub S/o- Layif
				1703	Private	Non-Agriculture	0.003	Md. Ynush S/o- Md. Eshak Abdul Hakim S/o- Sekh Nathuni
				1704	Private	Non-Agriculture	0.017	Md. Esrail S/o- Md. Muslim Abdul Hakim S/o- Sekh Nathuni
				2026	Private	Non-Agriculture	0.005	Kailash Das S/o- Hira Das
				2033	Private	Non-Agriculture	0.053	Kailash Das S/o- Hira Das
				2036	Private	Non-Agriculture	0.003	Md. Subhan & Md. Alam S/o- Md. Usman
				2037	Private	Non-Agriculture	0.01	Md. Subhan & Md. Alam S/o- Md. Usman
				2038	Private	Non-Agriculture	0.025	Arjuman Husain S/o- Sahid Husain
				2039	Private	Non-Agriculture	0.022	Arjuman Husain S/o- Sahid Husain
				1997	Private	Non-Agriculture	0.015	Rashid Hussain S/o- Hamid Hussain Arjuman Husain S/o- Sahid Husain
				2147	Private	Non-Agriculture	0.058	Ambar Babu
				2152	Private	Non-Agriculture	0.003	Rashid Husain S/o- Hamid Husain
				2153	Private	Non-Agriculture	0.003	Asfak Husain S/o- Eshmail
				2154	Private	Non-Agriculture	0.01	Asfak Husain S/o- Eshmail
				2214	Private	Non-Agriculture	0.044	Dilip Singh S/o- Mahendra Singh
				2306	Private	Non-Agriculture	0.043	Asfak Husain S/o- Eshmail
				2307	Private	Non-Agriculture	0.034	Asfak Husain S/o- Eshmail
				2308	Private	Non-Agriculture	0.072	Bhola Thakur S/o- Uchit Thakur Baidhnath Sah S/o- Bauku Sah
				2311	Government	Road	0.008	Bihar Govt.
				2343	Private	Non-Agriculture	0.013	Indra Narayan Singh S/o- Laxmi Narayan Singh & Others
				2520	Private	Non-Agriculture	0.019	Rameshwar Thakur S/o- Uchit Thakur
				2510	Private	Non-Agriculture	0.055	Baleshwar Singh S/o- Khublat Singh and Others
				2508	Private	Non-Agriculture	0.226	Fayaj Ajam S/o- Faruk Ajam
				2656	Private	Non-Agriculture	0.029	Ravindra Singh S/o- Ganga Singh
				2621	Private	Non-Agriculture	0.046	Indra Narayan Singh S/o- Laxmi Narayan Singh & Others
				2643	Private	Non-Agriculture	0.219	Ram Chandra Mukhiya S/o- Budhu Mukhiya
				2645	Private	Non-Agriculture	0.211	Md. Anwar
				2648	Private	Non-Agriculture	0.009	Md. Anwar
				2650	Private	Non-Agriculture	0.01	Kameshwar Sahani S/o- Ram Chandra Sahani Amarendra Thakur S/o- Daurika Thakur
				3583	Private	Non-Agriculture	0.05	Ram Chandra Sah S/o- Moti Sah
				3580	Government	Bund	0.013	Bihar Govt.
				3589	Private	Non-Agriculture	0.545	Ram Sagar Yadav S/o- Ram Brichh Yadav and Others
				3795	Private	Non-Agriculture	0.011	Ram Brichh Yadav S/o- Ram Auttar Yadav and Others
				3796	Private	Non-Agriculture	0.124	Bitu Yadav S/o- Nunu Yadav and Others

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3769	Private	Non-Agriculture	0.107	Upendra Yadav S/o- Sitai Yadav and Others
				3712	Private	Non-Agriculture	0.095	Upendra Yadav S/o- Sitai Yadav and Others
				3713	Private	Non-Agriculture	0.111	Ugnath Yadav S/o- Jaidhari Yadav
				3715	Private	Non-Agriculture	0.001	Ugnath Yadav S/o- Jaidhari Yadav
				3709	Private	Non-Agriculture	0.131	Ram Sewak Yadav S/o- Moti Yadav
				1866	Private	Non-Agriculture	0.198	Md. Neejamuddin S/o- Md. Kashim
				2146	Private	Non-Agriculture	0.021	Ambar Babu
				2347	Private	Non-Agriculture	1.328	Arjun Singh S/o- Bahadur Singh
				2543	Private	Non-Agriculture	0.034	Indra Narayan Singh S/o- Laxmi Narayan Singh
				2619	Government	Road	0.115	Bihar Govt.
				1532	Private	Non-Agriculture	0.014	Md. Sakir S/o- Khail
				3612	Private	Non-Agriculture	0.406	Ram Sagar Yadav S/o- Ram Brichh Yadav
				3613	Private	Non-Agriculture	0.046	Ram Sagar Yadav S/o- Ram Brichh Yadav
				3614	Private	Non-Agriculture	0.198	Lakhan Lal Yadav S/o- Bijay Yadav Md. Tark S/o- Md. Ejaj Ahmed
				2301	Private	Non-Agriculture	0.026	Nageshwar Sah S/o- Ram Prasad Sah
				2302	Private	Non-Agriculture	0.012	Nageshwar Sah S/o- Ram Prasad Sah
				2303	Private	Non-Agriculture	0.035	Biby Nurjahan W/o- Hatim Habib Ansari S/o- Abdul Ansari Md. Sakir S/o- Md. Abdul Karim
				2541	Private	Non-Agriculture	0.017	Subhankant Giri S/o- Laxmi Giri
				2511	Private	Non-Agriculture	0.048	Faiyej Ajam S/o- Faruk Ajam
				3581	Private	Non-Agriculture	0.105	Md. Eliyas S/o- Md. Sirajul
				2540	Private	Non-Agriculture	0.032	Subhankant Giri S/o- Laxmi Giri
			(B) Bahengra	20	Government	Road	0.024	Bihar Govt.
				64	Private	Agriculture	0.055	Santosh & Mithlesh Yadav S/o- Baidhnath Yadav
				73	Private	Agriculture	0.014	Ram Ashis Yadav S/o- Prem Lal Yadav
				88	Private	Agriculture	0.200	Saudagar Yadav S/o- Madhukar Yadav
				76	Private	Agriculture	0.026	Saudagar Yadav S/o- Madhukar Yadav
				16	Private	Agriculture	0.003	Kalar Mandal S/o- Muni Mandal Ram Ashis Yadav S/o- Prem Lal Yadav
				17	Private	Agriculture	0.102	Ram Chandra Mochi and Umesh Ram S/o- Babu Lal Ram Ygeshwar Ram & Singheshwar Ram S/o- Bihari Ram
				25	Private	Agriculture	0.005	Shankar Yadav S/o- Shiv Narayan Yadav and Others
				26	Private	Agriculture	0.199	Pawan Yadav & Rajeshwar Yadav and Others
				78	Private	Agriculture	0.077	Saudagar Yadav S/o- Madhukar Yadav
				83	Private	Agriculture	0.012	Kashi Yadav S/o- Rameshwar Yadav and Others
				77	Private	Agriculture	0.041	Saudagar Yadav S/o- Madhukar Yadav
				74	Private	Agriculture	0.083	Mohan Yadav S/o- Chaitar Yadav Saudagar Yadav S/o- Madhukar Yadav

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				92	Private	Agriculture	0.02	Saudagar Yadav S/o- Madhukar Yadav
				94	Private	Agriculture	0.045	Saudagar Yadav S/o- Madhukar Yadav
				96	Private	Agriculture	0.018	Saudagar Yadav S/o- Madhukar Yadav
				97	Private	Agriculture	0.013	Sita Ram Das S/o- Sawami Ganga Das
				98	Private	Agriculture	0.009	Viswanath Mandal S/o- Damodir Mandal
			(7) Sarso	5655	Private	Agriculture	0.040	Nageshwar Jha & Indradev Jha S/o- Tulant Lal Jha & Rameshwar Jha
				5656	Private	Agriculture	0.068	Indradev Jha S/o- Rameshwar Jha
				5668	Government	Road	0.060	Bihar Govt.
				5707	Private	Agriculture	0.004	Ganesh Mishra S/o- Ram Nath Mishra
				5708	Private	Agriculture	0.015	Bhola Mandal & Bechari Devi S/o- Vishwanath Mandal
				5709	Private	Agriculture	0.116	Narayan Jha S/o- Modanand Jha Thakan Bhandari S/o- Kishan Bhandari
				5657	Private	Agriculture	0.183	Yoga Nand Jha S/o- Puni Nath Jha Madan Rout S/o- Baayan Rout
				5660	Private	Agriculture	0.183	Ganesh Mishra S/o- Ram Nath Mishra
				5667	Private	Agriculture	0.200	Yoga Nand Jha S/o- Puni Nath Jha Madan Rout S/o- Baayan Rout
				5708	Private	Agriculture	0.083	Kunwar Chodhary S/o- Rajendra Chodhary
	2. Jhanjharpur		(1) Khadrakh	15	Government	Road	0.048	Bihar Government
				37	Private	Agriculture	0.008	Chhitan Mandal S/o- Lt. Chhedi Mandal
				99	Private	Agriculture	0.022	Devinath Mishra S/o- Lt. Shashinath Mishra Sakim-Pahi
				98	Private	Agriculture	0.030	Devinath Mishra S/o- Lt. Shashinath Mishra Sakim-Pahi
				239	Private	Agriculture	0.008	Sukhal Sahu S/o- Lt. Govind Sahu Sakim-Pahi
				482	Government	Road	0.040	Bihar Government
				952	Private	Agriculture	0.004	Ramprasad Sah S/o- Raghunath Sah Sakim-Pahi
				1075	Private	Agriculture	0.038	Shashi Nath Mishra S/o- Jogi Mishra
				1077	Private	Agriculture	0.042	Ram Bilash Sah S/o- Neba Lal Sah Prabhu Lal Sah S/o- Jagar Nath Sah
				1078	Private	Agriculture	0.020	Harsh Nath Mishra S/o- Nitin Nath Mishra
				1079	Private	Agriculture	0.058	Harsh Nath Mishra S/o- Nitin Nath Mishra
				1184	Private	Agriculture	0.028	Kripa Nath Mishra S/o- Priti Nath Mishra
				1195	Private	Agriculture	0.008	Narayan Mishra S/o- Lt. Tarakant Mishra
				1229	Private	Agriculture	0.010	Narayan Mishra S/o- Lt. Tarakant Mishra
				1230	Private	Agriculture	0.012	Narayan Mishra S/o- Lt. Tarakant Mishra
				1231	Private	Agriculture	0.049	Jibo Jha S/o- Srinath Jha Baidyanath Jha S/o- Upendra Jha Sakim-Pahi
				1242	Private	Agriculture	0.032	Ashwani Kumar & Navin Kr. Jha S/o- Lt. Anirudh Jha & Yogendra Jha
				1243	Private	Agriculture	0.028	Binod Jha S/o- Laxmi Jha
				1276	Private	Agriculture	0.018	Chandra Rekha Devi W/o- Kamdacharan Jha
				1288	Private	Agriculture	0.016	Lutan Mishra & Ramchandra Mishra S/o- Lt. Brindavan Mishra
				1679	Government	Road	0.012	Bihar Govt.
				1708	Private	Agriculture	0.018	Bhagwanjee Jha S/o- Lt. Chandreshwar Jha
				1709	Government	Road	0.012	Bihar Government
				1710	Government	Road	0.006	Bihar Government
				1715	Government	Road	0.004	Bihar Government
				1639	Government	Barrier	0.020	Bihar Government
				1853	Government	Barrier	0.075	Bihar Government

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1643	Private	Agriculture	0.034	Yaghyenath Mishra S/o-Lt. Lakshnath Mishra
				1792	Private	Agriculture	0.008	Tribudhnath Mishra S/o- Kamod Nath Mishra
				1765	Private	Agriculture	0.040	Mohan Kamati S/o-Lt. Bisheshwer Kamati
				2151	Government	Road	0.006	Bihar Government
				2153	Private	Agriculture	0.010	Ramprasad Sah S/o-Lt. Sukhdev Sah Sakim-Pahi Mishrial Sah & Manay Sah S/o-Lt. Domu Sah
				2154	Private	Agriculture	0.004	Ramprasad Sah S/o-Lt. Sukhdev Sah Sakim-Pahi
				2155	Private	Agriculture	0.002	Bhunnan Sah S/o-Lt. Shanti Sah
				2379	Government	Nala	0.012	Bihar Government
				2366	Private	Agriculture	0.216	Shiv Jayoti Devi W/o- Jagdish Sah
				1073	Private	Agriculture	0.004	Ramprasad Sah S/o-Lt. Sukhdev Sah Sakim-Pahi
				1074	Private	Agriculture	0.008	Mohan Kamati S/o-Lt. Bisheshwer Kamati
				1059	Private	Agriculture	0.002	Kripa Nath Mishra S/o- Kali Nath Mishra
				1196	Private	Agriculture	0.008	Prabo Nath Mishra S/o- Matvir Mishra
				1269	Private	Agriculture	0.004	Kamnath Mishra S/o- Matvir Mishra
				18	Private	Agriculture	0.002	Prabo Nath Mishra S/o- Matvir Mishra
				25	Private	Agriculture	0.004	Kripa Nath Mishra S/o- Kali Nath Mishra
				21	Private	Agriculture	0.003	Maresh Chodhary S/o- Jay Kant Chodhary
				22	Private	Agriculture	0.022	Demroo Nath Mishra S/o- Upendra Nath Mishra
				23	Private	Agriculture	0.006	Kamnath Mishra S/o- Matvir Mishra
				26	Private	Agriculture	0.086	Vijay Nath Mishra S/o- sechinath Mishra
				39	Private	Agriculture	0.005	Devinath Mishra S/o-Lt. Shashinath Mishra
				19	Private	Agriculture	0.003	Thakur Nath Mishra S/o- Indu Nath Mishra
				231	Private	Agriculture	0.001	Yognath Mishra S/o- Khair Nath Mishra
				394	Private	Agriculture	0.006	Pankaj Kumar Mishra S/o- Harishchandar Mishra
				895	Private	Agriculture	0.004	Prabhu Sah S/o- Raghunath Sah
				196	Private	Agriculture	0.139	Devinath Mishra S/o- Shashi Nath Mishra
				197	Private	Agriculture	0.008	Devinath Mishra S/o- Shashi Nath Mishra
				207	Private	Agriculture	0.004	Devinath Mishra S/o- Shashi Nath Mishra
				209	Private	Agriculture	0.003	Dharamnath Mishra S/o- Indunath Mishra
				210	Private	Agriculture	0.051	Dharamnath Mishra S/o- Indunath Mishra
				211	Private	Agriculture	0.067	Dharamnath Mishra S/o- Indunath Mishra
				212	Private	Agriculture	0.043	Dharamnath Mishra S/o- Indunath Mishra
				213	Private	Agriculture	0.001	Madhukant Mishra S/o- Toni Mishra
				214	Private	Agriculture	0.004	Chulhai Mandal S/o- Muni Mandal
				15	Government	Road	0.009	Bihar Government
				16	Private	Agriculture	0.013	Uday Mishra S/o- Priptinath Mishra
				227	Private	Agriculture	0.008	Uday Mishra S/o- Priptinath Mishra

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				228	Private	Agriculture	0.013	Sukhal Sahu S/o-Lt. Govind Sahu Sakim-Pahi
				229	Private	Agriculture	0.006	Rajendra Mandal S/o- Jagdish Mandal
				230	Private	Agriculture	0.006	Sukhal Sahu S/o-Lt. Govind Sahu Sakim-Pahi
				233	Private	Agriculture	0.001	Amamath Mishra S/o- Kashi Nath Mishra
				235	Private	Agriculture	0.027	Lekh Nath Mishra S/o- Shashi Nath Mishra
				236	Private	Agriculture	0.006	Premnath Mishra S/o- Budhi Nath Mishra
				900	Private	Agriculture	0.007	Daunka Nath Jha S/o- Sitaran Jha
				920	Private	Agriculture	0.010	Nand Kumar Kamati S/o- Jibachh Kamati
				921	Private	Agriculture	0.015	Guliy Devi W/o- Chhothi Kamati
				919	Private	Agriculture	0.008	Bibhuti Nath Jha
				923	Private	Agriculture	0.008	Shiv Kumar Kamati S/o- Jibachh Kamati
				931	Private	Agriculture	0.016	Jibachh Kamati S/o- Ram Lal Kamati
				932	Private	Agriculture	0.004	Jagdish Kamati S/o- Ram Lal Kamati
				934	Private	Agriculture	0.041	Chhothi Kamati S/o- Ram Lal Kamati
				935	Private	Agriculture	0.007	Jagdish Kamati S/o- Ram Lal Kamati
				937	Private	Agriculture	0.005	Sukhal Sahu S/o-Lt. Govind Sahu Sakim-Pahi
				944	Private	Agriculture	0.128	Udaynath Jha & Hiranath Jha S/o- Girgit Jha
				945	Private	Agriculture	0.019	Sato Prasad Gupta S/o- Shiv Shankar Prasad Gupta and Others
				946	Private	Agriculture	0.009	Radhe Prasad Gupta S/o- Ram Auttar Prasad Gupta
				947	Private	Agriculture	0.009	Radhe Prasad Gupta S/o- Ram Auttar Prasad Gupta
				948	Private	Agriculture	0.008	Jagdish Fatmi S/o- Ram Lal Fatmi
				918	Private	Agriculture	0.030	Sibu Chodhary S/o- Baidhnath Chodhary
				950	Private	Agriculture	0.021	Radhe Prasad Gupta S/o- Ram Auttar Prasad Gupta
				951	Private	Agriculture	0.010	Rameshwar Sah S/o- Raghunath Sah
				922	Private	Agriculture	0.011	Guliy Devi W/o- Chhothi Kamati
				965	Private	Agriculture	0.006	Rambilash Sah S/o- Nebalal Sah
				966	Private	Agriculture	0.007	Rambilash Sah S/o- Nebalal Sah
				970	Private	Agriculture	0.007	Jagdish Sah S/o- Shiv Lal Sah
				983	Private	Agriculture	0.201	Bheshnath Mishra S/o- Shashi Nath Mishra
				984	Private	Agriculture	0.011	Premnath Mishra S/o- Budhi Nath Mishra
				985	Private	Agriculture	0.005	Premnath Mishra S/o- Budhi Nath Mishra
				986	Private	Agriculture	0.012	Narsyan Chodhary S/o- Sawrup Chodhary
				987	Private	Agriculture	0.066	Radhe Prasad Gupta S/o- Ram Auttar Prasad Gupta
				988	Private	Agriculture	0.043	Radhe Prasad Gupta S/o- Ram Auttar Prasad Gupta
				989	Private	Agriculture	0.005	Sudhnath Mishra S/o- Kali Nath Mishra
				933	Private	Agriculture	0.006	Jagdish Kamati S/o- Ram Lal Kamati
				936	Private	Agriculture	0.012	Muneshwar Kamati S/o- Buchai Kamati
				949	Private	Agriculture	0.348	Radhe Prasad Gupta S/o- Ram Auttar Prasad Gupta

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				956	Private	Agriculture	0.024	Ram Bilash Sah S/o- Neba Lal Sah
				969	Private	Agriculture	0.013	Mahendra Sah S/o- Vishwanath Sah
				1244	Private	Agriculture	0.025	Mahendra Sah S/o- Vishwanath Sah
				1245	Private	Agriculture	0.010	Ganga Nath Jha S/o- Ramakant Jha
				1246	Private	Agriculture	0.045	Ajit Kumar Mishra S/o- Anmol Mishra
				1279	Private	Agriculture	0.044	Ajit Kumar Mishra S/o- Anmol Mishra
				1282	Private	Agriculture	0.026	Bindu Babu Jha S/o- Kiran Jha
				1272	Private	Agriculture	0.013	Narayan Thakur S/o- Satan Thakur
				1273	Private	Agriculture	0.037	Kishor Kumar Mishra S/o- Bidyadhar Mishra
				1326	Private	Agriculture	0.026	Ganga Nath Jha S/o- Ramakant Jha
				1326	Private	Agriculture	0.039	Ganga Nath Jha S/o- Ramakant Jha
				1327	Private	Agriculture	0.024	Ganga Nath Jha S/o- Ramakant Jha
				1328	Private	Agriculture	0.026	Ganga Nath Jha S/o- Ramakant Jha
				1008	Private	Agriculture	0.005	Dhimath Mishra S/o- Bhavnath Mishra
				1009	Private	Agriculture	0.002	Pramod Mandal S/o- Tanulal Mishra
				1776	Private	Agriculture	0.026	Ratishwar Jha S/o- Shiveshwar Jha
				1780	Private	Agriculture	0.032	Arun Mishra S/o- Mahakant Mishra
				1789	Government	Non-Agriculture	0.005	Bihar Govt.
				1791	Private	Agriculture	0.024	Bijul Chodhary S/o- Ruplal Chodhary
				1558	Private	Agriculture	0.024	Binay Kumar Mishra S/o- vidyadhar Mishra
				1554	Private	Agriculture	0.051	Mina Mishra W/o- Arun Kumar Mishra
				1555	Private	Agriculture	0.007	Mina Mishra W/o- Arun Kumar Mishra
				2332	Private	Agriculture	0.014	Jivnath Mishra S/o- Jisunath Mishra
				1557	Private	Agriculture	0.012	Lutan Thakur S/o- Misirai Thakur
				1711	Private	Agriculture	0.015	Chhoti Kamati S/o- Darshan Kamati
				1713	Government	Pond	0.042	Bihar Government
				1714	Government	Pond	0.008	Bihar Government
				1764	Private	Agriculture	0.014	Jivnath Mishra S/o- Jisunath Mishra
				1766	Private	Agriculture	0.027	Chhoti Kamati S/o- Darshan Kamati
				1243	Private	Agriculture	0.018	Binod Jha S/o- Laxmi Jha
				208	Private	Agriculture	0.008	Binod Jha S/o- Laxmi Jha
			(2) Lohana	1551	Private	Agriculture	0.008	Lutan Kamati & Prithvi Kamati S/o-Lt. Sonay Kamati & Lt. Janak Kamati Sakim-Dehe
				1540	Private	Non-Agriculture	0.004	Soghan Kamati S/o-Lt. Thakkan Kamati Sakim-Dehe
				1527	Private	Non-Agriculture	0.016	Soghan Kamati S/o-Lt. Thakkan Kamati Sakim-Dehe Mohan Kamati & Bachay Kamati

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1528	Private	Agriculture	0.006	Kamak Kamati S/o-Lt. Jogindra Kamati Sakim-Dehe
				1524	Private	Agriculture	0.001	Bachay Kamati S/o-Lt. Baidyanath Kamati
				1342	Private	Agriculture	0.036	Sahdev Kamati & Asharfi Kamati S/o-Lt. Moti Kamati Sakim-Dehe Sundar Kamati
				1341	Private	Agriculture	0.002	Sahdev Kamati & Asharfi Kamati S/o-Lt. Moti Kamati Sakim-Dehe
				1340	Private	Agriculture	0.007	Sahdev Kamati & Asharfi Kamati S/o-Lt. Moti Kamati Sakim-Dehe
				1337	Private	Agriculture	0.028	Prakash Mishra Mouje Khadrakh
				1335	Private	Non-Agriculture	0.024	Shival Sah S/o-Bachay Sah Sakim-Dehe
				1332	Private	Agriculture	0.079	Sundar Kamati & Rajendra Kamati S/o-Lt. Fekan Kamati & Lt. Keshn Kamati Shyam Sundar Kamati S/o-bachay Kamati Sakim-Dehe Ram Pd. Sah S/o-Lt. Sonay Sah Sakim-Dehe
				1328	Private	Agriculture	0.024	Indunath Mishra S/o- Hareram Mishra
				1369	Government	Nala	0.001	Bihar Govt.
				1323	Private	Agriculture	0.024	Jaylaj Rai S/o- Jagat Rai
				5270	Government	Road	0.004	Bihar Govt.
				1324	Private	Agriculture	0.020	Harishankar Chodhary S/o- Jagmohan Chodhary
				1322	Private	Agriculture	0.016	Biju Jha S/o- Dinesh Jha
				1093	Private	Agriculture	0.044	Rupan Kamati S/o-Chhitan Kamati Sakim-Dehe Rajendra Kamati S/o-Lt. Kesri Kamati Sakim-Dehe Arun Kumar & Tarun Kumar S/o-Asharfi Kamati & Sahdev Kamati Sakim-Dehe
				1321	Private	Agriculture	0.012	Biju Jha S/o- Dinesh Jha
				1305	Private	Agriculture	0.002	Biju Jha S/o- Dinesh Jha
				1299	Private	Agriculture	0.002	Biju Jha S/o- Dinesh Jha
				1304	Private	Agriculture	0.002	Biju Jha S/o- Dinesh Jha
				1303	Private	Agriculture	0.002	Biju Jha S/o- Dinesh Jha
				1322	Private	Agriculture	0.018	Beenu Jha S/o-Lt. Dinesh Jha Sakim-Dehe
				4312	Private	Non-Agriculture	0.022	Yogendra Lal Kamati S/o-Lt. Anup Kamati Sakim-Dehe
				4282	Government	Road	0.004	Bihar Government
				4039	Government	Nahar	0.016	Bihar Govt.
				4029	Private	Non-Agriculture	0.004	Biku Mukhiya S/o-Lt. Mangal Mukhiya Sakim-Dehe
				4024	Private	Non-Agriculture	0.024	Raghunandan Sah S/o-Lt. Bouku Sah Sakim-Dehe Nathuni Sah
				4022	Private	Non-Agriculture	0.008	Bihar Government Jitan Sah & Laxman Jha S/o-Lt. Bhaktinath Jha &
				4021	Private	Non-Agriculture	0.006	Nathuni Sah S/o-Lt. Ramkhetavan Sah Sakim-Dehe

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4020	Private	Non-Agriculture	0.026	Nathuni Sah S/o-Lt. Ramkhelevar Sah Sakim-Dehe
				4019	Private	Non-Agriculture	0.008	Nathuni Sah S/o-Lt. Ramkhelevar Sah Sakim-Dehe
				4018	Government	Road	0.016	Bihar Govt.
		*		4008	Private	Agriculture	0.008	Udaykant Jha S/o-Lt. Dinanath Jha
				3987	Government	Road	0.002	Bihar Government
				3961	Private	Non-Agriculture	0.002	Jayram Chopal S/o- Sobhan Chopal
				3990	Private	Non-Agriculture	0.008	Jayram Chopal S/o- Sobhan Chopal
				3959	Private	Non-Agriculture	0.002	Jayram Chopal S/o- Sobhan Chopal
				3986	Private	Non-Agriculture	0.102	Kailu Chopal S/o-Lt. Soman Chopal Sakim-Dehe Shibu Chopal S/o-Lt. Soman Chopal Sakim-Dehe
				3958	Private	Non-Agriculture	0.011	Kailu Chopal S/o-Lt. Soman Chopal Sakim-Dehe Raghu Chopal S/o-Lt. Soman Chopal Sakim-Dehe Shibu Chopal S/o-Lt. Soman Chopal Sakim-Dehe
				3957	Private	Non-Agriculture	0.008	Raghu Chopal S/o-Lt. Soman Chopal Sakim-Dehe Shibu Chopal S/o-Lt. Soman Chopal Sakim-Dehe
				3976	Government	Road	0.004	Bihar Government
				3953	Private	Non-Agriculture	0.005	Jai Ram Chopal S/o-Lt. Soman Chopal Sakim-Dehe Mitram Chopal S/o-Lt. Ulfat Chopal Sakim-Dehe
				3954	Private	Non-Agriculture	0.012	Jai Ram Chopal S/o-Lt. Soman Chopal Sakim-Dehe Mitram Chopal S/o-Lt. Ulfat Chopal Sakim-Dehe
				3955	Private	Non-Agriculture	0.008	Jai Ram Chopal S/o-Lt. Soman Chopal Sakim-Dehe
				3952	Private	Non-Agriculture	0.002	Mitram Chopal S/o-Lt. Ulfat Chopal Sakim-Dehe
				3944	Private	Agriculture	0.016	Bhaday Chopal S/o-Lt. Palat Chopal Sakim-Dehe
				3945	Private	Non-Agriculture	0.008	Bhaday Chopal & Others
				3943	Government	Pond	0.008	Bihar Government
				3942	Government	Non-Agriculture	0.028	Bihar Govt.
				3940	Government	Road	0.006	Bihar Government
				4250	Private	Agriculture	0.030	Bacha Babu S/o-Lt. Nainman Jha Sakim-Dehe
				4251	Private	Agriculture	0.010	Bacha Babu S/o-Lt. Nainman Jha Sakim-Dehe
				4362	Private	Agriculture	0.016	Yogendra Lal Kamati S/o-Lt. Anup Kamati Sakim-Dehe
				4037	Government	Road	0.020	Bihar Government
				4503	Government	Road	0.014	Bihar Government
				4518	Private	Agriculture	0.011	Jitan Jha S/o-Lt. Bhaktinath Jha Sakim-Dehe
				4841	Private	Agriculture	0.002	Suresh Jha S/o-Lt. Mahesh Jha Sakim-Dehe
				3882	Private	Agriculture	0.090	Hemkant Jha S/o-Lt. Bijyanand Jha Sakim-Dehe Hemkant Jha S/o-Lt. Bijyanand Jha Sakim-Dehe
				3883	Private	Agriculture	0.227	Bijly Devi Jouje Abadh Nr. Jha Sakim-Dehe Govind Jha S/o-Lt. Baldev Jha Sakim-Dehe
				3857	Private	Agriculture	0.010	Hemkant Jha S/o-Lt. Chiranjeev Jha Sakim-Dehe

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3852	Private	Agriculture	0.047	Shravan Kr. Jha S/o-Lt. Bhushan Jha
				3859	Private	Agriculture	0.093	Amamath Jha S/o-Lt. Tez Nr. Jha Sakim-Dehe
				3858	Private	Agriculture	0.102	Sridhar Jha S/o-Lt. Bishwambher Jha Sakim-Dehe Hanuman Jha S/o-Satyadev Jha Sakim-Dehe Gopal Jha S/o-Chandranath Jha Sakim-Dehe
				3851	Private	Agriculture	0.091	Laxman Jha S/o-Lt. Kalanath Jha Sakim-Dehe
				3850	Private	Agriculture	0.051	Maheshwer Jha S/o-Lt. Kusheshwer Jha Sakim-Dehe Babukant Jha S/o-Lt. Harivansh Jha Sakim-Dehe Devkant Jha S/o-Lt. Keshikant Jha Sakim-Dehe
				3826	Government	Road	0.024	Bihar Govt.
				3824	Private	Agriculture	0.026	Jitan Jha S/o-Lt. Fochan Jha Sakim-Dehe
				3828	Private	Agriculture	0.024	Bharat Jha S/o-Lt. Suvansh Jha Sakim-Dehe Munay Yadav S/o-Lt. Jagdish Yadav Sakim-Sarvasima
				3509	Private	Agriculture	0.090	Gunand Mishra S/o-Shivnandan Mishra Sakim-Naruar
				3508	Private	Agriculture	0.151	Masomat Tilya Devy W/o-Lt. Bouku Yadav Sakim-Sarvasima
				3510	Private	Agriculture	0.006	Jaykant Yadav S/o-Chulhay Yadav Sakim-Sarvasima
				3505	Private	Agriculture	0.035	Munay Yadav S/o-Lt. Jagdish Yadav Sakim-Sarvasima
				3506	Private	Agriculture	0.186	Bhogendra Roy S/o-Jitan Roy Sakim-Sarvasima Jitan Roy S/o-Lt. Pulkit Roy Sakim-Sarvasima
				3504	Government	Road	0.108	Bihar Govt.
				3503	Private	Agriculture	0.208	Mahaveer Sah S/o-Lt. Jamadar Sah Sakim-Naruar Laxmi Yadav S/o-Lt. Lafu Yadav Sakim-Sarvasima Sadanand Mishra S/o-Shrikant Mishra Sakim-Bhalpatti
				2876	Private	Agriculture	0.122	Laxmi Yadav S/o-Lt. Lafu Yadav Sakim-Sarvasima
				2875	Private	Agriculture	0.012	Ganand Mishra S/o-Lt. Shivnandan Mishra Sakim-Naruar
				2869	Government	Road	0.077	Bihar Govt.
				2868	Private	Agriculture	0.193	Rajendra Kamati S/o-Lt. Bathu Kamati Sakim-Dehe
				3513	Private	Agriculture	0.018	Hareram Sah S/o-Lt. Ramswrup Sah Sakim-Dehe
				2867	Private	Agriculture	0.070	Rajendra Kamati S/o-Lt. Bathu Kamati Sakim-Dehe Devendra Kamati S/o-Lt. Bathu Kamati Sakim-Dehe
				2870	Private	Agriculture	0.276	Devendra Kamati S/o-Lt. Bathu Kamati Sakim-Dehe Devendra Kamati S/o-Lt. Bathu Kamati Sakim-Dehe Rameshwer Kamati S/o-Lt. Mahaveer Kamati Sakim-Dehe
				2871	Private	Agriculture	0.069	Devendra Kamati S/o-Lt. Bathu Kamati Sakim-Dehe Rameshwer Kamati S/o-Lt. Mahaveer Kamati Sakim-Dehe
				2892	Private	Agriculture	0.019	Harnath Thakur S/o-Lt. Medhakant Thakur Sakim-Sarvasima

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2713	Private	Agriculture	0.539	Laxmi Yadav S/o-Lt.Lafu Yadav Sakim-Sarvasima Nunu Thakur S/o-Lt.Puninath Thakur Sakim-Dehe Shanker Thakur S/o-Lt.Sitaram Thakur Sakim-Dehe Hamath Thakur S/o-Lt.Medhakant Thakur Sakim-Sarvasima
				2714	Private	Agriculture	0.042	Hamath Thakur S/o-Lt.Medhakant Thakur Sakim-Sarvasima
				2712	Private	Agriculture	0.143	Rajendra Kamati S/o-Lt.Bathu Kamati Sakim-Dehe Devendra Kamati S/o-Lt.Kairu Kamati Sakim-Dehe
				2711	Private	Agriculture	0.020	Sitaram Sahu S/o-Lt.Bhutu Sakim-Sarvasima
				2710	Private	Agriculture	0.056	Laxman Sah S/o- Jagran Sah
				2709	Private	Agriculture	0.006	Laxman Sah S/o-Lt.Bedni Sah Sakim-Sarvasima
				2708	Private	Agriculture	0.575	Devendra Kamati S/o-Lt.Kairu Kamati Sakim-Dehe Sitay Sah S/o-Lt.Janak Sah Sakim-Dehe Chandeshwer Yadav S/o-Lt. Bilal Yadav Sakim-Dehe
				2707	Government	Kosi Nahar	0.288	Bihar Govt.
				2706	Government	Kosi Nahar	0.038	Bihar Govt.
				2696	Government	Kosi Nahar	0.114	Bihar Govt.
				2700	Private	Agriculture	0.008	Ravindranath Thakur & Kalikant Thakur S/o-Kusheshwer Thakur Sakim-Naruar
				2703	Government	Kosi Nahar	0.044	Bihar Govt.
				2704	Government	Kosi Nahar	0.216	Bihar Govt.
				2705	Government	Kosi Nahar	0.048	Bihar Govt.
				2726	Private	Agriculture	0.004	Budhi Nath Mishra S/o- Fekan Mishra
				1020	Private	Agriculture	0.060	Budhi Nath Mishra S/o- Fekan Mishra
				1062	Private	Agriculture	0.023	Mohan Mishra S/o- Fekan Mishra
				1068	Private	Agriculture	0.010	Lutan Kamati S/o- Soni Kamati
				1550	Private	Agriculture	0.002	Lutan Kamati S/o- Soni Kamati
				1543	Private	Non-Agriculture	0.022	Mangal Kamati S/o- Sibn Kamati
				1542	Private	Non-Agriculture	0.002	Bhogendra Kamati S/o- Raghuvir Kamati
				1541	Private	Non-Agriculture	0.004	Bhogendra Kamati S/o- Raghuvir Kamati
				4344	Private	Agriculture	0.010	Mangal Kamati S/o- Sibn Kamati
				4032	Private	Non-Agriculture	0.069	Nathuni Sah S/o-Lt.Ramkhelevar Sah Sakim-Dehe
				4033	Private	Non-Agriculture	0.015	Raghunandan Sah S/o-Lt.Bouku Sah Sakim-Dehe
				4363	Private	Agriculture	0.002	Jogendra Lal Kamati S/o- Anup Lal Kamati
				4365	Private	Agriculture	0.006	Jogendra Lal Kamati S/o- Anup Lal Kamati
				4371	Private	Agriculture	0.066	Bhaskar Yadav S/o- Fuchun Yadav
				4501	Private	Agriculture	0.068	Jagamath Thakur S/o- Dayakant Thakur
				4502	Private	Non-Agriculture	0.014	Sanjeep Chodhary S/o- Sachan Chodhary
				4506	Private	Non-Agriculture	0.049	Ram Sewak Chodhary S/o- Makhan Chodhary
				4517	Private	Agriculture	0.016	Jitan Jha S/o- Bhakti Nath Jha
				4633	Private	Agriculture	0.002	Bharat Jha S/o-Lt.Kalanath Jha Sakim-Dehe Bharat Jha S/o-Lt.Kalanath Jha & Jitan Jha S/o-Lt.Bhaktinath Jha Sakim-Dehe
				4634	Private	Agriculture	0.001	Suresh Jha S/o-Lt.Mahesh Jha Sakim-Dehe
				4640	Private	Agriculture	0.001	Hanuman Jha S/o- Staydev Jha

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4649	Government	Pond	0.056	Bihar Govt.
				3915	Private	Agriculture	0.027	Rekha Jha W/o- Durga Nand Jha
				3914	Private	Agriculture	0.329	Rajkumar Singh S/o- Baleshwar Singh Bharti
				3884	Private	Agriculture	0.340	Govind Jha S/o- Baldev Jha
				3881	Private	Agriculture	0.008	Hemkant Jha S/o- Chirjeev Jha
				3880	Private	Agriculture	0.002	Hanuman Jha S/o- Staydev Jha
				3855	Private	Agriculture	0.165	Laddu Yadav S/o- Sonu Yadav
				3854	Private	Agriculture	0.020	Hemkant Jha S/o- Chirjeev Jha
				3853	Private	Agriculture	0.055	Hemkant Jha S/o- Chirjeev Jha
				3842	Private	Agriculture	0.228	Girdhar Chodhary S/o- Knt Narayan Chodhary
				3823	Private	Agriculture	0.046	Laxman Jha S/o-Lt.Kalanath Jha Sakim-Dehe
				3822	Private	Agriculture	0.005	Laxman Jha S/o-Lt.Kalanath Jha Sakim-Dehe
				3825	Private	Agriculture	0.169	Bharat Jha S/o- Kalnath Jha
				3827	Private	Agriculture	0.090	Abadh Narayan Jha S/o- Anand Kant Jha
				2698	Private	Agriculture	0.165	Kusheshwer Thakur S/o-Lt.Moti Thakur
				2699	Private	Agriculture	0.260	Kusheshwer Thakur S/o-Lt.Moti Thakur
			(3) Naruar	356	Government	Road	0.036	Bihar govt.
				340	Private	Agriculture	0.010	Ramlochan Yadav S/o-Pguli Yadav
				369	Government	Road	0.049	Bihar govt.
				400	Private	Agriculture	0.014	Ram Lochan Yadav & Narayan Yadav & Masomat Buchiya Devi S/o-Lt.Guli Yadav & Lt.Kusheshwer Yadav & W/o-Lt.Ramsharan Yadav
				579	Private	Agriculture	0.002	Ramlochan Yadav S/o-Pguli Yadav
				524	Government	Road	0.004	Bihar govt.
				494	Private	Agriculture	0.021	Babu Jee Roy S/o-Lt.Kantirbu Roy
				474	Government	Road	0.049	Bihar Govt.
				409	Private	Agriculture	0.640	Pitambar Yadav S/o- Jageshwar Yadav
				670	Government	Road	0.045	Bihar govt.
				724	Private	Agriculture	0.102	Parmeshwar Mandal S/o-Lt.Jibachh Mandal Sakim-Heithy Purnand Jha S/o-Lt.Sitaram Jha Sakim-Heithy
				723	Private	Agriculture	0.170	Madan Jha S/o-Lt.Laxmi Nr. Jha Sakim-Dehe Chandra Mohan Jha S/o-Lt.Laxmi Nr Jha Chandra Mohan Jha S/o-Lt.Laxmi Nr.Jha Shyam Sundar Thakur S/o-Lt.Sattan Thakur Binod Thakur S/o-Budhiyer Thakur
				779	Private	Agriculture	0.048	Parshuram Jha S/o-Lt.Shrikant Jha
				769	Private	Agriculture	0.004	Bechan Paswan S/o- Uttam Paswan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				766	Private	Agriculture	0.004	Chandra Jha S/o- Bechu Jha
				774	Private	Agriculture	0.004	Ramsewak Rai S/o- Kantribu Rai
				538	Private	Agriculture	0.125	Ramsewak Rai S/o- Kantribu Rai
				529	Private	Agriculture	0.048	Parshuram Jha S/o-Lt. Shrikant Jha
				732	Government	Road	0.024	Bihar govt.
				744	Private	Agriculture	0.004	Bilti Devi W/o- Nanu Yadav and Others
				3198	Government	Agriculture	0.036	Bihar govt.
				837	Government	Barrier	0.041	Bihar govt.
				349	Government	Agriculture	0.045	Bihar govt.
				746	Private	Agriculture	0.004	Sutu Yadav S/o- Saryug Yadav
				747	Private	Agriculture	0.018	Premanand Jha S/o-Lt. Shyamanand Jha
				320	Private	Agriculture	0.083	Pitambar Yadav S/o- Jageshwar Yadav
				321	Private	Agriculture	0.260	Pitambar Yadav S/o- Jageshwar Yadav Mahavir Sah S/o- Jamdar Sah
				344	Private	Agriculture	0.036	Rajendra Roy & Jogendra Roy S/o-Lt. Basudev Roy
				336	Private	Agriculture	0.027	Bilti Devi W/o- Nanu Yadav and Others
				337	Private	Agriculture	0.021	Nilambar Mishra S/o- Bhagwat Mishra
				386	Private	Agriculture	0.014	Sitaram Yadav S/o-Lt. Gujar Yadav Bhramdev Yadav S/o-Lt. Mahaveer Yadav Bishwanath Yadav S/o-Lt. Kusheshwar Yadav
				402	Private	Agriculture	0.062	Balvadra Jha S/o- Badri Jha
				401	Private	Agriculture	0.002	Sutu Yadav S/o- Saryug Yadav
				389	Private	Agriculture	0.001	Ganand Mishra S/o-Lt. Shivnandan Mishra
				387	Private	Agriculture	0.094	Ganand Mishra S/o-Lt. Shivnandan Mishra
				392	Private	Agriculture	0.036	Ganand Mishra S/o-Lt. Shivnandan Mishra
				394	Private	Agriculture	0.035	Lakhan Yadav S/o- budhan Yadav Govind Yadav S/o- Lt. budhan Yadav Babu Jea Yadav S/o- Lt. Budhan Yadav Dhokey Yadav S/o- Lt. Bauku Yadav
				576	Private	Agriculture	0.033	Jamuna Devi W/o- Jagdish Mandal
				530	Private	Agriculture	0.003	Amrit Yadav & Dukhan Yadav S/o- Mohan Yadav
				529	Private	Agriculture	0.007	Parshuram Jha S/o-Lt. Shrikant Jha
				531	Private	Agriculture	0.014	Bhola Yadav S/o- Samli Yadav
				536	Private	Agriculture	0.026	Munni Chopal & Dukhi Chopal S/o- Bunni Chopal
				537	Private	Agriculture	0.029	Tarakant Rai & Permanand Rai S/o- Buchen Rai
				538	Private	Agriculture	0.057	Ramsevak Roy S/o-Lt. Kantribu Roy Ramchandra Roy S/o-Lt. Kantribu Roy
				501	Private	Agriculture	0.020	Dhyani Yadav S/o- Baidhnath Yadav
				499	Private	Agriculture	0.106	Pradeep Jha S/o- Pramod Jha
				498	Private	Agriculture	0.009	Bairam Jha S/o-Lt. Shrikant Jha
				486	Private	Agriculture	0.200	Sitaram Yadav S/o-Lt. Gujar Yadav Bhramdev Yadav S/o-Lt. Mahaveer Yadav
				483	Private	Agriculture	0.035	Ganesh Jha S/o- Jaykant Jha

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				656	Private	Agriculture	0.013	Birendra Kumar Mishra S/o- Bhola Mishra
				476	Private	Agriculture	0.072	Dhyani Yadav S/o- Baidhnath Yadav
				706	Private	Agriculture	0.055	Pradeep Jha S/o- Pramod Jha
				718	Private	Agriculture	0.002	Pumand Jha S/o- Sitaram Jha
				719	Private	Agriculture	0.006	Pumand Jha S/o- Sitaram Jha
				399	Private	Agriculture	0.018	Ganand Mishra S/o-Lt. Shrivandan Mishra Sakim-Dehe
				348	Private	Agriculture	0.040	Dubay Thakur Gangay Thakur S/o-Lt. Jaydev Thakur
				344	Private	Agriculture	0.098	Rejendra Rai & Jogindra Rai S/o- Basudev Rai
				345	Private	Agriculture	0.072	Bhulkun Sah S/o- Jamedar Sah
				498	Private	Agriculture	0.055	Dubay Thakur Gangay Thakur S/o-Lt. Jaydev Thakur
				622	Government	Road	0.032	Bihar govt.
				386	Private	Agriculture	0.155	Viswanath Yadav S/o- Kusheshwar Yadav Brahmdev Yadav S/o- Mahaveer Yadav
				722	Private	Agriculture	0.002	Bechan Paswan S/o- Uttam Paswan
				749	Private	Agriculture	0.008	Chandra Jha S/o- Bechu Jha
				768	Private	Agriculture	0.027	Sukhendar Jha S/o- Arjun Jha and Others
				777	Private	Agriculture	0.050	Dularu Sakim - Dehe
			(4) Arazi Bhawanipur	158	Private	Agriculture	0.072	Gannand Mishra S/o-Lt. Shrivandan Mishra Gannand Mishra S/o-Lt. Shrivandan Mishra
				159	Private	Agriculture	0.044	Raghuni Mandal S/o- Kusheshwar Mandal Lalan Mandal S/o- Kusheshwar Mandal
				144	Private	Agriculture	0.024	Ram Auttar Jha S/o- Abhay Narayan Jha
				98	Government	Road	0.004	Bihar Govt.
				168	Private	Agriculture	0.002	Kisan Paswan S/o-Fate Paswan
				145	Private	Agriculture	0.265	Ram Prasad Jha S/o- Kedar Jha
				150	Private	Agriculture	0.148	Parmeshwar Mandal S/o- Jibachh Mandal Madan Jha S/o- Laxmi Jha
				151	Private	Agriculture	0.137	Mahindar Jha S/o- Arjun Jha and Others
				152	Private	Agriculture	0.023	Ram Prasad Jha S/o- Kedar Jha
				156	Private	Agriculture	0.056	Ganand Mishra S/o- Shrivandan Mishra and Others
				157	Private	Agriculture	0.162	Gannand Mishra S/o-Lt. Shrivandan Mishra
				169	Private	Agriculture	0.041	Ram Auttar Jha S/o- Abhay Narayan Jha
				170	Private	Agriculture	0.109	Ram Auttar Jha S/o- Abhay Narayan Jha
			(5) Balli	1194	Private	Agriculture	0.170	Harekant Thakur S/o-Badri Thakur Kameshwar Jha S/o-Lt. Mahendra Jha Shivshanker Thakur S/o-Lt. Bishu Thakur Mahinathpur
				1178	Private	Agriculture	0.004	Madhav Thakur S/o-Tilaknayar Thakur
				1230	Private	Agriculture	0.073	Subi Paswan S/o-Lt. Kanchan Paswan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1223	Government	Agriculture	0.024	Bihar Govt.
				1336	Private	Agriculture	0.110	Asharti Shafi S/o-Lt.Kari Shafi Ramdev Shafi S/o-Lt.Mussey Shafi Palat Sati S/o-Kari Sati
				1218	Private	Agriculture	0.020	Jai Govind Jha S/o-Lt.Dukhmochan Jha Girjanand Jha S/o-Lt.Bishwamohan Jha Chandrakant Jha S/o-Babusahab Jha
				1160	Private	Agriculture	0.140	Harekant Jha S/o- Buchan Jha and Others
				1161	Private	Agriculture	0.030	Ganga Ram Thakur S/o- Fushi Thakur
				1162	Private	Agriculture	0.120	Palat Shafi S/o- Kari Shafi
				1163	Private	Agriculture	0.048	Khusmohammad Hasan S/o- Bacha Ansari
				1164	Private	Agriculture	0.001	Serv Narayan Jha S/o- Kanak Jha
				1165	Private	Agriculture	0.055	Ramashanker Jha & Gaurishanker Jha S/o- Surat Jha
				1166	Private	Agriculture	0.024	Palat Shafi S/o- Kari Shafi
				1167	Private	Agriculture	0.020	Nand Kumar Jha S/o- Bacha Jha
				1188	Private	Agriculture	0.077	Krishan Kant Jha S/o- Radheshyam Jha
				1190	Private	Agriculture	0.108	Amarnath Jha & Amarendra Narayan Jha S/o- Bacha Jha
				1191	Private	Agriculture	0.088	Diya Nand Jha S/o- Fudi Jha
				1193	Private	Agriculture	0.062	Ahammed Majid S/o- Ahammed Aji
				1213	Private	Agriculture	0.132	Lalit Narayan Jha S/o- Kripa Nand Jha
				1222	Private	Agriculture	0.030	Baidhnath Thakur S/o- Murtidhar Thakur
				1224	Private	Agriculture	0.015	Baidhnath Thakur S/o- Murtidhar Thakur
				1225	Private	Agriculture	0.039	Harinarayan Jha S/o- Maksudhan Jha
				1217	Private	Agriculture	0.106	Harinarayan Jha S/o- Ram Krishen Jha
				1271	Private	Agriculture	0.049	Harinarayan Jha S/o- Ram Krishen Jha
		(6) Mahinathpur		978	Private	Agriculture	0.072	Shyam Sunder Jha S/o-Lt.Bhagwandatt Jha Krit Nr. Jha S/o-Lt.Kumdev Jha
				1147	Private	Agriculture	0.006	Govind Nr. Jha S/o-Lt.Boelal Jha Sakim-Dehe
				1075	Private	Agriculture	0.018	Govind Nr. Jha & Ramanjee Jha S/o-Lt.Boelal Jha & Kamal Jha Sakim-Dehe
				1074	Private	Agriculture	0.366	Lila Nand Choudhari & Jageshwar Choudhari S/o-Goberdhan Choudhari Lila Nand Choudhari & Jageshwar Choudhari S/o-Goberdhan Choudhari Lila Nand Choudhari & Jageshwar Choudhari S/o-Goberdhan Choudhari Shanker Choudhari S/o-Lt. Baleshwar Choudhari Pamanand Choudhari S/o-Lt.Lilnand Choudhari
				530	Government	Road	0.049	Bihar Govt.
				1145	Private	Agriculture	0.032	Raju Jha & Pamanand Jha S/o-Baidyanath Jha & Lt.Mohan Jha Sakim- Dehe
				426	Government	Road	0.018	Bihar Govt.
				524	Private	Agriculture	0.048	Dev Nr. Jha S/o-Lt.Pitamber Jha Ram Jha S/o-Lt.Jageshwar Jha Fanesher Jha S/o-Lt.Kapileshwar Jha
				505	Private	Agriculture	0.215	Amarnath JhaUrf -Ramanand Jha S/o- Lt.Bacha Jha Baldev Jha S/o-Lt.Kunibhari Jha
				503	Private	Agriculture	0.026	Dev Nr. Jha S/o-Lt.Pitamber Jha
				1181	Private	Agriculture	0.041	Binod Kr. Jha S/o-Lt.Gangadhar Jha

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1168	Private	Agriculture	0.047	Govind Nr. Jha S/o-Lt. Boelal Jha Sakim-Dehe Mangal Jha S/o-Lt. Balmukund Jha Sakim-Dehe Parmanand Jha S/o-Lt. Mohan Jha Sakim-Dehe Ramanjee Jha S/o-Lt. Kamal Jha Sakim-Dehe
				1160	Private	Agriculture	0.002	Mangal Jha S/o-Lt. Balmukund Jha Sakim-Dehe
				1144/1960	Private	Agriculture	0.024	Ramanjee Jha S/o-Lt. Kamal Jha Sakim-Dehe
				1094	Private	Agriculture	0.072	Lalanand Choudhari & Jageshwer Choudhari S/o-Goverdhan Choudhari
				504	Private	Agriculture	0.016	Ramdev Jha S/o- Kunjbihari Jha
				516	Private	Agriculture	0.081	Mo. Sangyan Devi W/o- Sitaram Jha and Others
				520	Private	Agriculture	0.021	Girjanand Jha S/o- Bismohan Jha
				973	Private	Agriculture	0.031	Laxman Jha S/o- Mahadev
				976	Private	Agriculture	0.017	Baldev Jha & Chandramohan Jha S/o- Kunjbihari Jha
				981	Private	Agriculture	0.035	Radheshyam Jha S/o- Ravikant Jha
				987	Private	Agriculture	0.120	Baidhnath Jha S/o- Kapildev Jha
				980	Private	Agriculture	0.016	Ravindra Nath Jha S/o- Ravikant Jha
				1071	Government	Road	0.039	Bihar Govt.
				1076	Private	Agriculture	0.012	Ramanjee Jha S/o-Lt. Kamal Jha Sakim-Dehe
				1077	Private	Agriculture	0.027	Ramanjee Jha S/o-Lt. Kamal Jha Sakim-Dehe
				1078	Private	Agriculture	0.002	Ramanjee Jha S/o-Lt. Kamal Jha Sakim-Dehe
				221	Private	Agriculture	0.025	Umakant Mishra & Subi Paswan S/o-Lt. Dilsudan Mishra & Lt. Kanchan Paswan Sakim-Dehe
				1079	Government	Road	0.004	Bihar Govt.
				1093	Government	Road	0.013	Bihar Govt.
				1095	Private	Agriculture	0.021	Bhikhari Sah & Lakir Sah S/o- Gunjan Sah
				1149	Private	Agriculture	0.002	Bhikhari Sah & Lakir Sah S/o- Gunjan Sah
				1155	Private	Agriculture	0.037	Domu Sah & Others S/o- Kari Sah
				1146	Private	Agriculture	0.010	Govind Narayan Jha S/o- Baou Lal Jha
				223	Private	Agriculture	0.071	Kameshwar Jha S/o- Mahanth Jha
				225	Private	Agriculture	0.009	Girjanand Jha S/o- Bismohan Jha
				226	Private	Agriculture	0.054	Yogendra Mishra S/o- Kewal Mishra
				228	Private	Agriculture	0.010	Sankara Nand Mishra S/o- Gurga Nand Mishra
				398	Private	Agriculture	0.002	Jaygovind Jha & Amrendra Nath Jha S/o- Dukhmochan Jha and Others
				399	Private	Agriculture	0.029	Ganesh Jha & Kari Jha S/o- Mandneshwar Jha
				406	Private	Agriculture	0.045	Chandra Khat Jha S/o- Babu Saheb Jha
				528	Private	Agriculture	0.134	Indra Narayan Jha S/o- Ram Krishan Jha
				508	Private	Agriculture	0.029	Mahadev Jha S/o- Parsuram Jha
				1163	Private	Agriculture	0.175	Govind Narayan Jha S/o- Baou Lal Jha
				1164	Private	Agriculture	0.085	Baidhnath Jha S/o- Kapildev Jha
				1152	Private	Agriculture	0.058	Bhikhari Sah & Lakir Sah S/o- Gunjan Sah
				1153	Private	Agriculture	0.008	Bhikhari Sah & Lakir Sah S/o- Gunjan Sah

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1154	Private	Agriculture	0.001	Mangal Jha S/o-Lt. Balmukund Jha Sakim-Dehe
				1156	Private	Agriculture	0.020	Mangal Jha S/o-Lt. Balmukund Jha Sakim-Dehe
				1113	Private	Agriculture	0.009	Shiv Shankar Rai S/o- Tirpit Rai
				1114	Private	Agriculture	0.008	Shiv Shankar Rai S/o- Tirpit Rai
				1080	Private	Agriculture	0.049	Shiv Shankar Rai S/o- Tirpit Rai
				1091	Private	Agriculture	0.013	Bechan Jha S/o- Suweshwar Jha
				1096	Private	Agriculture	0.119	Bechan Jha S/o- Suweshwar Jha
				239	Private	Agriculture	0.047	Kari Jha S/o- Sonai Jha
			(7) Sameya	772	Private	Agriculture	0.020	Shanker Chaudhary S/o-Lt. Baleshwar Chaudhary Jageshwar Chaudhary S/o-Lt. Goverdhan Chaudhary
				773	Private	Agriculture	0.016	Jageshwar Chaudhary S/o-Lt. Goverdhan Chaudhary Bhogi Chaupal S/o-Lt. Batau Chaupal & Dinesh Chaupal S/o-Paltan Chaupal & Sanjay Chaupal S/o-Sukhdev Chaupal & Ravi Chaupal S/o-Kalar Chaupal Sukhdev Chaupal
				774	Private	Non-Agriculture	0.069	Bhogi chaupal s/o Batau Chaupal, Dinesh Chaupal s/o Paltan Chaupal, Sanjay Chaupal s/o Sukhdeo Chaupal and Ravi Chaupal s/o Kalar Chaupal.
				775	Government	Road	0.085	Biher Govt.
				954	Private	Non-Agriculture	0.344	Krishnanand Chaudhary S/o-Lt. Lalanand Chaudhary Asharfi Sah S/o-Govind Sah Masomat Ghumi Jouje- Fallu Chaupal & Bouku Chaupal S/o-Lt. Kalar Chaupal Bhola Chaupal & Gulay Chaupal S/o-Lt. Kalar Chaupal & Bouku Chaupal Ravi Chaupal S/o-Kalar Chaupal & Raju Chaupal S/o-Ravi Chaupal Mahindra Chaupal & Sutu Chaupal S/o-Lt. Jibachh Chaupal Ravi Chaupal & Raju Chaupal & Bhola Chaupal S/o-Kalar Chaupal & Gulay Chaupal S/o-Lt. Bouku Chaupal Ram Saday S/o-Lt. Mangal Saday & Bhikhar Saday S/o-Sri Ram Saday & Bindeshwar Saday S/o-Matar Saday Masomat Sagiya jouje-Tetar Saday Masomat Niro Jouje -Lt. Indralal Saday & Lakhan Saday S/o- Lali Saday
				956	Private	Agriculture	0.024	Laxmi Saday S/o-Lt. Jokhan Saday
				955	Private	Agriculture	0.036	Bihay Kumar Jha S/o- Tej Narayan Jha
				924	Private	Agriculture	0.044	Bouan Saday S/o-Lt. Bahadur Saday
				925	Private	Agriculture	0.036	Lalu Jha S/o- Ramdev Jha
				926	Private	Non-Agriculture	0.024	Lochan Saday S/o-Bhaday Saday Harishchandra Jha S/o-Lt. Shivnamdan Jha
				962	Private	Agriculture	0.048	Harishchandra Jha S/o- Shivmohan Jha
				960	Private	Agriculture	0.019	Laxmi Saday S/o-Lt. Jokhan Saday
				922	Private	Agriculture	0.002	Bihay Kumar Jha S/o- Tej Narayan Jha
				923	Private	Agriculture	0.006	Bouan Saday S/o-Lt. Daur Saday
				920	Private	Agriculture	0.008	Bouan Saday S/o-Lt. Daur Saday
				961	Private	Agriculture	0.024	Ayodhi Sadai S/o- Sanyug Sadai
				916	Private	Agriculture	0.004	Dhirendra Nr. Jha S/o-Lt. Surendra Nr. Jha
				915	Private	Agriculture	0.089	Rajendra Nr. Jha S/o-Lt. Indra Jha Raghvendra Jha S/o-Lt. Durganand Jha Sakim-Dehe

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				911	Private	Agriculture	0.057	Lakhan Jha S/o-Lt. Ratinath Jha Sakim-Dehe
				913	Private	Agriculture	0.052	Lakhan Jha S/o-Lt. Ratinath Jha Sakim-Dehe
				912	Private	Agriculture	0.006	Raghvendra Jha S/o- Durga Narayan Jha
				1012	Private	Agriculture	0.002	Raghvendra Jha S/o- Durga Narayan Jha
				1310	Private	Agriculture	0.020	Raghvendra Jha & Nagendra Jha S/o-Lt. Durganand Jha & Lt. Indra Nr. Jha Sakim-Dehe
				1054	Government	Road	0.020	Bihar Govt.
				1104	Private	Agriculture	0.117	Parmanand Jha S/o-Lt. Gangadhar Jha
				1105	Private	Agriculture	0.041	Parmanand Jha S/o-Lt. Gangadhar Jha
				1106	Private	Agriculture	0.038	Parmanand Jha S/o-Lt. Gangadhar Jha
				1111	Private	Agriculture	0.080	Md. Rojay S/o-Lt. Ishaq Sakim-Dehe
				1116	Private	Agriculture	0.014	Uday Chandra Jha S/o-Lt. Surya Nr. Jha Sakim-Dehe Lalit Nr. Jha S/o-Lt. Nr. Jha Sakim-Dehe
				1313	Government	Agriculture	0.065	Bihar Govt.
				1048	Private	Agriculture	0.162	Devendra Nr. Jha S/o-Lt. Ludit Nr. Jha Sakim- Dehe
				1047	Private	Agriculture	0.008	Subhash Chandra Jha S/o-Lt. Ramchandra Jha
				1046	Private	Agriculture	0.059	Lakhan Jha S/o-Lt. Ratinath Jha Sakim-Dehe
				1043	Private	Agriculture	0.182	Uday Chandra Jha S/o-Lt. Surya Nr. Jha Sakim-Dehe Lalit Nr. Jha S/o-Lt. Nr. Jha Sakim-Dehe
				1053	Government	Road	0.020	Bihar Govt.
				1025	Private	Agriculture	0.115	Uday Chandra Jha S/o-Lt. Surya Nr. Jha Sakim-Dehe Ganga Nath Jha Kiru Thakur S/o-Lt. Narayan Thakur
				1028	Private	Agriculture	0.008	Bahru Mandal S/o-Lt. Vaglu Mandal
				1026	Private	Agriculture	0.152	Lalit Nr. Jha S/o-Lt. Nr. Jha Sakim-Dehe
				1052	Private	Agriculture	0.006	Asharfi Sah S/o-Govind Sah
				1027	Private	Agriculture	0.177	Uday Chandra Jha S/o-Lt. Surya Nr. Jha Sakim-Dehe Harischandra Jha
				1030	Private	Agriculture	0.036	Uday Chandra Jha S/o-Lt. Surya Nr. Jha Sakim-Dehe
				1044	Private	Agriculture	0.024	Uday Chandra Jha S/o-Lt. Surya Nr. Jha Sakim-Dehe
				1041	Private	Agriculture	0.016	Uday Chandra Jha S/o-Lt. Surya Nr. Jha Sakim-Dehe
				963	Private	Agriculture	0.037	Bouan Saday S/o-Lt. Dahur Saday
				1042	Private	Agriculture	0.040	Krishchand Jha S/o- Jay Narayan Jha
				1045	Private	Agriculture	0.018	Uday Chandra Jha S/o-Lt. Surya Nr. Jha Sakim-Dehe
				1088	Government	River	0.059	Bihar Govt.
				1091	Private	Agriculture	0.062	Derendra Nr. Jha S/o- Surendra Nr. Jha
				1108	Private	Agriculture	0.006	Balskant Jha S/o- Madhu Jha
				1103	Private	Agriculture	0.320	Lilaraman Jha S/o- Ram Swrup Jha
				1102	Private	Agriculture	0.022	Tetal Paswan S/o- Chukan Paswan
				1107	Private	Agriculture	0.007	Krishan Nr. Jha S/o- Anand Nr. Jha
				1112	Private	Agriculture	0.008	Ashok Kumar Jha & Raj Kumar Jha S/o- Laxmikant Jha
			(8) Balni Mehath	1571	Government	Road	0.081	Bihar Govt.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2351	Private	Agriculture	0.036	Girja Jha W/o- Balidnath Jha Salish Jha & Sudhir Jha & Bawan Jha S/o- Late Fekan Jha
				1689	Government	Road	0.086	Bihar Govt.
				2204	Private	Agriculture	0.172	Gauri Kant Jha S/o- Udit Nr. Jha
				2203	Private	Agriculture	0.014	Raju Mandal S/o- Janak Mandal
				2227	Private	Agriculture	0.036	Saryug Mandal S/o- Katar Mandal Kamlesh Jha S/o- Pulkit Jha
				2225	Private	Agriculture	0.118	Indra Kant Jha & Ramudgar Jha & Ramkumar Jha & Ramesh Jha S/o- Krishan Dev Jha
				1572	Private	Agriculture	0.002	Raghuvansh Mishra S/o- Mahaveer Mishra
				2195	Private	Agriculture	0.065	Krit Nr. Jha S/o- Vednarayan Jha
				2196	Private	Agriculture	0.074	Harishchandra Jha, Jaychandra Jha, Laddu & Suresh Jha S/o- Dukhmochan Jha
				2199	Private	Agriculture	0.069	Ramkhelun Thakur S/o- Ashrfi Thakur
				2206	Private	Agriculture	0.037	Ashok Jha S/o- Trioki Nath Jha
				2207	Private	Agriculture	0.149	Indra Kant Jha & Ramudgar Jha & Ramkumar Jha & Ramesh Jha S/o- Krishan Dev Jha
				2213	Private	Agriculture	0.083	Motilal Jha S/o- Ajit Jha
				2214	Private	Agriculture	0.001	Saryug Yadav S/o- Dani Yadav
				2229	Private	Agriculture	0.131	Saryug Yadav S/o- Dani Yadav
				2231	Private	Agriculture	0.012	Ramkhelun Thakur S/o- Ashrfi Thakur and Others
				2337	Private	Agriculture	0.013	Binod Jha S/o- Bisheshwar Jha and Others
				2338	Private	Agriculture	0.024	Binod Jha S/o- Bisheshwar Jha and Others
				2340	Private	Agriculture	0.084	Binod Jha S/o- Bisheshwar Jha and Others
				2341	Private	Agriculture	0.122	Girja Jha W/o- Badrinath Jha
				2208	Private	Agriculture	0.055	Girja Jha W/o- Badrinath Jha
				2209	Private	Agriculture	0.016	Girja Jha W/o- Badrinath Jha
			(9) Partap Pur	27	Government	Agriculture	0.064	Bihar Govt.
				252	Government	Agriculture	0.190	Kamlesh Jha S/o- Lt. Pulkit Jha Sakim-Mehath Ramakhan Yadav S/o- Lt. Dasay Yadav Sakim- Mehath Mahendra Jha S/o- Lt. Fakir Jha Sakim-Mehath Parmanand Jha S/o- Lt. Jugdev Jha Sakim- Mehath Ram Nr. Yadav S/o- Lt. Dasay Yadav Sakim- Mehath
				28	Private	Agriculture	0.044	Krishna Kishore Thakur S/o- Lt. Dev Nr. Thakur
				29	Private	Agriculture	0.182	Adyanath Jha & Navonath Jha & Chandra Kr. Thakur S/o- Lt. Baava Jha & Lt. Udit Jha & Lt. Dev Nr. Thakur Sakim-Partapur
				5	Private	Agriculture	0.072	Masomat Santi Devi Jouje- Lt. Nr. Jha Sakim-Partapur
				33	Private	Agriculture	0.020	Prabhaskr. Jha S/o- Rambahadur Jha
				30	Private	Agriculture	0.062	Brj Kishore Thakur S/o- Lt. Dev Nr. Thakur
				31	Private	Agriculture	0.049	Ganesh Mandal S/o- Sukhdev Mandal Sakim-Mehath Brj Kishore Thakur S/o- Lt. Dev Nr. Thakur
				32	Private	Agriculture	0.182	Satish Kr. Jha & Sudhir Kr. Jha & Shravan Kr. Jha S/o- Lt. Fekan Jha

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				68	Private	Agriculture	0.153	Anare Devi Jouje-Parmarand Jha Basudev yadav S/o-Lt. Lalji yadav, Sakim- Mehath Basudev yadav S/o-Lt. Lalji yadav, Sakim- Mehath Dukhi yadav S/o-Lt. Laxmi yadav, Sakim- Mehath
				69	Private	Agriculture	0.036	Bhuvneshwar yadav S/o-Lt. Bhalu yadav, Mehath -Navtoli
				70	Private	Agriculture	0.004	Hemansu Shekhan Thakur S/o- Subhaglal Thakur
				2	Private	Agriculture	0.008	Prabhash Kr. Jha S/o-Rambahadur Jha
				4	Private	Agriculture	0.309	Ramprasad Yadav & Ramlakhan Yadav S/o- Dasai Yadav And Others
				42	Private	Agriculture	0.056	Abhinakaran Thakur S/o- Ramdatt Thakur
				38	Private	Agriculture	0.057	Abhinakaran Thakur S/o- Ramdatt Thakur
				36	Private	Agriculture	0.126	Manoj Jha S/o- Permanand Jha
				37	Private	Agriculture	0.008	Parbin Kumar Jha S/o- Tara Kant Jha
				63	Government	Agriculture	0.326	Bihar Govt.
				67	Private	Agriculture	0.012	Bhuvneshwar yadav S/o-Lt. Bhalu yadav, Mehath -Navtoli
		(10) Kanholi		386	Private	Agriculture	0.192	Jibachh Mukhiya S/o-Lt. Budhan Mukhiya Sakim-Dehe Chaudhary Yadav S/o-Lt. Sitaran Yadav Sakim-Dehe Shobhi Yadav S/o-Lt. Sitaran Yadav Sakim- Dehe Kusheshwar Yadav S/o-Lt. Sunnar Yadav Sakim-Dehe
				387	Private	Agriculture	0.136	Jagdev Yadav & Bouku Yadav Basudev Yadav & Laxman Yadav Pradeep Yadav S/o-Lt. Dhani Yadav & Lt. Laljee yadav & Laxmi Yadav Sakim-Dehe
				389	Private	Agriculture	0.008	Shobhi Yadav & Bauetel Yadav & Prabhu Yadav S/o-Lt. Sitaran Yadav Sakim-Dehe Swaroop Yadav S/o-Lt. Bhullar Yadav Sakim- Dehe
				386	Private	Agriculture	0.374	Bikan Yadav S/o-Lt. Sunnar Yadav Sakim- Dehe Bikan Yadav S/o-Lt. Sunnar Yadav Sakim- Dehe Maheshwer Yadav S/o-Lt. Bisho Yadav Sakim- Dehe Jay Nr. Jha S/o-Lt. Shiv Shanker Jha Sakim- Dehe Panchnath Mukhiya S/o-Lt. Muneshwer Mukhiya Sakim-Dehe Basudev Yadav S/o-Lt. Laljee Yadav Sakim- Dehe Pradeep yadav S/o-Lt. Laxmi Yadav Sakim- Dehe Jagdev Yadav & Sahdev Yadav S/o-Lt. Dhani Yadav Sakim-Dehe
				387	Private	Agriculture	0.006	Ram Lakhan Yadav S/o-Lt. Dasay Yadav Sakim-Dehe
				387	Private	Agriculture	0.042	Malvar Yadav S/o-Lt. Gareeb Yadav Sakim-Dehe Boudhu Yadav S/o-Lt. Chhedi Yadav Sakim-Dehe
				386	Private	Agriculture	0.072	Maheshwer Yadav & Malvar Yadav S/o-Lt. Bisho Yadav & Gareeb Yadav Sakim- Dehe
				385	Private	Agriculture	0.320	Kishun Lal Sah S/o-Lt. Anuplal Sah Saryug Yadav & Jagdev Yadav & Sahdev Yadav S/o- Lt. Dhani Yadav Sakim-Dehe
				359	Government	Road	0.028	Bihar Govt.
				151	Private	Agriculture	0.256	Rajendra Jha S/o-Lt. Kantir Jha Sakim-Dehe
				348	Private	Agriculture	0.012	Md. Ikbal S/o-Md. Shiraj Sakim-Dehe

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				344	Private	Agriculture	0.049	Md. Idrish & Noor Hasan S/o-Lt. Md. Abdul & Lt. Ibrahim Sakim-Dehe
				343	Private	Agriculture	0.197	Mahaveer Sahu S/o-un-Known Sakim-Dehe
				271	Private	Agriculture	0.132	Rajendra Jha S/o-Lt. Ramakant Jha Sakim-Dehe
				272	Private	Agriculture	0.137	Kudush Ansari S/o-Lt. Hakim-Ansari Sakim-Dehe Yusuf Ansari & Md. Ilyas & Md. Abbas & Abdul Jabbar S/o-Habeb Ansari Sakim-Dehe
				273	Private	Agriculture	0.036	Uttim Ansari S/o-Lt. Gonar Ansari Sakim-Dehe
				275	Private	Agriculture	0.010	Uttim Ansari S/o-Lt. Gonar Ansari Sakim-Dehe
				280	Private	Agriculture	0.036	Atim Ansari S/o-Lt. Genour Sakim-Dehe
				1292	Private	Agriculture	0.072	Md. Suleman Ansari S/o-Lt. Liyakat Ansari & Abdul Kudush Ansari S/o-Lt. Abdul Hakim-Ansari Sakim-Dehe
				1293	Private	Agriculture	0.012	Chandeshwer Thakur S/o-Sundar Thakur Sakim-Dehe
				1314	Private	Agriculture	0.040	Md. Kuddush S/o-Lt. Hakim Ansari Sakim-Dehe
				2888	Private	Agriculture	0.012	Hari Narayan Jha S/o- Sarve Nr. Jha Sudhakar Jha S/o- Muni Jha Laxmi Nr. Jha S/o- Shibashwar Jha
				1604	Private	Agriculture	0.112	Ram Lakhan Mahto S/o- Shichen Mahto Arjun Mahto S/o- Surat Lal Mahto Sri Lal Mahto S/o- Kisan Lal Mahto
				296	Government	Kamla River	0.080	Bihar Govt.
				81	Private	Agriculture	0.038	Nirpendra Jha, Arjun Jha & Others S/o-Banukant Jha Pawan Jha S/o- Bhandra Jha
				79	Government	Kamla River	0.006	Bihar Govt.
				1315	Private	Agriculture	0.087	Jindra Kant Prasad S/o-Lt. Yadunandan Sah Sakim-Dehe Rambhais Mahto & Ramdular Mahto & Ramsevak Mahto S/o-Baldev Mahto
				1324	Private	Agriculture	0.034	Baidyanath Mahto S/o-Lt. Ramawrup Mahto Sakim-Dehe Amna Khatun Jouje-Suleman Ansari
				1325	Private	Agriculture	0.224	Md. Mahiuddin Ansari S/o-Yatim Ansari Sakim-Dehe
				1329	Private	Agriculture	0.106	Md. Shabir Ali S/o-Lt. Islam Ansari Sakim-Dehe Islam Shekh S/o-Shekh Jahiuddin Sakim-Dehe Jehangir Shekh S/o-Shekh Asaruddin Sakim-Dehe
				1331	Private	Agriculture	0.024	Dabir S/o-Lt. Ibrahim Sakim-Dehe Md. Idrish S/o-Lt. Abdul Sakim-Dehe
				1182	Private	Agriculture	0.196	Ramlakhan Mahto S/o-Lt. Chhatrar Mahto Sakim-Pipra Shivram Mahto & Rampraveesh Mahto S/o-Ram Nr. Mahto Mahrail Md. Shabir Ali & Md. Mahiuddin S/o-Lt. Islam Ansari & Yatim Ansari Sakim-Dehe Md. Modiuiddin S/o-Atim Ansari Sakim-Dehe
				1184	Government	Road	0.063	Bihar Govt.
				1183	Government	Road	0.143	Noor Hasan & Md. Ehsan S/o-Md. Ibrahim & Abdul Rashid Dabir S/o-Lt. Ibrahim Sakim-Dehe Dulare S/o-Lt. Md. Ibrahim Sakim-Dehe Abul Hasan S/o-Lt. Md. Ibrahim Sakim-Dehe
				1554	Private	Agriculture	0.032	Suleman Ansari S/o-Lt. Liyakat Ansari Sakim-Dehe

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1803	Private	Agriculture	0.325	Ram Pd. Mahto S/o-Lt. Gangay Mahto Sakim-Maheshpura Uttam Lal Mahto S/o-Lt. Gangay Mahto Sakim-Maheshpura
				1807	Private	Agriculture	0.058	Udit Nr. Jha S/o-Lt. Kan Jha Sakim-Dehe
				1808	Government	Road	0.042	Bihar Govt.
				1808	Private	Agriculture	0.020	Ganesh Mahto S/o-Lt. Gangay Mahto Sakim-Maheshpura
				1818	Private	Agriculture	0.008	Rajendra Jha & Surendra Jha S/o-Kantir Jha Sakim-Dehe
				1814	Private	Agriculture	0.045	Rajendra Jha & Surendra Jha S/o-Kantir Jha Sakim-Dehe
				1712	Private	Agriculture	0.072	Bihar Govt.
				1713	Private	Agriculture	0.328	Naresh Jha S/o-Lt. Narayan Jha Sakim-Dehe Ganesh Jha S/o-Lt. Narayan Jha Sakim-Dehe Nripendra Jha & Arjun Jha & Kalikant Jha & Durganand Jha S/o-Lt. Bishnukant Jha & Pawan Kr. Jha S/o- Bijendra Jha
				1717	Private	Agriculture	0.008	Meenu Jha Jouje -Kalikant Jha Sakim-Dehe
				1826	Private	Agriculture	0.004	Nripendra Jha & Arjun Jha & Kalikant Jha & Durganand Jha S/o-Lt. Bishnukant Jha & Pawan Kr. Jha S/o- Bijendra Jha Sakim-Dehe
				1824	Private	Agriculture	0.004	Suresh Nr. Jha S/o-Lt. Bulan Jha
				1768	Private	Agriculture	0.014	Bachi Devi Jouje Lt. Ramesh Jha Sakim-Dehe
				1739	Private	Agriculture	0.036	Suresh Nr. Jha S/o-Lt. Purandhar Jha Sakim-Dehe
				1736	Private	Agriculture	0.034	Suresh Nr. Jha S/o-Lt. Bulan Jha
				1737	Private	Agriculture	0.033	Suresh Nr. Jha S/o-Lt. Bulan Jha
				1734	Private	Agriculture	0.028	Sudhaker Jha S/o-Lt. Munay Jha Sakim-Dehe Anil Kr. Jha
				1749	Private	Agriculture	0.038	Bihar Govt.
				2867	Private	Agriculture	0.008	Sudhaker Jha S/o-Lt. Munay Jha Sakim-Dehe
				380	Private	Agriculture	0.228	Jibachh Mukhiya S/o- Budhan Mukhiya and Others
				379	Private	Agriculture	0.097	Bhuvneshwar Yadav S/o- Bhalu Yadav
				383	Private	Agriculture	0.083	Md. Sabir Ali & Md. Badruddin & Md. Ayub S/o- Late Asgar Ali
				359	Government	Road	0.028	Bihar Govt.
				360	Private	Agriculture	0.126	Hare Krishan Yadav S/o- Ashrfi Yadav
				233	Private	Agriculture	0.115	Ram Bilash Mahto S/o- Baldev Mahto
				232	Private	Agriculture	0.049	Nripendra Jha & Arjun Jha S/o- Bishnukant Jha
				230	Private	Agriculture	0.012	Ram Bilash Mahto S/o- Baldev Mahto
				228	Private	Agriculture	0.166	Md. Ikbal S/o-Md. Shiraj Sakim-Dehe
				78	Government	Kamia River	0.028	Bihar Govt.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				77	Government	Karnia River	0.008	Bihar Govt.
				353	Private	Agriculture	0.128	Nirpendra Jha, Arjun Jha & Others S/o- Bisnukant Jha
				354	Private	Agriculture	0.180	Ramsarup Yadav S/o- Bhular Yadav
				247	Private	Agriculture	0.008	Ramsarup Yadav S/o- Bhular Yadav
				248	Private	Agriculture	0.112	Dasrath Nayak S/o- Parmeshwar Nayak
				284	Private	Agriculture	0.090	Jibachh Mahto S/o- Laxman Mahto
				283	Private	Agriculture	0.034	Yusuf Mansuri S/o- Late Habib Mansuri
				282	Private	Agriculture	0.448	Jabbar Mansuri S/o- Habib Mansuri
				281	Private	Agriculture	0.100	Md. Esrafil S/o- Md. Eliyash
				280	Private	Agriculture	0.100	Abdul Kuddush S/o- Abdul Hakim
				1289	Private	Agriculture	0.020	Md. Saluddin S/o- Md. Eshmal Ansari
				1288	Private	Agriculture	0.030	Md. Yashim S/o- Md. Eshmal
				1287	Private	Agriculture	0.088	Baidmath Mahto S/o- Ramsarup Mahto
				1286	Private	Agriculture	0.052	Abdul Rahman Mansuri S/o- Md. Jail
				1285	Government	Road	0.028	Abdul Kuddush S/o- Abdul Hakim
				1284	Private	Agriculture	0.036	Bihar Govt.
				1283	Private	Agriculture	0.138	Ram Blesha Mahto S/o- Baldev Mahto
				1282	Private	Agriculture	0.088	Abdul Kuddush S/o- Abdul Hakim
				1281	Private	Agriculture	0.036	Jebun Nisha W/o- Shamshul Haque
				1278	Private	Agriculture	0.036	Md. Sabir Ali & Md. Badruddin & Md. Ayub S/o- Late Asgar Ali
				1277	Private	Agriculture	0.088	Md. Sabir Ali & Md. Badruddin & Md. Ayub S/o- Late Asgar Ali
				1276	Private	Agriculture	0.004	Hamida Khatun W/o- Md. Idrish
				1330	Private	Agriculture	0.122	Md. Sabir Ali & Md. Badruddin & Md. Ayub S/o- Late Asgar Ali
				1456	Private	Agriculture	0.010	Md. Dulare S/o- Md. Ebrahim
				1182	Private	Agriculture	0.054	Md. Sabir Ali S/o- Eslam Ansari
				1548	Private	Agriculture	0.194	Md. Sabir Ali S/o- Eslam Ansari
				1547	Private	Agriculture	0.016	Mumtaj Ali and Others S/o- Tasdik Husain
				1546	Private	Agriculture	0.022	Mumtaj Ali and Others S/o- Tasdik Husain
				1544	Private	Agriculture	0.024	Mumtaj Ali and Others S/o- Tasdik Husain
				1543	Private	Agriculture	0.010	Suleman Ansari S/o- Lt. Liyakat Ansari Sakim-Dehe
				1542	Private	Agriculture	0.008	Md. Atin Ansari S/o- Gnaur Ansari
				1620	Private	Agriculture	0.080	Abdul Ansari S/o- Husain Ansari Gokul Mahto S/o- Janak Mahto and Others
				1601	Private	Agriculture	0.090	Ram Prasad Mahto S/o- Ganga Mahto
					Private	Agriculture	0.042	Ram Prasad Mahto S/o- Ganga Mahto

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1804	Private	Agriculture	0.048	Arjun Mahto S/o- Surat Lal Mahto
				1805	Private	Agriculture	0.044	Ram Prasad Mahto S/o- Ganga Mahto
				1810	Private	Agriculture	0.172	Ganesh Mahto S/o-Lt. Gangay Mahto Sakim-Maheshpura
				1816	Private	Agriculture	0.038	Uttim Lal Mahto S/o- Ganag Mahto
				1833	Private	Agriculture	0.022	Sunil Jha and Others S/o- Bhuneshwar Jha
				1832	Private	Agriculture	0.018	Sunil Jha and Others S/o- Bhuneshwar Jha
				1781	Private	Agriculture	0.001	Umakant Sah S/o- Shivanandan Sah
				352	Government	Kamla River	0.064	Bihar Govt.
				351	Private	Agriculture	0.038	Md. Sabir Ali & Md. Badruddin & Md. Ayub S/o-Lt. Asgar Ali Sakim-Dehe
				350	Private	Agriculture	0.024	Md. Sabir Ali & Md. Badruddin & Md. Ayub S/o-Lt. Asgar Ali Sakim-Dehe
				1792	Private	Agriculture	0.052	Indra Kant Prasad S/o-Lt. Yadunandan Sah Sakim-Dehe
				1790	Private	Agriculture	0.016	Indra Kant Prasad S/o-Lt. Yadunandan Sah Sakim-Dehe
				1789	Private	Agriculture	0.004	Mennu Jha W/o- Jaykant Jha
				1793	Private	Agriculture	0.112	Nirpendra Jha & Arjun Jha S/o- Bisnukant Jha
				1764	Private	Agriculture	0.022	Nirpendra Jha & Arjun Jha S/o- Bisnukant Jha
				1767	Private	Agriculture	0.018	Nirpendra Jha & Arjun Jha S/o- Bisnukant Jha
				1772	Private	Agriculture	0.008	Ashok Kumar Jha S/o- Ramakant Jha
				1770	Private	Agriculture	0.015	Nirpendra Jha & Arjun Jha S/o- Bisnukant Jha
				1786	Private	Agriculture	0.012	Ashok Kumar Jha S/o- Ramakant Jha
				1671	Private	Agriculture	0.012	Ashok Kumar Jha S/o- Ramakant Jha
				1757	Private	Agriculture	0.010	Tejnarayan Jha S/o- Shyam Jha
				1756	Private	Agriculture	0.007	Swarnrekha Jha W/o- Tejnarayan Jha
				1742	Private	Agriculture	0.210	Rajendra Jha S/o- Kantir Jha
				1743	Private	Agriculture	0.018	Suresh Narayan Jha S/o- Purudar Jha
				1744	Private	Agriculture	0.040	Suresh Narayan Jha S/o- Purudar Jha
				1738	Private	Agriculture	0.144	Bachi Devi Jouje Lt. Ramesh Jha Sakim-Dehe
				1866	Private	Agriculture	0.025	Hari Narayan Jha S/o- Serve Nr. Jha
				1865	Private	Agriculture	0.058	Raghubar Jha S/o- Ganeshwar Jha
				1864	Private	Agriculture	0.002	Kamal Narayan Jha S/o- Shyam Jha
		(11) Maheshpura		527	Government	Road	0.024	Bihar Govt.
				539	Private	Agriculture	0.132	Chandeshwar Mahto S/o-Shiv Nr. Mahto Lal Agrawal S/o-Lt. Shiv Nr. Mahto
				543	Private	Agriculture	0.055	Mahadev Mahto S/o-Lt. Babujee Mahto
				544	Private	Agriculture	0.062	Rabi Mahto Sakim-Maheshpura

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				545	Private	Agriculture	0.039	Lalu Mahto S/o-Lt. Krishna Lal Mahto
				548	Private	Agriculture	0.008	Lalu Mahto S/o-Lt. Krishna Lal Mahto
				549	Government	Road	0.008	Biher Govt.
				550	Private	Agriculture	0.041	Suddin Mahto S/o-Lt. Bhayaram Mahto
				525	Private	Agriculture	0.008	Ramdev Mahto S/o- Ramsharan Mahto
				528	Private	Agriculture	0.039	Kuddush Ansari S/o- Hakim Ansari
				538	Private	Agriculture	0.117	Chandeshwar Mahto S/o- Mukundlal Mahto
				540	Private	Agriculture	0.130	Ravi Mahto S/o- Babujee Mahto
				541	Private	Agriculture	0.004	Juber Alam S/o- Md. Kashim
				542	Private	Agriculture	0.258	Md. Moudin Ansari S/o- Husein Ansari
			(12) Mohana	158	Private	Agriculture	0.012	Dhruv Nr. Jha S/o-Lt. Kameshwar Jha
				162	Private	Agriculture	0.004	Pramod Jha S/o-Lt. Jatesh Jha
				177	Private	Agriculture	0.004	Amarnath Jha S/o-Lt. Mod. Nr. Jha
				288	Private	Agriculture	0.004	Shabhikant Jha S/o-Lt. Omkant Jha
				289	Private	Agriculture	0.044	Shabhikant Jha S/o-Lt. Omkant Jha
				292	Government	Road	0.018	Biher Govt.
				290	Private	Agriculture	0.036	Rajendra Jha S/o-Lt. Kari Jha Birendra Jha S/o-Lt. Bochan Jha Nirmal Kr. Jha S/o-Lt. Fudan Jha
				308	Government	Pond	0.089	Biher Govt.
				309	Private	Agriculture	0.055	Dhruv Nr. Jha S/o-Lt. Kameshwar Jha
				311	Government	Road	0.012	Biher Govt.
				312	Private	Agriculture	0.021	Dhairya Nr. Jha S/o-Lt. Upendra Jha
				310	Government	Road	0.021	Biher Govt.
				315	Private	Agriculture	0.016	Ramdhari Jha S/o-Lt. Mochan Jha
				157	Private	Agriculture	0.359	Keshaw Jha S/o- Chitradhir Jha
				161	Government	Road	0.065	Biher Govt.
				298	Private	Agriculture	0.046	Rajendra Jha S/o-Lt. Kari Jha Fudan Jha S/o- Lt. Kari Jha
				296	Government	Road	0.022	Biher Govt.
				294	Private	Agriculture	0.043	Govind Jha S/o- Saurav Jha
				293	Private	Agriculture	0.084	Devbart Lal Das S/o- Balgovind Lal Das
				291	Private	Agriculture	0.157	Shabhikant Jha S/o-Lt. Omkant Jha
				306	Government	Nala	0.014	Biher Govt.
				305	Private	Agriculture	0.006	Ram Chander Jha S/o- Thakur Jha
				304	Private	Agriculture	0.016	Ram Chander Jha S/o- Thakur Jha
				342	Government	Nala	0.019	Biher Govt.
				307	Private	Agriculture	0.009	Nirmal Kumar Jha S/o- Fudan Jha
				344	Private	Agriculture	0.014	Kamal Kant Jha S/o- Jaytesh Jha
			(13) Simra	302	Private	Agriculture	0.132	Devvrat Lal Das S/o-Lt. Sukhi Lal Das
				308	Private	Agriculture	0.020	Buchan Kamati S/o-Lt. Nevi Kamati Sakim- Dehe
				2158	Private	Agriculture	0.012	Veda Das Dhruva Nr. Jha S/o-Kameshwar Jha
				311	Private	Agriculture	0.008	Ramanandan Mishra
				2165	Private	Agriculture	0.020	Baidhnath Mishra S/o- Sobhakant Mishra

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2188	Private	Agriculture	0.004	Baidhnath Mishra S/o- Sobhakant Mishra
				303	Private	Agriculture	0.074	Devendra Lal Das S/o- Sukhi Lal Das
				304	Private	Agriculture	0.113	Devendra Lal Das S/o- Sukhi Lal Das
				319	Private	Agriculture	0.072	Sri Jha S/o- Kari Jha
				309	Private	Agriculture	0.036	Sri Jha S/o- Kari Jha
				310	Private	Agriculture	0.015	Jagamath Jha S/o- Kari Jha
				2142	Private	Agriculture	0.820	Bharat Kern S/o- Baidhnath Kern
				2159	Private	Agriculture	0.048	Raghu Kern S/o- Biso Kern
				2157	Government	Irrigation	0.081	Biha Govt.
				2152	Private	Agriculture	0.016	Chimjeev Jha S/o- Chunni Jha
				2148	Government	Agriculture	0.019	Biha Govt.
				2149	Private	Agriculture	0.002	Dhar Lal Das
				324	Private	Agriculture	0.004	Badridas S/o- Kamal Nr. Das & Vedanand Das S/o- Nabal Kishore Das
				326	Private	Agriculture	0.28	Rajindralal Das S/o-Harigovind Das Sakim-Simra
				1033	Private	Non-Agriculture	0.058	Krishna Kr. Kam S/o-Shiv Nr. Das Sakim-Simra, Dorik Thakur S/o-Kishun Thakur Sakim-Simra and Chandrika Devi W/o-Chandrakant Das Sakim-Simra
				1054	Private	Agriculture	0.02	Bharti Devi W/o-Sarva Nr. Das Sakim-Simra and Krishna Kr. Kam S/o-Shiv Nr. Das Sakim-Simra and Bishwanath Das S/o-Rajnath Das Sakim-Simra
				1042	Private	Agriculture	0.06	Shailendra Kr. Kam S/o-Chandra Nr. Das Sakim-Simra, Krishna Murari Kam S/o-Radha Raman Kam Sakim-Simra and Krishna Murari Kam S/o-Radha Raman Kam Sakim-Simra
				1053	Private	Agriculture	0.016	Shailendra Kr. Kam S/o-Chandra Nr. Das Sakim-Simra and Krishna Murari Kam S/o-Radha Raman Kam Sakim-Simra
				1047	Private	Agriculture	0.024	Gourikant Das & Ratikant Das S/o-Shiv Shanker Das & Mosmat Urmila Devi W/o-Bijaykant Das Sakim-Simra
				1043	Private	Agriculture	0.024	Gourikant Das & Ratikant Das S/o-Shiv Shanker Das & Mosmat Urmila Devi W/o-Bijaykant Das Sakim-Simra
				1046	Private	Agriculture	0.02	Badnath Jha S/o Sobhakant Jha and Krishna Kr. Kam & Dharendra Kr. Kam S/o-Shiv Nr. Das & Bishwanath Das S/o-Raj Nr. Das & Bharti Devi W/o- Sarva Nr. Das & Krishna Murari Kam S/o-Radha Raman Kam & Soundra Kr. Kam S/o-Chandra Nr. Das Sakim-Simra
				1044	Private	Non-Agriculture	0.024	Krishn Kumar Kam S/o Chandrapal Das (0.012 Ha) and Krishna Kr. Kam & Dharendra Kr. Kam S/o-Shiv Nr. Das & Bishwanath Das S/o-Raj Nr. Das & Bharti Devi W/o- Sarva Nr. Das & Krishna Murari Kam S/o-Radha Raman Kam & Soundra Kr. Kam S/o-Chandra Nr. Das Sakim-Simra (0.012 Ha)
				1045	Private	Non-Agriculture	0.08	Krishn Kumar Kam S/o Chandrapal Das and Krishna Kr. Kam & Dharendra Kr. Kam S/o-Shiv Nr. Das & Bishwanath Das S/o-Raj Nr. Das & Bharti Devi W/o- Sarva Nr. Das & Krishna Murari Kam S/o-Radha Raman Kam & Soundra Kr. Kam S/o-Chandra Nr. Das Sakim-Simra
				1198	Government	Road	0.044	Biha Government
				1465	Private	Agriculture	0.012	Bhulla Mandal & Mahaveer Mandal S/o-Laskar Mandal Sakim-Simra
				1461	Private	Agriculture	0.032	Bhulla Mandal & Mahaveer Mandal S/o-Laskar Mandal Sakim-Simra

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1455	Government	Road	0.028	Bihar Govt.
				1448	Private	Non-Agriculture	0.008	Prabodhchandra Das
				1454	Government	Agriculture	0.02	S/o-Lt. Redha Ballebh Das Sakim-Simra
				1453	Government	Agriculture	0.024	Bihar Govt.
				1489	Government	Road	0.316	Bihar Govt.
				2133	Government	Road	0.008	Bihar Govt.
				2134	Private	Agriculture	0.028	Arun Kr. Das
				2135	Private	Agriculture	0.04	S/o-Baldev Das Sakim-Simra
				1974	Private	Non-Agriculture	0.02	Donk Thakur
				963	Private	Non-Agriculture	0.048	S/o-Kishun Thakur Sakim-Simra
				1960	Private	Agriculture	0.056	Tetar Kamati
				1950	Private	Agriculture	0.024	S/o-Thakay Kamati Sakim-Simra
				1954	Private	Agriculture	0.004	Ramapati Das
				1943	Private	Agriculture	0.02	S/o-Radha Krishna Das & Indra Bhushan
				1513	Private	Agriculture	0.012	Kern S/o-Niranjan Das Sakim-Simra
				1515	Private	Agriculture	0.004	Narayan Das
				1510	Private	Agriculture	0.004	S/o-Krishnaballabh Das Sakim-Simra
				1509	Private	Agriculture	0.004	Gourikant Das
				1508	Private	Agriculture	0.008	S/o-Shiv Shanker Das Sakim-Dehe
				1507	Government	Road	0.024	Medranand Das
				1506	Private	Agriculture	0.008	& Karunanand Das S/o-Shiv Nr. Das Sakim-Simra
				1504	Private	Agriculture	0.082	Devendra Kr. Das
				1490	Private	Agriculture	0.036	S/o- Binod Bihari Das Sakim-Simra
				1489	Private	Agriculture	0.048	Lekhan Mukhiya
				1488	Private	Agriculture	0.024	& Pramod Mukhiya S/o- Munay Mukhiya
				1487	Private	Agriculture	0.024	Sakim-Simra and Ramanand Mishra
				1486	Private	Agriculture	0.008	S/o- Jay Nr. Mishra Sakim-Simra
				1485	Private	Agriculture	0.024	Ramanand Mishra
				1480	Private	Agriculture	0.084	S/o- Jay Nr. Mishra Sakim-Simra
				1479	Private	Agriculture	0.032	Ramanand Mishra
				1478	Private	Agriculture	0.048	S/o- Jay Nr. Mishra Sakim-Simra
				1470	Government	Road	0.012	Kamlekant Das
				1471	Government	Road	0.044	Sakim-Simra
				1472	Government	Road	0.032	Kamlekant Das
				1473	Government	Road	0.012	Sakim-Simra
				1474	Government	Road	0.024	Bihar Govt.
				1476	Government	Road	0.008	Bihar Govt.
				1477	Government	Road	0.086	Bihar Govt.
			(14)Chauragari	1549	Government	Road	0.02	Bihar Government
				1547	Private	Agriculture	0.048	Bahadur Sah
				1954	Private	Non-Agriculture	0.14	S/o-Laxmi Sah Sakim-Dehe
				1955	Private	Agriculture	0.036	Mahaveer Sah
				1956	Private	Agriculture	0.044	S/o-Ramsundar Sah Sakim-Dehe
				1968	Private	Non-Agriculture	0.012	Mahaveer Sah
				1987	Government	Road	0.016	S/o-Ramsundar Sah Sakim-Dehe

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3191	Government	Road	0.016	Bihar Government
				1897	Private	Non-Agriculture	0.012	Raj Kr. Rout S/o- Jagdish Rout Sakim-Dehe and Raj Kr. Rout
				1895	Private	Non-Agriculture	0.024	S/o- Jagdish Rout & Baidyanath Rout S/o- Satya Nr Rout Sakim-Dehe Shashi Bhushan Pradhan S/o-Bharat Pradhan Sakim-Dehe and Shiv Pradhan
				1990	Private	Non-Agriculture	0.012	S/o-Mahaveer Pradhan Sakim-Dehe Shiv Pradhan
				1889	Private	Non-Agriculture	0.008	S/o-Mahaveer Pradhan Sakim-Dehe Babusahab Sah & Bikram Sah
				1888	Private	Non-Agriculture	0.01	S/o- Danilal Sah Sakim-Dehe Rajendra Sah S/o-Lakhan Sah & Sitaram Sah S/o-Damodar Sah & Arun Sah S/o-Mahanthi Sah Sakim-Dehe
				1857	Private	Non-Agriculture	0.008	Mahaveer Pradhan
				1854	Private	Non-Agriculture	0.008	Doma Nayak and Bhole Ram Mandal
				2167	Private	Agriculture	0.024	Bhole Ram Mandal S/o-Ramdev Mandal Sakim-Dehe
				2169	Private	Non-Agriculture	0.028	Siyaram Karak S/o-Mahaveer Karak Sakim-Dehe
				3216	Private	Agriculture	0.028	Kusheshwer Panjiyar & Ram Pd. Panjiyar & Jagdish Thakur S/o-Swaroop Thakur Sakim-Dehe
				2223	Private	Agriculture	0.044	Ramkheleavan Thakur S/o-Singeshwer Thakur Sakim-Dehe and Arun Sah S/o-Mahanthi Sah Sakim-Dehe
				2222	Private	Agriculture	0.032	Ramkheleavan Thakur S/o-Singeshwer Thakur Sakim-Dehe and Laxmi Thakur S/o-Nachari Thakur Sakim-Dehe
				2168	Private	Agriculture	0.068	Leihu Yadav Sakim-Dehe
				1164	Private	Agriculture	0.008	Hareram Karak S/o- Mahaveer Karak Sakim-Dehe
				1160	Private	Agriculture	0.028	Lakhan Thakur S/o-Sivan Thakur Sakim-Dehe
				1755	Private	Non-Agriculture	0.112	Sohan Panjiyar S/o-Gopal Panjiyar Sakim-Dehe, Roudi Mukhiya S/o-Kallier Mukhiya Sakim-Dehe and Mangal Mukhiya S/o-Puran Mukhiya Sakim-Dehe
				1929	Private	Non-Agriculture	0.012	Rupnarayan Sah S/o- Ramchandra Sah Sakim-Dehe
				1824	Private	Non-Agriculture	0.006	Prehlad Karak S/o- Shiv Nr. Karak & Ram Nr. Karak S/o-Surya Nr. Karak Sakim-Dehe
				1827	Private	Non-Agriculture	0.006	Ram Nr. Karak & Dhruva Nr. Karak S/o- Surya Nr. Karak Sakim-Dehe
				1843	Private	Non-Agriculture	0.032	Kusheshwer Panjiyar S/o- Ram Pd. Panjiyar Sakim-Dehe
				2829	Government	Road	0.008	Bihar Government
				2828	Private	Non-Agriculture	0.004	Ramkisun Thakur S/o- Shivam Thakur Sakim-Dehe
				2791	Government	Road	0.048	Bihar Government
				2780	Government	Road	0.144	Bihar Government
				2710	Private	Pond	0.06	Hari Nr. Mahto S/o- Jibachh Mahto Sakim-Dehe
				2709	Private	Non-Agriculture	0.152	Ramchandra Sah S/o-Ramsundar Sah Sakim-Dehe
				2707	Private	Non-Agriculture	0.044	Sitaram Mandal S/o- Nr Mandal & Laxmi Mandal S/o-Mahaveer Mandal Sakim-Dehe
				2708	Private	Non-Agriculture	0.01	Md. Kurban S/o Panchu & Usman S/o- Panchu & Jagdish Thakur S/o- Swaroop Thakur Sakim-Dehe
				2353	Government	Road	0.06	Bihar Government
				2693	Private	Non-Agriculture	0.02	Jitan Thakur S/o- Bhagwat Thakur Sakim-Dehe
				2308	Private	Non-Agriculture	0.016	Praveen Rout S/o- Bhole Rout Sakim-Dehe
				2308	Private	Non-Agriculture	0.016	Mahaveer Sah S/o-Ramsundar Sah Sakim-Dehe
				2230	Government	Road	0.016	Bihar Government
				1550	Private	Agriculture	0.112	Mahaveer Sah S/o-Ramsundar Sah Sakim-Dehe
				1551	Private	Agriculture	0.064	Mahaveer Sah S/o-Ramsundar Sah Sakim-Dehe
				1552	Private	Agriculture	0.08	Mahaveer Sah S/o-Ramsundar Sah Sakim-Dehe
				1555	Government	Road	0.2	Bihar Government
				1554	Government	Road	0.064	Bihar Government
				1553	Government	Road	0.068	Bihar Government

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(15)Pipraulia	31	Government	Road	0.072	Bihar Government
				32	Private	Agriculture	0.068	Abdul Mannan S/o-Aul Gani Sakim-Dehe
				33	Private	Agriculture	0.034	Biby Rahmag & Biby Safra Khatun W/o-Abdul Gani urf- Chhedl Sakim-Dehe and Md. Hasim S/o-Hamid Sakim-Dehe
				42	Private	Agriculture	0.08	Md. Abbas S/o-Darman Sakim-Dehe, Abdul Mannan S/o-Aul Gani Sakim-Dehe, Jaiul Haq S/o-Basil Sakim-Dehe and Md. Jabbar S/o-Ishanul Sakim-Dehe
				45	Private	Agriculture	0.052	Md. Halim S/o-Tahir Sakim-Dehe and Abdul Barik, S/o-Takim Sakim-Dehe
				46	Private	Agriculture	0.088	Hakim & Waris S/o-Bashil Sakim-Dehe and Ilyas S/o-Darmani Sakim-Dehe
				47	Private	Agriculture	0.028	Md. Hasim S/o-Mohim Sakim-Dehe and Ilyas S/o-Darmani Sakim-Dehe
				111	Private	Agriculture	0.012	Dev Nr. Mahto S/o-Bhular Mahto Sakim-Dehe
				113	Private	Agriculture	0.056	Baidyanath Mahto S/o-Gopal Mahto Sakim-Dehe
				118	Government	Road	0.028	Bihar Govt.
				139	Private	Agriculture	0.024	Gulam Mustafa Md. Siddik Sakim-Dehe
				265	Private	Agriculture	0.116	Sayid S/o-Majir Ali Sakim-Dehe, Md. Dawd S/o-Suleman Sakim-Dehe and Md. Badruddin S/o-Issa Sakim-Dehe
				266	Private	Non-Agriculture	0.1	Bannihal Choupal S/o-Bhiley Choupal Sakim-Dehe, Jagannathi Choupal S/o-Sonetal Choupal Sakim-Dehe, Khushilal Sah S/o-Abdul Aji Sakim-Dehe and Banwali Choupal S/o-Bhiley Choupal Sakim-Dehe
				294	Private	Non-Agriculture	0.086	Hijfur Rahman & Manjoor S/o-Suleman Sakim-Dehe and Abdul Barik S/o-Mustak Sakim-Dehe
				295	Private	Non-Agriculture	0.118	Rasid Sidik S/o-Abdul Mogli Sakim-Dehe, Md. Salim S/o-Habib Sakim-Dehe, Md. Kuddus S/o-Ahmad Sakim-Dehe, Late Sakina, W/o Md. Samil Md. Lutfulah S/o- Hafiz Abdul Salim Sakim-Dehe, Md. Jahiruddin S/o-Safurrahman, Md. Harun S/o-Basoor Sakim-Dehe, Md. Mustakim- S/o-Md Dawd Sakim-Dehe, Md. Mustaq S/o-Dawd Sakim-Dehe and Md. Faruk S/o-Basoor Sakim-Dehe
				296	Private	Agriculture	0.068	Mo. Sakina W/o- Md. Samil Sakim-Dehe, Md. Jahiruddin S/o saffurrahman Sakim Dehe, Md. Samiullah & Kail Bhalla S/o-Hazi Hakim-Sakim-Dehe, Md. Lutfulah S/o- Hafiz Abdul Salim Sakim-Dehe and Md. Ludfulah S/o-Hafiz Hakim & Sami Ullah S/o-Harif Sakim- Dehe
				307	Private	Non-Agriculture	0.008	Md. Mustafa & Md. Hafiz S/o Md. Habib
				341	Private	Non-Agriculture	0.008	Md. Amanullah S/o-Hafiz Abdul hakim Sakim-Dehe
				342	Private	Non-Agriculture	0.01	Hazi Abdul Hakim & Md. Taslim S/o-Yavar Husain Sakim-Dehe and Md. Amanullah S/o-Hafiz Abdul hakim Sakim-Dehe
				351	Private	Non-Agriculture	0.044	Fullyahi Choupal S/o-Gulki Choupal Sakim-Dehe, Fullyahi Choupal S/o-Gulki Choupal Sakim-Dehe, Salaula S/o- Allaulla Sakim-Dehe and Md Akhtari W/o- Marhoon Aul Sakur Sakim-Dehe
				350	Government	Road	0.028	Bihar Govt.
				401	Private	Non-Agriculture	0.026	Dukhan Mahto S/o-Puran Mahto Sakim-Dehe and Dilip Mahto S/o-Ramchandra Mahto Sakim-Dehe
				408	Private	Non-Agriculture	0.02	Baleswar Choupal S/o-Teter Choupal and Bechan Choupal S/o-Ramjee Choupal Sakim-Dehe
				409	Private	Non-Agriculture	0.008	Lakhan Choupal S/o-Babujee Choupal Sakim-Dehe
				34	Private	Agriculture	0.032	Ammaullah S/o-Hamid Sakim-Dehe

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				41	Private	Agriculture	0.02	Abdul Atoot S/o-Abdul Afiz Sakim-Dehe
				58	Private	Agriculture	0.06	Birju Mahto S/o-Mehi Mahto Sakim-Dehe, Safiullah S/o-Uzman Sakim-Dehe, Birju Mahto S/o-Mehi Mahto Sakim-Dehe
				102	Private	Agriculture	0.044	Bechan Mahto S/o-Bhullar Mahto & Baidyanath Mahto S/o-Gopal Mahto Sakim-Dehe
				101	Private	Agriculture	0.008	Chulhay Mahto S/o-Pachu Mahto Sakim-Dehe
				27	Private	Agriculture	0.028	Md. Ilyas S/o-Darman Sakim-Dehe
				43	Private	Agriculture	0.076	Md. Sufiullah S/o-Abdul Hakim Sakim-Dehe and Md. Safiul Rahman S/o-Halim Sakim-Dehe
				80	Private	Agriculture	0.028	Bechan Mahto S/o-Bhullar Mahto Sakim-Dehe
				61	Private	Agriculture	0.032	Kusheshwer Mahto & Singheshwer Mahto S/o-Kailu Mahto Sakim-Dehe
				62	Private	Agriculture	0.032	Mahaveer Mahto S/o-Dukhi Mahto Sakim-Dehe
				63	Private	Agriculture	0.168	Baidyanath Mahto S/o-Gopal Mahto Sakim-Dehe, Dev Nr. Mahto S/o-Ramtahal Mahto Sakim-Dehe, Mahaveer Mahto S/o-Dukhi Mahto Sakim-Dehe, Mahaveer Mahto S/o-Dukhi Mahto Sakim-Dehe, Dev Nr. Mahto S/o-Ramtahal Mahto Sakim-Dehe and Dev Nr. Mahto & Baidyanath Mahto S/o-Ramtahal Mahto Sakim-Dehe
				96	Private	Agriculture	0.032	Jahoor Hajam S/o-Ishak Hajam Sakim-Dehe
				64	Private	Non-Agriculture	0.06	Ram Bahadur Mahto S/o-Chandeshwer Mahto & Khushiail Mahto S/o-Naibat Mahto & Ramial Mahto S/o- Rameshwer Mahto Sakim-Dehe
				94	Private	Agriculture	0.012	Dev Nr. Mahto S/o-Ramtahal Mahto Sakim-Dehe
				100	Private	Agriculture	0.318	Baidyanath Mahto S/o-Gopal Mahto Sakim-Dehe, Dev Nr. Mahto S/o-Ramtahal Mahto Sakim-Dehe, Dev Nr. Mahto S/o-Bhullar Mahto Sakim-Dehe and Baidyanath Mahto S/o-Gopal Mahto Sakim-Dehe
				97	Private	Agriculture	0.06	Kusheshwer Mahto S/o-Kailu Mahto Sakim-Dehe and Kusheshwer Mahto & Chulhay Mahto & Mahaveer Mahto S/o- Kailu Mahto & Bechu Mahto & Dukhi Mahto Sakim-Dehe
				114	Private	Agriculture	0.14	Dev Nr. Mahto S/o-Ramtahal Mahto Sakim-Dehe
				115	Private	Agriculture	0.168	Mahaveer Mahto S/o-Dukhi Mahto Sakim-Dehe, Bechan Mahto S/o-Bhullar Mahto Sakim-Dehe, Mahaveer Mahto S/o-Dukhi Mahto Sakim-Dehe and Bechan Mahto S/o-Bhullar Mahto Sakim-Dehe
				267	Private	Non-Agriculture	0.076	Md. Jameer Raian S/o-Jalil Raian & Mukhtar S/o-Md. Darman Sakim-Dehe
				280	Private	Agriculture	0.036	Md. Baseer S/o-Md. Taslim Sakim-Dehe and Md. Baseer S/o-Md. Tasim Sakim-Dehe
			(18) Arania Sangram	2167	Private	Non-Agriculture	0.024	Ram Milan Thakur & Krishna Thakur & Ramsundar Thakur S/o- Mahaveer Thakur Sakim-Dehe
				2165	Private	Non-Agriculture	0.012	Lekhan & Ramsobhit Thakur Sakim-Dehe
				2145	Private	Agriculture	0.02	Rajendra Mandal S/o- Ramdev Mandal Sakim-Dehe
				2139	Private	Agriculture	0.092	Shiv Nr. Mandal S/o-Ramgulam Mandal Sakim-Dehe
				1408	Private	Non-Agriculture	0.016	Md. Safur Rahman S/o-Churhay Rahman Sakim-Dehe

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1741	Private	Non-Agriculture	0.428	<p>Ram Gulam Mahto S/o-Baldev Mahto Sakim-Dehe, Ramgulam Mahto S/o-Baldev Mahto Sakim-Dehe, Yogendra Mahto S/o-Jay Nr. Mahto Sakim-Dehe, Jagdishwar Mahto & Baleshwar Mahto Sakim-Dehe (0.024 Ha), Ram Bahadur Mahto & Ramakhan Mahto S/o-Sukan Mahto Sakim-Dehe, Lakhan Sah S/o-Ramkum Sah Sakim-Dehe, Arun Kr. Mahto S/o-Baidyanath Mahto Sakim-Dehe, Bishnu Kr. Mahto S/o-Baidyanath Mahto Sakim-Dehe, Raghunath Mahto S/o-Bochey Mahto Sakim-Dehe, Bhole Mahto S/o-Govind Mahto Sakim-Dehe, Yogendra Mahto S/o-Nathu Mahto Sakim-Dehe, Kanhaiya Jha & Guddu Jha S/o-Chandra Mohan Jha Sakim-Dehe, Gulabchandra Jha & Shanker Kr. Jha S/o-Laxman Jha Sakim-Dehe, Ram Adhuni Mahto S/o-Khattar Mahto Sakim-Dehe and Laxmi Mahto S/o-Khattar Mahto Sakim-Dehe</p>
				1771	Private	Non-Agriculture	0.076	<p>Birju Mahto S/o-Lal Chan Mahto Sakim-Dehe (0.008 Ha), Bahadur Mahto S/o-Sukan Mahto Sakim-Dehe, Baleshwar Mahto & Jagdishwar Mahto S/o-Boualei Mahto Sakim-Dehe, Singeshwar Mahto S/o-Sundar Mahto Sakim-Dehe, Ganga Ram Mahto & Lal Bahadur Mahto S/o- Ram Pd. Mahto Sakim-Dehe and Laxman Mahto S/o- Ram Pd. Mahto Sakim-Dehe</p>
				1729	Private	Non-Agriculture	0.008	<p>Ramnath Mahto S/o-Khattar Mahto Sakim-Dehe</p>
				1858	Private	Non-Agriculture	0.038	<p>Gulabchandra Jha & Shanker Kr. Jha S/o-Laxman Jha Sakim-Dehe, Ram Nath Mahto S/o- Khatar Mahto Sakim-Dehe, Ram Adhuni Mahto S/o-Khattar Mahto Sakim-Dehe and Laxmi Mahto S/o-Khattar Mahto Sakim-Dehe</p>
				1855	Government	Road	0.008	<p>Bihar Govt.</p>
				1837	Private	Non-Agriculture	0.008	<p>Rajendra Jha S/o-Balkrishna Jha Sakim-Dehe and Md.Imamuddin S/o-Niamuddin Sakim-Dehe</p>
				1836	Private	Non-Agriculture	0.012	<p>Rajendra Jha S/o-Balkrishna Jha Sakim-Dehe and Md.Imamuddin S/o-Niamuddin Sakim-Dehe</p>
				1588	Private	Non-Agriculture	0.018	<p>Shiv Jee Sah S/o-Bhagwat Sah Sakim-Dehe and Rajendra Pd.Gupta S/o-Jagannath Pd. Gupta Sakim-Dehe</p>
				1584	Private	Non-Agriculture	0.032	<p>Rajendra Pd.Gupta S/o-Jagannath Pd. Gupta Sakim-Dehe, Nathuni Pd. Gupta S/o- Yogendra Pd. Gupta Sakim-Dehe and Mahaveer Purvey S/o-Ramchandra Purvey Sakim-Dehe</p>
				1583	Private	Non-Agriculture	0.008	<p>Mahaveer Purvey S/o-Ramchandra Purvey Sakim-Dehe</p>
				1215	Private	Non-Agriculture	0.064	<p>Idrish Rain S/o-ismail Rain Sakim-Dehe, Jhal Mohammed & Kadir Rain S/o- Ilyas Rain Sakim-Dehe, Ali Hasan S/o-Fazle Haq Sakim-Dehe, Jamil Tailor S/o- Kasim Tailor Sakim-Dehe, Ram Pukar Mahto S/o-Munnal Mahto Sakim-Dehe and Nagendra Mahto & Kishori Mahto S/o-Ram Pd. Mahto Sakim-Dehe</p>
				1219	Private	Non-Agriculture	0.0288	<p>Rajo Devi W/o-Mahesh Pd. Gupta Sakim-Dehe Baidyanath Pd. Gupta & Nr. Pd. Gupta S/o-Mahendra Pd. Gupta Sakim-Dehe, Md.Tahir Hussein S/o-Mosamin Sakim-Dehe, Dr. Nasar and Jafar Husain S/o-Majhar Hussein Saqkim-Dehe</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1220	Private	Non-Agriculture	0.016	Md. Tahir Husain S/o-Mosamin Sakim-Dehe and Md. Sadkal Haq S/o-Ataulka Haq Sakim-Dehe
				1221	Government	Road	0.004	Bihar Govt.
				1222	Private	Non-Agriculture	0.028	Md. Naseemuddin S/o-Mayiuddin & Alauddin S/o-Uzman Sakim-Dehe
				1223	Government	Road	0.008	Bihar Govt.
				1224	Private	Non-Agriculture	0.008	Md. Idrish S/o-Mokim Sakim-Dehe and Md. Jahir Khan S/o-Kalimuddin & Akhtarya W/o-Dawd Sakim-Dehe
				1227	Private	Non-Agriculture	0.04	Ramdev Purvey S/o-Tuntun Purvey Sakim-Dehe, Baidyanath Mahto S/o-Domi Mahto Sakim-Dehe, Jamil Akhtar S/o-Wahid Akhtar Sakim-Dehe and Babujan Master S/o-Chulhay & Mouddin Master S/o-Uzman & biby Kamrul Nisha W/o-Md. Husain Sakim-Dehe
				1230	Government	Road	0.032	Bihar Govt.
				1022	Private	Non-Agriculture	0.056	Md. Jubair & Md. Jahir & Mahmood S/o-Md. Feku Md. Dawd Sakim-Dehe
				1017	Private	Agriculture	0.036	Abdul Hannan & Safur Rahman Mustafa Sakim-Dehe
				1016	Private	Agriculture	0.024	Biswath Mahto S/o-Rajendra Mahto Sakim-Dehe
				1013	Private	Agriculture	0.02	Md. Sukhdev S/o-Yasin Sakim-Dehe
				1103	Government	Road	0.036	Bihar Govt.
				227	Private	Agriculture	0.08	Md. Idrish & Md. Mobir & Sahid S/o-Ayub Sakim-Dehe
				1011	Government	Road	0.024	Bihar Govt.
				1008	Private	Agriculture	0.072	Md. Harun & Naseer S/o-Sorajul Haq Sakim-Dehe, Md. Safik S/o-Suleman Sakim-Dehe and Rahman & Darman S/o-Navood Sakim-Dehe
				1007	Private	Agriculture	0.044	Shiv Shanker Purvey S/o-Jagdish Purvey Sakim-Dehe
				1006	Private	Agriculture	0.024	Naseem Uddin S/o-Mayiuddin Sakim-Dehe and Jagdish Purvey S/o-Sundar Purvey Sakim-Dehe
				1005	Private	Agriculture	0.012	Silaram Pd. S/o-Munnial Pd. & Pramod Pd. S/o-Pashupati Pd.
				2170	Private	Non-Agriculture	0.036	Ram Sundar Choupal S/o-Maylal Choupal & Radhe shyam Jha S/o-Bishnu dyal Jha Sakim-Dehe
				2171	Private	Non-Agriculture	0.012	Ram Sundar Choupal S/o-Maylal Choupal & Radhe shyam Jha S/o-Bishnu dyal Jha Sakim-Dehe, Bechan Choupal S/o-Ramjee Choupal Sakim-Dehe and Thakay Choupal S/o-Nunu Choupal Sakim-Dehe
				2172	Private	Non-Agriculture	0.048	Bechan Choupal S/o-Ramjee Choupal Sakim-Dehe and Thakay Choupal S/o-Nunu Choupal Sakim-Dehe
				1739	Government	Road	0.012	Bihar Govt.
				2148	Private	Agriculture	0.076	Radheshyam Jha S/o-Parag Jha Sakim-Dehe
				2250	Private	Non-Agriculture	0.036	Rooplal Choupal S/o-Babulal Choupal Sakim-Dehe
				2252	Private	Agriculture	0.144	Jaylal Mandal S/o-Mahi Mandal Sakim-Dehe, Singeshwer Mandal S/o-Bhuvan Choupal Sakim-Dehe, Ra, K. Sah S/o-Ram Pd. Sah Sakim-Dehe, Ramfal Sah & Ramsundar Sah S/o-Sukal Sah Sakim-Dehe and Ghuran Sah S/o-Bhaju Sah Sakim-Dehe
				2254	Private	Agriculture	0.04	Bhola Paswan S/o-Boudhu Paswan Sakim-Dehe
				2257	Private	Agriculture	0.096	Ram Nr. Mandal S/o-Parneshwer Mandal Sakim-Dehe, Shiv Nr. Mandal S/o-Lt. Ramgulam Mandal Sakim-Dehe, Munni Lal Mandal S/o-Rooplal Mandal Sakim-Dehe and Rammilan Thakur S/o-Mahaveer Thakur Sakim-Dehe

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2256	Private	Agriculture	0.012	Nirsu Jha S/o- Mohan Jha Sakim-Dehe
				2258	Private	Agriculture	0.024	Kaushlya Devi W/o-Ram Milan Thakur Sakim-Dehe
				2259	Private	Agriculture	0.004	Shiv Nr. Sah S/o-Surat Sah Sakim-Dehe
				2261	Private	Agriculture	0.02	Jibachh Ram S/o-Rameshwar Ram Sakim-Dehe
				2262	Private	Agriculture	0.088	Shiv Puja Mandai S/o-Gyanchan Mandal Sakim-Dehe and Lakhan Thakur
				2211	Government	Road	0.012	S/o- Babulal Thakur Sakim-Dehe Bihar Govt.
				2312	Private	Non-Agriculture	0.04	Binod Thakur & Ganga Thakur S/o- Jagroop Thakur Sakim- Dehe and Bhagwan Jha S/o-Belbhadra Jha & yogendra Jha & Surendra Jha S/o-Belbhadra Jha Sakim-Dehe
				3212	Private	Agriculture	0.008	Bhagwan Jha S/o-Belbhadra Jha & yogendra Jha & Surendra Jha S/o-Belbhadra Jha Sakim-Dehe
				2313	Private	Agriculture	0.012	Bidyant Jha S/o-Ramsharan Jha Sakim-Dehe
				2309	Private	Agriculture	0.018	Safur Rahman S/o-Chulhay Sakim-Dehe
				2368	Government	Road	0.028	Bihar Govt.
				2327	Private	Non-Agriculture	0.036	Boelal Mandal S/o-Jagroop Mandal Sakim-Dehe and Murari Thakur
				2354	Government	Road	0.032	S/o-Madan Thakur Sakim-Dehe Bihar Govt.
				2447	Private	Agriculture	0.028	Ram Bahadur Jha S/o-Mohan Jha Sakim-Dehe
				2482	Private	Non-Agriculture	0.032	Dinesh Sah & Kailash Sah S/o-Laxmi Sah Sakim-Dehe, Ramchaitra Sah S/o-Laxmi Sah Sakim-Dehe and Satya Nr. Sah S/o-Shiv Nr. Sah Sakim-Dehe
				2483	Private	Non-Agriculture	0.016	Baidyanath Sah S/o-Shiv Nr. Sah Sakim-Dehe and Satya Nr. Sah S/o-Shiv Nr. Sah Sakim-Dehe
				2485	Private	Non-Agriculture	0.024	Hari Pradhan S/o-Sonela Pradhan Sakim-Dehe, Ganesh Pradhan S/o-Chandeshwar Pradhan Sakim-Dehe, Mahaveer Pradhan S/o-Kari Pradhan Sakim-Dehe and Ram Nr. Pradhan S/o-Chandeshwar Pradhan Sakim-Dehe
				2496	Private	Non-Agriculture	0.016	Hari Pradhan S/o-Sonela Pradhan Sakim-Dehe, Ganesh Pradhan S/o-Chandeshwar Pradhan Sakim-Dehe and Mahaveer Pradhan S/o-Kari Pradhan Sakim-Dehe
				2494	Private	Non-Agriculture	0.008	Ram Nr. Pradhan S/o-Chandeshwar Pradhan Sakim-Dehe
				2486	Private	Non-Agriculture	0.008	Mahaveer Purvey S/o-Ramchandra Purvey Sakim-Dehe
				2493	Private	Non-Agriculture	0.004	Mahaveer Purvey S/o-Ramchandra Purvey Sakim-Dehe
				2492	Private	Non-Agriculture	0.012	Lakhan Sah S/o-Ram Kisan Sah Sakim-Dehe
				2487	Private	Non-Agriculture	0.008	Lakhan Sah S/o-Ram Kisan Sah Sakim-Dehe
		(17) Dhaipura		4	Private	Agriculture	0.05	Kusheshwar Mahto S/o-Kailu Mahto Sakim-Dehe
				3	Private	Agriculture	0.012	Md. Yunus S/o-Wasil Sakim-Dehe
				5	Private	Agriculture	0.04	Md. Yunus S/o-Wasil Sakim-Dehe
				6	Private	Agriculture	0.0036	Balram Mahto S/o-Barwali Mahto Sakim-Dehe
				7	Private	Agriculture	0.064	Md. Sayid S/o Abdul Majid and Badruddin S/o Isha Sakim Dehe
				8	Private	Agriculture	0.04	Chulhay Mahto S/o-Panchu Mahto & Singheshwar Mahto S/o- Kailu Mahto Sakim-Dehe
				9	Private	Agriculture	0.012	Bhola Mahto S/o Bachchalal Mahto Sakim-Dehe
				10	Private	Agriculture	0.024	Bangali Das S/o-gangeswar Das Sakim-Dehe
				11	Private	Agriculture	0.016	Devial Mahto S/o-Bous Lal Mahto Sakim-Dehe
				12	Private	Agriculture	0.02	Devial Mahto S/o-Bous Lal Mahto Sakim-Dehe

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				17	Private	Agriculture	0.06	Birju Mahto S/o-Modi Mahto & Bachchalal Mahto, Achhayal Mahto S/o- Mukhid Mahto Sakim-Dehe and Bharosi Mahto S/o- Pulkil Mahto Sakim-Dehe
				30	Private	Agriculture	0.024	Mahakant Mahto S/o Babuje Mahto Sakim-Dehe
				310	Private	Agriculture	0.02	Mahakant Mahto S/o Babuje Mahto Sakim-Dehe
				32	Government	Road	1.364	Bihar Govt.
				862	Private	Agriculture	0.012	Md. Halim S/o-Tahir Sakim-Dehe
		(18)Sindurpura	1	Private	Agriculture	0.048		Nand Kishore Sah S/o-Ram Nr. Sah S/o- Mahaveer Sah Sakim- Chanauragan
				874	Government	Road	0.036	Bihar Govt.
				875	Government	Road	0.084	Bihar Govt.
		(19)Sohpur	218	Private	Non-Agriculture	0.016		Ram Kumari Devi W/o-Ramdev Sah and Dashrath Sah S/o- Thirer Sah
				219	Private	Non-Agriculture	0.068	Surya Nr. Sah S/o- Babujee Sah Sakim-Dehe, Ramchandra Sah S/o- Jibachh Sah Sakim- Dehe and Pradeep S/o-Ramlakhan Sah Sakim-Dehe
				220	Private	Agriculture	0.104	Shekh Liyakat & Wakil Ahmad S/o-Shekh Abdul Sakim-Dehe and Bharat Choudhary S/o- Subey Choudhary
				221	Private	Agriculture	0.024	Bharat Choudhary S/o- Subey Choudhary
				222	Private	Agriculture	0.016	Wakil Ahmad S/o-Shekh Abdul
				223	Private	Non-Agriculture	0.048	Jiyaul Haq S/o-Md. Hanif
				224	Private	Agriculture	0.144	Bharat Choudhary S/o- Subey Choudhary and Amirul Haq S/o- Alhasan Sakim-Dehe
				225	Government	Road	0.144	Bihar Govt.
				2	Government	Road	0.016	Bihar Govt.
				5	Private	Non-Agriculture	0.052	Bilat Sah S/o- Parsadi Sah Sakim-Dehe Naseer S/o- Karim Sakim-Dehe Tashim S/o-Habibul Rahman Sakim-Dehe
				6	Private	Agriculture	0.056	Md. Tajeer S/o-Abdul Bahid Sakim-Dehe and Shalim S/o-Ramjani Ali Sakim-Dehe
				8	Private	Non-Agriculture	0.132	Kaiyum S/o- Ismail Sakim-Dehe, Mojibur Rahman S/o-Taslim Sakim-Dehe and Mojibur Rahman S/o-Taslim Sakim-Dehe Hamuman Mahto S/o-Shyam Dev Mahto & Domi Mahto S/o- Ram Pd. Mahto Sakim -Dehe
				247	Private	Agriculture	0.04	Md. Jaffar Khan S/o-Majhar husain Sakim-Dehe
				227	Private	Non-Agriculture	0.032	Md. Jaffar Khan S/o-Majhar husain Sakim-Dehe and Jiyaul Haq S/o-Md. Mustakim
				226	Private	Non-Agriculture	0.012	Jiyaul Haq S/o-Md. Mustakim
				194	Private	Non-Agriculture	0.022	Gopal Mahto S/o-Bhutay Mahto Sakim-Dehe
				178	Private	Non-Agriculture	0.004	Majibur Rahman S/o- Tashim Sakim-Dehe
				177	Private	Non-Agriculture	0.002	Majibur Rahman S/o- Tashim Sakim-Dehe
				206	Government	Road	0.024	Bihar Govt.
		(20) Parsadnan	10	Government	Road	0.008		Bihar Govt.
				5	Private	Agriculture	0.036	Kamaldev Nr. Singh S/o- Bhagwat Nr. Singh
				15	Government	Road	0.164	Bihar Govt.
				18	Government	Road	0.172	Bihar Govt.
				17	Government	Road	0.148	Bihar Govt.
				35	Government	Road	0.016	Bihar Govt.
				77	Private	Agriculture	0.016	Ram Nr. Yadav S/o-Mahindra Yadav
				86	Private	Agriculture	0.012	Jhingur Roy & Ramchandra Roy S/o- Achakial Roy
				87	Private	Agriculture	0.012	Siyatal Mandal S/o- Choudhary Mandal
		(21)Baik Mechwara	1871	Private	Non-Agriculture	0.02		Jamil Haq S/o-Yusuf Rahman Sakim-Dehe
				1725	Private	Agriculture	0.008	Nunu Jha S/o-Ragha Jha Sakim-Dehe
				1702	Private	Agriculture	0.04	Md. Bais S/o-Md. Idnsh Sakim-Dehe

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1663	Private	Agriculture	0.036	Satyra Nr. Pd. Jeevraji S/o-Kashari Pd. Jeevraji Sakim-Dehe and Ramdeshore Jha S/o-Munindra Jha Sakim-Dehe
				1678	Private	Agriculture	0.032	Md. Sadul Sakim-Dehe
				1687	Private	Agriculture	0.012	Ram Nr.Purvey S/o-Fakir Purvey Sakim-Dehe
				1688	Private	Agriculture	0.004	Ram Nr.Purvey S/o-Fakir Purvey Sakim-Dehe
				1872	Government	Road	0.084	Bihar Govt.
				2001	Private	Agriculture	0.008	Bharat Nr. Choudhary S/o-Sube Choudhary Sakim-Dehe
		3. Phulpur	(1)Nansur	5433	private	Agriculture	0.084	Shahid S/o-Md. Majir Ali and inarfan S/o-Sultan Sakim-Dehe
				5434	Private	Agriculture	0.012	Mahmood Gufran S/o-Lukman
				5447	private	Agriculture	0.036	Bedriuddin S/o-Issa & Daji Shahid S/o-Majir Ali, Mukhtar Alam S/o- Md.Dawd, Biby Arfa Khatun W/o-Mukhtar Alam and Biby Taiyar Khatun W/o- Moamin Mastan
				5327	Government	Road	0.004	Bihar Govt.
				5449	private	Agriculture	0.016	Md. Samim S/o- Gulam Mustafa and Md.Mukhtar S/o-Dawd
				5468	private	Agriculture	0.12	Md. Noorul Islam S/o- Majhool Haq, Biby Taiyaba Khatun W/o- Md. Samim & Haseena Khatun W/o- Dawd and Md. Mukhtar S/o-Dawd
				5471	private	Non-Agriculture	0.216	Arfa Khatun W/o-Md. Mukhtar, Md.Hayatuddin S/o-Nisa & Taiyaful Nisa W/o- Md.Isa, Md. Hafula S/o- Habib, Md.Rifan S/o-Sultan, Bedriuddin S/o-Issa and Hazi Shahid S/o-Majid
				5472	private	Agriculture	0.04	Jail Sah & Shamid Sah & Hamid Sah S/o-Aaji Sah
				5473	private	Agriculture	0.072	Jail Ratan S/o- Majloom Ratan and Moti Ratan & Budhy Ratan S/o- betul Ratan
				5476	private	Non-Agriculture	0.036	Galle Ratan, S/o Majloom Ratan and Biby Hasina W/o- Md. Dawd & Mukhtar S/o-Dawd
				5475	private	Non-Agriculture	0.012	Biby Hasina W/o- Md. Dawd & Mukhtar S/o-Dawd
				5481	private	Agriculture	0.056	Md. Noorul Islam S/o- Majhool Haq Md. Noorul Islam
				5484	private	Non-Agriculture	0.184	S/o- Majhool Haq, Md. Jahir S/o- Md. Saif & Rahman, Jiya Ullah S/o-Abdul Razak, Md. Hafula S/o- Habib, Majidur Rahman S/o- Habib & Md. Manjoor S/o-Ismarul Haq, Md. Yahiya S/o-Md.Ismarul Haq, Md. Yahiya S/o-Md.Ismarul Haq and Md. Abbas & Idris S/o- Derman
				5491	private	Non-Agriculture	0.044	Md. Abbas & Idris S/o- Derman
				5494	private	Non-Agriculture	0.06	Md. Badruddin S/o- Sedik, Jiyaullah & Jakaullah S/o- Md. Samsool and Md. Tabass S/o- Jahnool
				5496	private	Non-Agriculture	0.032	Md. Samid S/o-Basil
				5497	private	Non-Agriculture	0.032	Gulam-Mustafa S/o- Issa
				5498	private	Non-Agriculture	0.016	Idris S/o- Derman
				5498	private	Non-Agriculture	0.016	Idris S/o- Derman
			(2)Sudai Ratoli	5	Government	Road	0.028	Bihar Govt.
				88	Private	Agriculture	0.008	Anrudh Sah S/o-Bache Sah
				96	Private	Agriculture	0.004	Sharam Sah & Satya Nr. Sah S/o- Jankidei Sah
				109	Private	Agriculture	0.004	Ramchandra Kamati S/o- Jaidhar Kamati
				589	Government	Road	0.048	Nikamber Lal Sah S/o-Asharfi Lal Sah
				61	Government	Road	2.088	Bihar Govt.
				62	Government	Road	0.112	Bihar Govt.
				66	Government	Road	0.018	Bihar Govt.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				6143	Government	Road	0.056	Bihar Govt.
				6151	Government	Road	0.008	Bihar Govt.
				78	Private	Agriculture	0.128	Ramcharitra Thakur S/o- Sundasr Thakur and Dhaneshwer Kamati S/o-Jhingur Kamati
				8126	Government	Agriculture	0.016	Bihar Govt.
				116	Private	Agriculture	0.036	Dyakati Devi W/o-Mahindra Mandal
				556	Private	Agriculture	0.032	Nilamber Lal Sah S/o-Asharfil Sah
				567	Private	Agriculture	0.02	Baidyanath Pd. Sah S/o-Asharfi Lal Sah
				6146	Government	Road	0.008	Bihar Govt.
				573	Private	Agriculture	0.016	Nilamber Lal Sah S/o-Asharfil Sah
				571	Private	Agriculture	0.008	Devan Mandal
		(3)Khopsa		625	Private	Agriculture	0.072	Maha Mandal S/o- Naseebal Mandal Sakim-Dehe
				627	Government	Road	0.004	Bihar Govt.
				20	Private	Agriculture	0.052	Ramchandra Mandal S/o-Jadhar Mandal Sakim-Dehe, Janak Kamat Sakim-Dehe and Kameshwar Kamat Sakim-Dehe
				123	Government	Road	0.08	Bihar Govt.
				148	Private	Agriculture	0.14	Shashinath Mishra Sakim-Dehe, Kedarnath Mishra Sakim-Dehe and Rajeshwar Mishra S/o-Devnath Mishra Sakim-Dehe
				162	Government	Road	1.472	Bihar Govt.
				163	Government	Road	0.036	Bihar Govt.
				166	Private	Agriculture	0.004	Bajeer Miya S/o- Samsher Miya Sakim-Dehe
				172	Private	Non-Agriculture	0.004	Dilaber Miya S/o- Bholay Miya & Suleman Miya S/o-Pulkit Miya Sakim-Dehe
				187	Private	Non-Agriculture	0.008	Suleman Miya S/o-Pulkit Miya Sakim-Dehe
				188	Private	Non-Agriculture	0.004	Suleman Miya S/o-Pulkit Miya Sakim-Dehe
				184	Private	Non-Agriculture	0.016	Jan Muhammad S/o-Chhedi Miya Sakim-Dehe and Rajesh Mishra S/o-Devnath Mishra
				170	Private	Agriculture	0.024	Rajesh Mishra S/o-Devnath Mishra
				193	Private	Agriculture	0.012	Sushil Mishra S/o-Deenanath Mishra and Rajesh Mishra S/o-Devnath Mishra
				194	Private	Agriculture	0.104	Sushil Mishra S/o-Deenanath Mishra and Rajesh Mishra S/o-Devnath Mishra
				195	Private	Agriculture	0.004	Upendra Mandal & -Nagendra Mandal S/o-Kusheshwar Mandal Sakim-Dehe
				199	Private	Agriculture	0.096	Parixan Mandal S/o-Shravan Mandal Sakim-Dehe, Gopali Mandal S/o- Parilal Mandal Sakim-Dehe and Jagdish Mandal S/o-Thithar Mandal Sakim-Dehe
				201	Private	Agriculture	0.096	Shanti Nath Mishra Sakim-Dehe and Rajesh Mishra S/o-Devnath Mishra
				204	Private	Agriculture	0.032	Rajesh Mishra S/o-Devnath Mishra, Shanti Nath Mishra Sakim-Dehe
				205	Private	Non-Agriculture	0.024	Shambhunath Mishra S/o-Kashinath Mishra & Laxman Mishra S/o- Bholarath Mishra Sakim-Dehe
				206	Private	Non-Agriculture	0.04	Shanti Nath Mishra, S/o Dinanath Mishra
				210	Private	Non-Agriculture	0.092	Gouri Nath Mishra & Kedarnath Mishra & Shashinath Mishra S/o- Bishwanath Mishra Sakim-Dehe, Gouri Nath Mishra & Kedarnath Mishra & Shashinath Mishra S/o- Bishwanath Mishra Sakim-Dehe, Binay Kr Jha & Suman Kr Jha S/o-Rameshwar Mishra Sakim-Dehe, Manoj Thakur S/o-Arun Thakur, Shashinath Mishra Sakim-Dehe, Gouri Nath Mishra, Kedar Nath Mishra S/o-Bishwanath Mishra Sakim-Dehe, Shashinath Mishra Sakim-Dehe and Binay Kr Jha & Suman Kr Jha S/o-Rameshwar Mishra Sakim-Dehe

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				212	Private	Non-Agriculture	0.016	Binay Kr. Jha & Suman Kr. Jha S/o-Rameshwar Mishra Sakim-Dehe and Kedar Nath Mishra S/o-Bishwanath Mishra Sakim-Dehe
				213	Private	Non-Agriculture	0.016	Kedar Nath Mishra S/o-Bishwanath Mishra Sakim-Dehe
				220	Private	Non-Agriculture	0.096	Moti Mandal S/o-Ramjee Mandal Sakim-Dehe, Soti Mandal S/o-Ramjee Mandal Sakim-Dehe, uttim Lal Sah S/o-Ramjee Sah Sakim-Dehe, Jalbeer Jha & Pramod Jha S/o-Surait Jha Sakim-Dehe, Mohan Sah & Sohan Sah S/o- Dhaneshwar Sah, Madhavnath Thakur S/o- Raghunath Thakur, uttim Lal Sah S/o-Ramjee Sah Sakim-Dehe, Rashidul Choudhary & Tripti Nr. Choudhary S/o-Ram Nr. Choudhary, Arjun Jha S/o- Thakkan Jha, Umakant Jha S/o-Thakkan Jha and Shobhakant Jha & Pukit Jha & Amarnath Jha S/o-Thakkan Jha
				219	Private	Agriculture	0.004	Shobhakant Jha & Pukit Jha & Amarnath Jha S/o-Thakkan Jha
				218	Private	Agriculture	0.008	Shambhunath Mishra S/o-Kashinath Mishra Sakim-Dehe
				221	Private	Non-Agriculture	0.04	Jalbeer Jha S/o- Surait Jha
				222	Government	Road	0.004	Bihar Govt.
				224	Private	Non-Agriculture	0.088	Arun Mandal S/o- Siyatal Mandal, Ram Pd. Mandal S/o-Jugeshwar Mandal, Dinesh Kumar & Drip Kumar S/o-Jibachh Sah, Thakay Sah & Siyaram S/o-Gokhul Sah, Shiv Shanker Sah & Luxman Sah S/o-Asharfi Sah, Dev Nr. Sah S/o-Govind Sah Boelal Sah S/o-Moti Sah, Ramdev Sah S/o-Bhole Sah, Jagdish Thakur S/o-Gulli Thakur and Bishwanath Mandal S/o-Makeshwar Mandal,
				230	Private	Non-Agriculture	0.036	Abadh Malik S/o- Raghu Malik Sakim-Dehe, Brajesh Jha S/o-Radharaman Jha, Tulay Thakur S/o- Dukhi Thakur Sakim-Dehe and Kedar Nath Mishra S/o-Bishwanath Mishra Sakim-Dehe
				229	Private	Non-Agriculture	0.028	Brajesh Jha S/o-Radharaman Jha Kedar Nath Mishra S/o-Bishwanath Mishra Sakim-Dehe and Gouri Nath Mishra Sakim-Dehe
				231	Private	Agriculture	0.136	Gouri Nath Mishra Sakim-Dehe, Kedar Nath Mishra S/o-Bishwanath Mishra Sakim-Dehe, Hari Lal Mandal S/o-Ruplal Mandal, Gournath Mishra Sakim-Dehe Shashinath Mishra Sakim-Dehe, Gouri Nath Mishra Sakim-Dehe and Kedar Nath Mishra S/o-Bishwanath Mishra Sakim-Dehe
				239	Private	Agriculture	0.02	Kedar Nath Mishra S/o-Bishwanath Mishra Sakim-Dehe
				232	Private	Agriculture	0.016	Shashinath Mishra & Kedar Nath Mishra S/o-Bishwanath Mishra Sakim-Dehe
				237	Private	Agriculture	0.008	Shashinath Mishra & Kedar Nath Mishra S/o-Bishwanath Mishra Sakim-Dehe
				233	Private	Agriculture	0.066	Gouri Nath Mishra Sakim-Dehe, Kedar Nath Mishra S/o-Bishwanath Mishra Sakim-Dehe, Shashinath Mishra Sakim-Dehe and Kedar Nath Mishra S/o-Bishwanath Mishra Sakim-Dehe
				235	Private	Agriculture	0.028	Gouri Nath Mishra Sakim-Dehe and Gouri Nath Mishra Sakim-Dehe
				234	Private	Agriculture	0.012	Kedar Nath Mishra S/o-Bishwanath Mishra Sakim-Dehe

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				185	Private	Non-Agriculture	0.008	Dilaber Miya S/o- Bholay Miya & Suleman Miya S/o-Pulkit Miya Sakim-Dehe
				189	Private	Non-Agriculture	0.004	Dilaber Miya S/o- Bholay Miya & Suleman Miya S/o-Pulkit Miya Sakim-Dehe
				103	Government	Road	0.004	Bihar Govt.
		(4)Konar		98	Private	Non-Agriculture	0.018	Guam Rasool S/o-Lt. Madhuri Miya Sakim-Dehe
				132	Government	Road	0.008	Bihar Govt.
				584	Private	Agriculture	0.012	Ramrasi Yadav S/o-Sureit Yadav Sakim-Dehe
				567	Private	Agriculture	0.105	Rambahadur yadav S/o-Amrit Yadav Sakim-Dehe and Ramrasi Yadav
				568	Private	Agriculture	0.36	S/o-Sureit Yadav Sakim-Dehe Ramrasi Yadav S/o-Sureit Yadav Sakim-Dehe and Sitaram Yadav
				548	Private	Agriculture	0.392	S/o-Abadh Yadav Sakim-Dehe Sitaram Yadav S/o-Abadh Yadav Sakim-Dehe and Sitaram Yadav
				723	Private	Non-Agriculture	0.1	S/o-Jibath Yadav Sakim-Dehe Budhan S/o Lt. Ishad, Md Kashim S/o Lt Md. Jibrai
				734	Private	Non-Agriculture	0.084	Jaan Mohammad S/o-Lt.Chhedl Miya Sakim-Dehe, Md.Jaili S/o-Lt.Baidhu Miya Sakim-Dehe, Md.Gaffur & Khalil & Suleman S/o-Budhu Miya Sakim- Dehe, Khush Mohammad & Md.Ibraisi & Subhan & Oukhi S/o-Shekhavat Sakim-Dehe and Md.Mustafa S/o-Lt.Md.Riyafat Miya Sakim-Dehe
				738	Private	Agriculture	0.008	Md.Mustafa S/o-Lt.Md.Riyafat Miya Sakim-Dehe
				733	Private	Agriculture	0.028	Dil Mohammad S/o-Bachcha Miya Sakim-Dehe and Md.Ali Haq
				740	Private	Non-Agriculture	0.008	S/o-Islam Sakim-Dehe Bahid
				730	Private	Non-Agriculture	0.008	S/o-Samsher Miya Sakim-Dehe Bahid
				729	Private	Agriculture	0.252	Bajeer Miya S/o-Samsher Miya Sakim-Dehe, Jaili Miya S/o-Boudhu Miya Sakim-Dehe, Bajeer Miya S/o-Samsher Miya & Jaili Miya S/o-Boudhu Miya Sakim-Dehe, Bajeer Miya S/o-Samsher Miya Sakim-Dehe and Bahid Miya S/o-Lt. Jameel Miya Sakim-Dehe
				724	Private	Agriculture	0.016	Md.Budhan S/o-Lt.Ishak Sakim-Dehe
				726	Private	Agriculture	0.052	Md. Sakel S/o-Sakhavat Sakim-Dehe and Md. Hakim S/o-Sakhavat Sakim-Dehe
				727	Private	Agriculture	0.004	Jaili Miya S/o-Boudhu Miya Sakim-Dehe
				709	Government	Road	0.004	Bihar Govt.
				708	Private	Agriculture	0.014	Bhola Yadav S/o-Chua Yadav Sakim-Dehe and Ganga pandey S/o-Belbhadra Pandey Sakim-Dehe
				707	Private	Agriculture	0.064	Tirpit Yadav S/o-Lt.Jeevan Yadav Sakim-Dehe, Chanuran Yadav S/o-Shridhar Yadav Sakim-Dehe and Chanuran Yadav S/o-Shridhar Yadav Sakim-Dehe
				704	Private	Non-Agriculture	0.092	Tirpit Mishra S/o-Lt.Bheem Mishra Sakim-Dehe, Tirpit Mishra S/o-Lt.Bheem Mishra Sakim-Dehe and Ram Autar Yadav S/o-Lt.Banshilal Yadav Sakim-Dehe
				703	Private	Agriculture	0.02	Sitaram Yadav S/o-Abadh Yadav Sakim-Dehe
				702	Private	Non-Agriculture	0.028	Sitaram Yadav S/o-Abadh Yadav Sakim-Dehe
				681	Government	Road	0.024	Bihar Govt.
				657	Private	Agriculture	0.012	Rambahadur yadav S/o-Amrit Yadav Sakim-Dehe
				656	Private	Agriculture	0.016	Rambahadur yadav S/o-Amrit Yadav Sakim-Dehe
				655	Government	Non-Agriculture	0.036	Bihar Government (School)
				652	Government	Non-Agriculture	0.032	Bihar Government (School)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				648	Private	Agriculture	0.112	Bahadur Yadav S/o-Sotay Yadav Sakim-Dehe, Shiv Nr. Yadav S/o-Saheveer Yadav Sakim-Dehe and Dev Nr. Yadav S/o-Mahaveer Yadav Sakim-Dehe Tezai Yadav
				644	Private	Agriculture	0.028	S/o-Uchit Lal Yadav Sakim-Dehe Bhagwati Yadav
				612	Private	Agriculture	0.032	S/o-Rasul Yadav Sakim-Dehe
				611	Government	Agriculture	0.044	Bihar Govt.
				610	Private	Agriculture	0.144	Hesay Saday S/o-Moti Saday Sakim-Dehe, Modi Saday S/o-Jadu Saday Sakim-Dehe and Sita Sati S/o-Harichandra Das Sakim-Dehe
				608	Private	Agriculture	0.056	Ram Sundar Yadav S/o-Tunuk Lal Yadav Sakim-Dehe
				607	Private	Agriculture	0.024	Dani Yadav S/o-Raghuwandan Yadav Sakim-Dehe
				598	Government	Agriculture	0.004	Bihar Govt.
				1059	Private	Agriculture	0.04	Sitaram Yadav S/o-Abadh Yadav Sakim-Dehe and Moti Paswan S/o-Sangan Paswan Sakim-Dehe
				596	Private	Agriculture	0.024	Yugai Kishore Yadav S/o-Dhoge Yadav Sakim-Dehe
				595	Private	Agriculture	0.044	Higam Lal Yadav S/o-KuKuru Yadav Sakim-Dehe and Fudan Yadav S/o-Ganey Yadav Sakim-Dehe
				594	Private	Agriculture	0.028	Shivmath Thakur S/o-Agam Thakur Sakim-Dehe
				589	Private	Agriculture	0.528	Jugal Lal Yadav Sakim-Dehe
				593	Government	Agriculture	0.02	Bihar Govt.
				592	Government	Agriculture	0.024	Bihar Govt.
				591	Private	Agriculture	0.024	Kapil Dev Thakur S/o-Bindeshwar Thakur Sakim-Dehe
				590	Private	Agriculture	0.016	Ramchandra Thakur Sakim-Dehe
				589	Private	Agriculture	0.024	Agam Thakur Sakim-Dehe
				570	Government	Agriculture	0.12	Bihar Govt.
				134	Government	Road	0.112	Bihar Govt.
				571	Government	Road	0.052	Bihar Govt.
				572	Private	Agriculture	0.012	Rambahadur Yadav, S/o Khudan Yadav
				581	Government	Road	0.008	Bihar Govt.
				519	Government	River	0.048	Bihar Govt.
			(5)Bishanpur Garhhatol	878	Government	Non-Agriculture	0.064	Bihar Govt.
				916	Private	Non-Agriculture	0.028	Bal Krishna Jha & Shivkant Jha S/o- Jeevmath Kijha Sakim- Dehe
				917	Private	Non-Agriculture	0.016	Dhangraj Jha S/o-Amir Jha & Shyam Jha S/o-Krishnanda Jha Sakim-Dehe
				918	Private	Agriculture	0.008	Hari Mohan Jha S/o- Sushil Jha Sakim-Dehe
				923	Government	Road	0.02	Bihar Govt.
				926	Government	Road	0.032	Bihar Govt.
				831	Government	Road	0.16	Bihar Govt.
				932	Private	Agriculture	0.048	Ramkisan Thakur S/o- Matar Thakur Sakim-Dehe
				937	Government	Road	0.01	Bihar Govt.
				940	Private	Agriculture	0.148	Ganpati Thakur S/o-Mangal Thakur Sakim-Dehe, Bidhay Thakur S/o- Mangal Thakur Sakim-Dehe, Ramkisan Thakur S/o- Matar Thakur Sakim-Dehe, Mangnu Thakur S/o-Mattar Thakur Sakim-Dehe, Kari Thakur S/o-Matar Thakur Sakim-Dehe, Shatishchandra Jha S/o-Bhup Nr. Jha Sakim-Dehe, Kumer Jha S/o- Mathura Jha Sakim-Dehe and Mishrital Thakur S/o-Pachu Thakur Sakim-Dehe
				943	Private	Agriculture	0.008	Mishrital Thakur S/o-Pachu Thakur Sakim-Dehe
				944	Private	Agriculture	0.052	Krishnend Jha S/o-Kusheshwar Jha Sakim-Dehe
				945	Private	Agriculture	0.068	Janki Pd. S/o-Kusheshwar Jha Sakim-Dehe and Krishnend Jha S/o-Kusheshwar Jha Sakim-Dehe
				949	Private	Agriculture	0.02	harsh Nr. Jha S/o- Anup Nr. Jha Sakim-Dehe
				950	Private	Non-Agriculture	0.02	Bahadur Ram S/o-Kanti Ram Sakim-Dehe

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				951	Government	Non-Agriculture	0.032	Bihar Govt.
				952	Private	Non-Agriculture	0.004	Kailu Ram S/o- Khushi Lal Ram Sakim-Dehe
				956	Private	Non-Agriculture	0.084	Kailu Ram S/o- Khushi Lal Ram Sakim-Dehe, Govind & Chhotkan & Bouku Ram & Panchu Ram S/o-Khushilal Ram Sakim-Dehe and Govind & Chhotkan & Bouku Ram & Panchu Ram S/o-Khushilal Ram Sakim-Dehe
				955	Private	Non-Agriculture	0.004	Domi Ram & Chandu Ram S/o- Budhan Ram Sakim-Dehe
				957	Private	Non-Agriculture	0.024	Domi Ram & Chandu Ram S/o- Budhan Ram Sakim-Dehe
				1076	Private	Agriculture	0.008	Chiranjeev Jha S/o-Bouan Jha & Bechan Jha S/o- Harischandra Jha & Akhilesh Jha S/o-Dev Krishna Jha & Krit Nr. Jha S/o-Badri Jha Sakim-Dehe
				1124	Private	Non-Agriculture	0.008	Devki W/o-Khattar Thakur Sakim-Dehe
		(6)Sijaulia		3956	Private	Agriculture	0.048	Arun Jha S/o-Lt.Bhuvneshwar Jha Sakim-Dehe and Nirvai Jha S/o- Lt.Chaturanand Jha Navin Jha S/o-Alif Jha Sakim-Dehe
				3959	Private	Agriculture	0.08	Arun Jha S/o-Lt.Bhuvneshwar Jha Sakim-Dehe and Nirvai Jha S/o- Lt.Chaturanand Jha Navin Jha S/o-Alif Jha Sakim-Dehe
				3873	Government	Agriculture	0.072	Bihar Govt.
				3869	Government	Agriculture	0.048	Bihar Govt.
				4515	Private	Agriculture	0.032	Gouri Shanker Jha S/o-Murut Jha Sakim-Dehe
				4510	Government	Road	1.008	Bihar Govt.
				4531	Government	Road	0.1	Bihar Govt.
				3398	Private	Non-Agriculture	0.056	Yadulal Yadav S/o-Lt. Boelal Yadav Sakim-Dehe
				3397	Private	Agriculture	0.092	Mahinder Jha S/o Ghuran Jha, Kapildev Rai S/o Lt. Sukhdev Rai and Salan yadav S/o Lt. Gudri Yadav
				4564	Private	Agriculture	0.096	Rajesh Jha S/o-Lt. Indrakant Jha Sakim-Dehe, Bojee Jha S/o-Lt. Shiv Shanker Jha Sakim-Dehe, Rajindra Jha S/o-Lt.Jitu Jha Sakim-Dehe and Dilip Kr. Jha S/o-Lt.Fuleshwar Jha Sakim-Dehe
				4563	Private	Agriculture	0.04	Sumitra Devi W/o- Lt.Ramdev Yadav Sakim-Dehe
				4562	Private	Agriculture	0.04	Sumitra Devi W/o- Lt.Ramdev Yadav Sakim-Dehe and Jay Kishore Mishra S/o-Lt.Yaduveer Mishra Sakim-Dehe
				4560	Private	Agriculture	0.044	Bojee Jha S/o-Lt. Shiv Shanker Jha Sakim-Dehe
				4547	Private	Agriculture	0.096	Jay Nr. Yadav S/o-Ramdev Yadav Sakim-Dehe and Dev Nr. Yadav S/o-Kapildev Yadav Sakim-Dehe
				4548	Private	Agriculture	0.012	Prithvi Lal Yadav S/o-Lt.Bangali Yadav Sakim-Dehe
				4543	Private	Agriculture	0.1	Dayanand Jha S/o- Sahdev Jha Sakim-Dehe and Ganganand Jha S/o- Lt. Jay Nr. Jha Sakim-Dehe
				4542	Private	Agriculture	0.04	Ganganand Jha S/o- Lt. Jay Nr. Jha Sakim-Dehe, Ashok Jha S/o- Ganesh Jha Sakim-Dehe, Uday Nr. Jha S/o- Mahesh Jha Sakim-Dehe and Shanker Jha S/o-Kapleshwar Jha Sakim-Dehe
				4539	Private	Agriculture	0.024	Ashok Jha S/o- Ganesh Jha Sakim-Dehe and Uday Nr. Jha S/o- Mahesh Jha Sakim-Dehe
				4538	Private	Agriculture	0.016	Shanker Jha S/o-Kapleshwar Jha Sakim-Dehe
				4537	Private	Agriculture	0.008	Shanker Jha S/o-Kapleshwar Jha Sakim-Dehe
				4536	Private	Agriculture	0.024	boua Devi urf-Meena Devi W/o- Boua Jha Sakim-Dehe
				4533	Government	Road	0.096	Bihar Govt.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4897	Private	Agriculture	0.136	Navindra Jha S/o-Lt. Gangeshwar Jha Sakim-Dehe and Yogendra Mandal & Ganga Ram Mandal S/o-Jaydev Mandal Sakim-Dehe
				4809	Government	Agriculture	0.008	Bihar Govt.
				4812	Private	Agriculture	0.004	Jaychandra Jha S/o-Devkant Jha Sakim-Dehe
				3971	Private	Agriculture	0.02	Jugeshwar Mandal S/o-Chuthay Mandal Sakim-Dehe
				3988	Private	Agriculture	0.04	Lekh Nr. Jh S/o-Lt. Nandeshwar Jha Sakim-Dehe
				3994	Private	Agriculture	0.02	Chitra Nr. Jha S/o-Lt. Dukhmochan Jha Sakim-Dehe
		(7)Brahmpur		131	Private	Agriculture	0.024	Shyamchandra Jha S/o-Nunu Jha Sakim-Dehe
				132	Government	Road	0.0228	Bihar Govt.
				134	Government	Road	0.01	Bihar Govt.
				135	Private	Agriculture	0.056	Kalu Sah S/o-Neva Jee Sah & Bishwanath Sah S/o- Laxmi Sah Sakim- Dehe
				136	Private	Agriculture	0.012	Sarojanand Jha S/o-Madanand Jha Sakim-Dehe
				137	Private	Agriculture	0.012	Lajee Mishra Sakim-Dehe
				214	Government	Agriculture	0.013	Bihar Govt.
				1250	Private	Agriculture	0.024	Md. Hamid Raian S/o-Samjuddin Raian Sakim-Dehe
				1245	Private	Non-Agriculture	0.032	Md. Shahid Raian & Md. Jameel Raian S/o Baldeo Raian Sakim- Dehe, Md. Mushim & Md. Isham Urf-Mohanjee S/o-Nurul Hauda Sakim-Dehe and Md. Yunus Rayin & Md. Mumtaz Alam S/o-Riyasat Husain Sakim-Dehe
				1244	Private	Non-Agriculture	0.042	Md. Idriah Raian S/o-Md. Thakay Raian Sakim-Dehe and Md. Khalil & Md. Jamil & Md. Yunus S/o- Yakub Ansari Sakim-Dehe
				1243	Private	Non-Agriculture	0.03	Md. Mustakim & Mustafa & Kayum & Nurul Hasan S/o- Md. Ansari Sakim-Dehe, Bishwanath Jha S/o-Tirpit Nr. Jha Sakim-Dehe and Md. Johra Khatun W/o-Naveeja Ansari Sakim-Dehe
				1236	Private	Non-Agriculture	0.024	Anil Kr. Jayswal S/o-Mahaveer Choudhary Sakim-Dehe
				9082	Private	Non-Agriculture	0.244	Anwarul Haq Ansari S/o-Md. Ishak Ansari Sakim-Dehe, Majid S/o- Hanif Sakim-Dehe, Inamul Haq S/o-Ishak Asari Sakim-Dehe, Rijwanul Haq Ansari S/o- Md. Ishak Ansari Sakim-Dehe, Inamul Haq S/o-Ishak Asari Sakim-Dehe, Islamiul Haq Ansari S/o- Md. Ishak Ansari Sakim-Dehe and Anwarul Haq Ansari S/o- Ishak Ansari Sakim-Dehe
				1282	Private	Non-Agriculture	0.04	Anil Kr. Jayswal S/o-Mahaveer Choudhary Sakim-Dehe
				1281	Private	Non-Agriculture	0.038	Anil Kr. Jayswal S/o-Mahaveer Choudhary Sakim-Dehe and Md. Majibul Raian & Manjoor Raian S/o-Noor Mohammad Raian Sakim-Dehe
				1283	Private	Non-Agriculture	0.032	Pramod Jayswal S/o- Mahaveer Choudhary Sakim-Dehe
				1284	Private	Non-Agriculture	0.008	Pramod Jayswal S/o- Mahaveer Choudhary Sakim-Dehe
				1286	Government	Road	0.0632	Bihar Govt.
				1563	Private	Non-Agriculture	0.02	Pramod Jayswal S/o- Mahaveer Choudhary Sakim-Dehe and Md. Khalil Ansari S/o-Kari Ansari Sakim-Dehe
				1571	Private	Non-Agriculture	0.028	Md. Samina Khatun W/o- Sultan Ansari Sakim-Dehe, Md. Jahid Husain S/o-Ahmad Ansari Sakim-Dehe and Sabir Ansari S/o-Yasin Ansari Sakim-Dehe
				1570	Private	Non-Agriculture	0.018	Safiuurrahman Rahman S/o-Noor Mohammad Sakim-Dehe, Md. Irfan Ansari S/o-Taslim Ansari & Md. Yasin Ansari S/o- Bilal Ansari Sakim-Dehe and Md Yasin Ansari S/o Md. Bilal Ansari & Md Sabbir Ansari S/o Yasin Ansari

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1600	Private	Non-Agriculture	0.024	Sobhit Yadav S/o-Yaru Yadav Sakim-Dehe, Anup Nr. Jha Sakim-Dehe, Devendra Jha & Jitendra Jha & Malik Jha S/o-Buchan Jha, Deevakar Jha S/o-Upendra Jha Sakim-Dehe and Gourishanker Sah Prabha S/o-Chanda Sah Sakim-Dehe
				1608	Private	Non-Agriculture	0.002	Dilip Kumar Jha S/o Satyanarayan Jha & Triok Jha & Babu Sah Jha S/o Kheta Nand Jha & Gudu Jha S/o-Kamal Nr. Jha Sakim-Dehe
				1556	Government	Road	0.0788	Bihar Govt.
				1553	Private	Non-Agriculture	0.002	Md. Khalil S/o-Guffar Sakim-Dehe
				1555	Private	Non-Agriculture	0.006	Md. Asiya W/o- Ehsan Ansari & Kurban Ansari S/o- Guffar Sakim-Dehe
				1554	Private	Non-Agriculture	0.008	Md. Asiya W/o- Ehsan Ansari & Kurban Ansari S/o- Guffar Sakim-Dehe
				1556	Private	Non-Agriculture	0.004	Md. Usman Ansari S/o-Lettar Ansari Sakim-Dehe
				1559	Private	Non-Agriculture	0.008	Md. Usman Ansari S/o-Lettar Ansari Sakim-Dehe
				1513	Private	Non-Agriculture	0.024	Md. Yasin Ansari S/o-Bilat Ansari Sakim-Dehe
				1507	Private	Non-Agriculture	0.002	Md. Kulsham S/o-Salamat Ansari Sakim-Dehe
				1487	Private	Non-Agriculture	0.048	Sarojanand Jha S/o-Modanand Jha Sakim-Dehe and Binodanand Jha Sakim-Dehe
				1485	Private	Non-Agriculture	0.008	Binodanand Jha Sakim-Dehe
				1486	Private	Non-Agriculture	0.002	Binodanand Jha Sakim-Dehe
				1474	Government	Road	0.0988	Bihar Govt.
				1478	Private	Non-Agriculture	0.032	Fulendra Nr. Jha S/o-Jagat Nr. Jha Sakim-Dehe
				1482	Government	Road	0.1184	Bihar Govt.
				1562	Government	Road	0.0158	Bihar Govt.
				4938	Private	Non-Agriculture	0.344	Punyanand Jha Sakim-Dehe, Sanjeev Kr. Jha Sakim-Dehe, Sarojanand Jha S/o-Modanand Jha Sakim-Dehe, Bonodanand Jha Sakim-Dehe Ramanjee Jha S/o- Lt. Suryakant Jha Sakim-Dehe, Anil Kr. Yadav S/o-Ganga Pd. Yadav & Sanjeev Kr. S/o- Kamal Nr. Yadav & Bharat Kr. S/o-Jibachh, Rambilas S/o-Sobhit Yadav, Ram Nr. S/o- Jugut Yadav Sakim-Dehe, Jugut Lal Yadav S/o-Naubat Yadav and Dinesh & Ramesh Yadav S/o- Jagdish Yadav Sakim-Dehe
				4940	Government	Road	0.08	Bihar Govt.
				1235	Private	Non-Agriculture	0.132	Anil Kr. Jayswal S/o-Mahaveer Choudhary Sakim-Dehe, Anil Kr. Jayswal S/o-Mahaveer Choudhary Sakim-Dehe, Girdhar Jha S/o-Jay Nr. Jha Sakim-Dehe, Harsh Nr. Jha S/o-Ram Anugrah Jha Sakim-Dehe, Lalan Kr. Jha S/o-Babu Nr. Jha Sakim-Dehe and Sarva Nr. Jha S/o-Tirpit Nr. Jha Sakim-Dehe
				1234	Private	Non-Agriculture	0.004	Md. Maksud Alam S/o- Taslim Ansari Sakim-Dehe
				4849	Private	Non-Agriculture	0.032	Jugut Lal Yadav S/o-Naubat Yadav & Dinesh & Ramesh Yadav S/o- Jagdish Yadav Sakim-Dehe
				2188	Private	Agriculture	0.01	Sarojanand Jha S/o-Modanand Jha Sakim-Dehe
				4833	Private	Agriculture	0.078	Prem Lal Yadav Sakim-Dehe
				4827	Private	Agriculture	0.192	Binodanand Jha Sakim-Dehe and Sanjeev Kr. Jha Sakim-Dehe
				4828	Private	Agriculture	0.04	Ramcharan Yadav & Dukhi Yadav S/o- Bhullar Yadav Sakim- Dehe
				4829	Private	Agriculture	0.016	Ganeshi Yadav S/o-Lt. Bholi Yadav Sakim-Dehe
				2233	Private	Agriculture	0.04	Ramcharan Yadav & Dukhi Yadav S/o- Bhullar Yadav Sakim- Dehe
				2234	Private	Agriculture	0.176	Fooldev Yadav S/o- Lt. Parav Yadav Sakim-Dehe

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2235	Private	Agriculture	0.112	Yogendra Yadav S/o- Dorik Yadav Sakim-Dehe and Jagranath Yadav S/o-Siteram Yadav Sakim Dehe
				2236	Private	Agriculture	0.072	Jagranath Yadav S/o-Siteram Yadav Sakim Dehe
				2332	Government	Road	0.0118	Bihar Govt.
				2228	Government	Road	0.0828	Bihar Govt.
				2237	Government	Road	0.1224	Bihar Govt.
				4826	Government	Road	0.0196	Bihar Govt.
				4952	Government	Road	0.0672	Bihar Govt.
				4944	Private	Agriculture	0.024	Nilamber Jha Sakim-Dehe
				4942	Private	Agriculture	0.04	Nilamber Jha S/o-Lt Gangadhar Jha & Chandranath Jha S/o- Jatadhar Jha Sakim-Dehe
				4948	Private	Agriculture	0.042	Binodanand Jha Sakim-Dehe, Punyanand Jha Sakim-Dehe, Sanjeev Kr Jha Sakim-Dehe and Sarojanand Jha S/o-Madanand Jha Sakim-Dehe
				4949	Government	Non-Agriculture	0.012	Bihar Govt.
				4593	Private	Agriculture	0.108	Dhirendra Jha & Surendra Jha S/o-Shyam Sundar Jha Sakim-Dehe and Krishnand Jha S/o-Bindunath Jha Sakim-Dehe
				4594	Private	Agriculture	0.012	Krishnand Jha S/o-Bindunath Jha Sakim-Dehe
				4795	Private	Agriculture	0.01	Surya Nr. Choudhary Sakim-Dehe
				4770	Private	Agriculture	0.056	Indra Nr. Singh S/o- Lt. Mahant Singh Sakim-Dehe
				2340	Private	Agriculture	0.04	Hareram Yadav S/o-Khushlal Yadav Sakim-Dehe
				2348	Private	Agriculture	0.032	Laxmi Sah S/o-Keshwer Sah Sakim-Dehe
				2349	Private	Agriculture	0.056	Raghunath Yadav Sakim-Dehe
				2389	Private	Agriculture	0.002	Jhunai Yadav S/o-Ishwar Yadav Sakim-Dehe
				2500	Private	Agriculture	0.248	Raj Kr. Yadav Sakim-Dehe
				2501	Private	Agriculture	0.128	Raj Kr. Yadav Sakim-Dehe
				2333	Government	Road	0.0238	Bihar Govt.
				2238	Private	Agriculture	0.192	Hareram Yadav S/o-Khushlal Yadav Sakim-Dehe and Mahendra Yadav &Amil Kr. Yadav S/o-Shivmandan Yadav Sakim-Dehe
				2288	Private	Agriculture	0.104	Bikaw Yadav Sakim-Dehe
				2289	Private	Agriculture	0.096	Ramchalitra Yadav & Binod Yadav S/o-Jyatal Yadav Sakim-Dehe
				2308	Private	Agriculture	0.02	Krishna Lal Yadav S/o-Ishwar Nr. Yadav Sakim-Dehe
				2309	Private	Agriculture	0.078	Tripit Lal Yadav & Prithvi Lal Yadav S/o-Mungatal Yadav Sakim-Dehe
				2310	Private	Agriculture	0.088	Hem Nr. Jha S/o-Bouan Jha Sakim-Dehe
				2324	Private	Agriculture	0.112	Krishnalal Yadav Sakim-Dehe
				2321	Private	Agriculture	0.004	Devsunder Yadav S/o-Jugalal Yadav Sakim-Dehe
				2325	Private	Agriculture	0.064	Krishnalal Yadav Sakim-Dehe
				2328	Private	Agriculture	0.028	Ganga Pd. Yadav S/o-Bhola Yadav Sakim-Dehe and
				2329	Private	Agriculture	0.04	Ramcharan Yadav & Dukhi Yadav S/o- Bhullar Yadav Sakim- Dehe
				2330	Private	Agriculture	0.064	Tripit Yadav & pulkit Yadav & Ram Kr. Yadav S/o-Ayodhi Yadav Sakim-Dehe
				2520	Private	Agriculture	0.008	Shri Lal Sah S/o-Laxman Sah Sakim-Dehe
				2521	Private	Agriculture	0.062	Jasholal Yadav S/o-Sifait Yadav Sakim-Dehe
				3403	Private	Agriculture	0.136	Swaroop Lal Yadav S/o-Chhattar Yadav Sakim-Dehe, Laxmi Sah S/o- Achhe Sah Sakim-Dehe and Jagdish Thakur S/o-Ramsunder Thakur Sakim-Dehe
				2707	Government	Agriculture	0.0888	Bihar Govt.
				3217	Government	Agriculture	0.0392	Bihar Govt.
				3400	Private	Agriculture	0.192	Brajmohan Jha Sakim-Dehe and Balakant Jha Sakim-Dehe

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3395	Private	Agriculture	0.132	Jagdish Kumar Sakim-Dehe, Balakant Jha Sakim-Dehe and Brajmohan Jha Sakim-Dehe
				3381	Private	Agriculture	0.054	Ajay & Bijay Singh S/o-Ram Chandra Singh Sakim- Dehe, Sanjay Singh S/o Ramlakhan Singh Sakim-Dehe and Ajay & Bijay Singh S/o-Ram Chandra Singh Sakim- Dehe
			(8)Phulparas	487	Private	Non-Agriculture	0.048	Sujan Devi S/o-Pnthivi Lal Yadav Sakim-Dehe, Krishna Kumar Pandey S/o-Lt. Shivnath Prasad Pandey Sakim-Dehe, Maheshwer Pandey S/o-Sarva Nr. Pandey Sakim-Dehe
				471	Government	Road	1.05	Bihar Govt.
				498	Government	Road	0.048	Bihar Govt.
				3785	Government	Road	0.044	Bihar Govt.
				3762	Government	Road	0.084	Bihar Govt.
				3761	Government	Road	0.032	Bihar Govt.
				496	Private	Non-Agriculture	0.104	Jagdish Thakur S/o-Lt. Misa Lal Thakur Sakim-Dehe, Ramashanker Thakur Naseeb Lal Thakur Sakim-Dehe Ramsagar Thakur S/o-Lt. Jhabi Thakur Sakim-Dehe
				477	Private	Agriculture	0.072	Ramcharitra Sah S/o-Lt. Buchkun Sah, Shyam Sunder Sah S/o- Buchkun Sah Sakim-Dehe and Turantial Sah S/o- Bansilal Sah Sakim-Dehe
				729	Private	Non-Agriculture	0.016	Rampreet Sah S/o- Domi Sah & Braj Kishore Sah S/o-Yugut Lal Sah Sakim-Dehe
				735	Private	Non-Agriculture	0.018	Tezilal Thakur S/o-Lt. Devi Thakur Sakim-Dehe and Ramudgar Thakur S/o-Bhageshwer Thakur Sakim-Dehe
				748	Private	Non-Agriculture	0.012	Duniyalal Thakur Pratap Thakur Sakim-Dehe, Bhoia Pd. Thakur Jangilal Thakur Sakim-Dehe and Raj Kumar Dubey S/o-Bindeshwari Dubey & Ram Sunder Yadav S/o-Lt. Kamal Nr. Yadav Sakim-Dehe
				854	Government	Agriculture	0.528	Bihar Govt.
				856	Private	Non-Agriculture	0.0012	Saraswati Devi Bishwanath Tiwari Sakim-Dehe
				885	Private	Non-Agriculture	0.002	Chandreshwer Sah S/o-Tez Nr. Sah Sakim-Dehe
				886	Private	Non-Agriculture	0.002	Ramchandra Sah Tez Nr. Sah Sakim-Dehe
				891	Government	Road	0.0012	Bihar Govt.
				892	Private	Non-Agriculture	0.008	Tapeswari Sah S/o-Surya Nr. Sah Sakim-Dehe
				893	Private	Non-Agriculture	0.01	Ram Pd. Sah & Prasad Sah S/o-Bhanu Sah Sakim-Dehe
				895	Private	Non-Agriculture	0.006	Gaya Pd. Sah Bhanu Sah Sakim-Dehe
				954	Government	Non-Agriculture	0.01	Bihar Govt.
				955	Government	Non-Agriculture	0.008	Bihar Govt.
				956	Government	Non-Agriculture	0.004	Bihar Govt.
				959	Government	Non-Agriculture	0.016	Registry Office Dev Nandan Sah S/o-Ram Nr. Choudhary Sakim-Dehe, Raghnandan Sah Ramnandan Sah Sakim-Dehe, Jaymandan Sah S/o-Ramnandan Sah Sakim-Dehe, Guneshwer Sah S/o-Surya Nr. Sah Sakim-Dehe and Tapeswari Sah S/o-Surya Nr. Sah Sakim-Dehe
				960	Private	Non-Agriculture	0.01	Dev Nandan Sah S/o-Ram Nr. Choudhary Sakim-Dehe, Harinandan Sah S/o-Ramnandan Sah Sakim-Dehe and Raghnandan Sah Ramnandan Sah Sakim-Dehe
				962	Government	Road	0.008	Bihar Govt.
				1099	Private	Non-Agriculture	0.008	Lallu Pd. Sah S/o-Ganeshi Sah Sakim-Dehe
				1100	Private	Non-Agriculture	0.004	Lallu Pd. Sah S/o-Ganeshi Sah Sakim-Dehe
				1139	Government	Road	0.008	Bihar Govt.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1162	Private	Non-Agriculture	0.024	Dukhi Yadav S/o-Jhingur Yadav Sakim-Dehe and Jibachh Yadav S/o-Dular Yadav Sakim-Dehe
				1186	Government	Agriculture	0.086	Bihar Govt.
				1242	Private	Agriculture	0.004	Anup Yadav & Dular Yadav & Dukhi Yadav S/o-Bhagwat Yadav Sakim-Dehe
				1251	Government	Agriculture	0.088	Bihar Govt.
				2527	Government	Road	0.396	Bihar Govt.
				2507	Private	Agriculture	0.018	Brijnandan Yadav S/o-Rasiklal Yadav Sakim-Dehe
				2499	Government	Road	0.066	Bihar Govt.
				272	Government	Non-Agriculture	0.08	Bihar Govt.
				273	Government	Non-Agriculture	0.064	Bihar Govt.
				274	Government	Non-Agriculture	0.016	Bihar Govt.
				275	Government	Non-Agriculture	0.032	Bihar Govt.
				276	Government	Non-Agriculture	0.08	Bihar Govt.
				277	Government	Non-Agriculture	0.06	Bihar Govt.
				278	Government	Non-Agriculture	0.004	Bihar Govt.
				282	Government	Non-Agriculture	0.02	Bihar Govt.
				217	Government	Road	0.048	Bihar Govt.
				219	Private	Non-Agriculture	0.002	Bindeshwari Yadav S/o-Bachulal Yadav & Ram Kumar Yadav S/o- Lt.Digamber Yadav & Sugamber Yadav & Subhnath Yadav & Birendra Yadav S/o- Lt.Banshilal Yadav & Jitendra Yadav S/o-Lt. Naseeb Lal Yadav Sakim-Dehe
				220	Private	Non-Agriculture	0.012	Rakesh Kumar & Rajesh Kumar S/o-Ram Kumar Yadav & Rajan Kumar S/o-Ashok Kr.Yadav Sakim- Dehe
				221	Government	Road	0.018	Bihar Govt.
				207	Government	Road	0.128	Bihar Govt.
				153	Private	Agriculture	0.088	Baleskant Jha & Mohanjee Jha S/o-Satya Nr. Jha Sakim- Dehe
				495	Private	Agriculture	0.008	Siyaram Thakur S/o-Lt. Amleshwar Thakur Sakim-Dehe
				906	Government	Road	0.002	Bihar Govt.
				216	Government	Road	1.896	Bihar Govt.
		(9)Mahthor		9165	Private	Agriculture	0.004	Ram Prakash Sah Boulal Sah Sakim-Dehe
				9107	Private	Agriculture	0.06	Prabhu Yadav S/o-Dhanpati Yadav Sakim-Dehe
				9108	Private	Agriculture	0.052	Prabhu Yadav S/o-Dhanpati Yadav Sakim-Dehe
				9105	Private	Agriculture	0.072	Prabhu Yadav S/o-Dhanpati Yadav Sakim-Dehe
				9103	Private	Agriculture	0.076	Prabhu Yadav S/o-Dhanpati Yadav Sakim-Dehe
				9102	Private	Agriculture	0.029	Prabhu Yadav S/o-Dhanpati Yadav Sakim-Dehe
				9098	Private	Agriculture	0.008	Asharfi Yadav S/o-Lt. Sunder Yadav Sakim-Dehe
				9000	Private	Agriculture	0.044	Prabhu Yadav S/o-Dhanpat Yadav Sakim-Dehe
				9099	Private	Agriculture	0.012	Prabhu Yadav S/o-Dhanpat Yadav Sakim-Dehe
				8291	Private	Agriculture	0.172	Hari Nr. Yadav Anandlal Yadav S/o-Jibachh Yadav Sakim dehe and Harekriahna Yadav Urif-Kari Yadav S/o-Rami Yadav Sakim-Dehe
				8280	Private	Agriculture	0.052	Bajrang Yadav S/o-Lt. Uttim Lal Yadav Sakim-Dehe
				8279	Private	Agriculture	0.076	Jageshwar Yadav & Raj Kr. Yadav S/o-Lt. Partelal Yadav Sakim- Dehe and Khushi Lal Yadav S/o-Bhola Yadav Sakim-Dehe
				8278	Private	Agriculture	0.08	Sukal Sah S/o- Ramfal Sah Sakim-Dehe and Sukhari Yadav S/o- Lt. Bachu Yadav Sakim-Dehe
				8260	Private	Agriculture	0.144	Jagdish Sah S/o-Kisan Sah Sakim-Dehe, Shivjee Sah & Ramchandra Sah & Shyam Sunder Sah & Surya Nr. Sah & Lalit Sah S/o-Kalu Sah Sakim-Dehe and Dev Nr. Sah S/o-Raghuandan Sah Sakim-Dehe
				8259	Private	Agriculture	0.006	Dev Nr. Sah S/o-Raghuandan Sah Sakim-Dehe
				8258	Private	Agriculture	0.056	Dev Nr. Sah S/o-Raghuandan Sah Sakim-Dehe and Bouku Yadav S/o-bachun Yadav Sakim-Dehe
				8257	Private	Agriculture	0.032	Ram Avtar Yadav S/o-Mahaveer Yadav & Raj Nr. Yadav S/o-Lt. Buddi Yadav Sakim-Dehe

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				8220	Private	Agriculture	0.028	Rajendra Mandal & Desrath Mandal & Bhagirath Mandal S/o- Jugeshwar Mandal & Santish Mandal S/o-Lt. Rameshwar Mandal Sakim-Dehe
				8219	Private	Agriculture	0.076	Sukal Saff S/o- Ramfal Sah Sakim-Dehe, Ram Prakash Sah Bouslal Sah Sakim-Dehe and Nandi Sah S/o-Khushi Lal Sah Sakim-Dehe
				8201	Private	Agriculture	0.024	Jageshwar Yadav & Raj Kr. Yadav S/o-Lt. Partelal Yadav Sakim- Dehe
				8200	Private	Agriculture	0.032	Jhabbar Paswan S/o-Ramjee Paswan Sakim-Dehe
				8198	Private	Agriculture	0.08	Ramkhan Yadav S/o-Malik Yadav Sakim-Dehe
				8196	Private	Agriculture	0.028	Brajnandan yadav S/o-Lt. Sifat Yadav Sakim-Dehe
				8195	Private	Agriculture	0.044	Upendra Yadav S/o-Rambabu Yadav Sakim-Dehe
				8194	Private	Agriculture	0.012	Rajendra Yadav & Yogendra Yadav & Sanjay Yadav & Ashok Yadav S/o- Bhari Yadav & Chakradhari Yadav S/o-Lt. Upendra Yadav Sakim-Dehe
				8184	Private	Agriculture	0.004	Rup Nr. Yadav S/o- Partelal Yadav Sakim-Dehe
				8192	Private	Agriculture	0.008	Khushi Lal Mukhiya & Piyag Mukhiya & Kusumal Mukhiya & Jaso Mukhiya & Raj Kr. Mukhiya & Rajindra Mukhiya S/o-Munki Mukhiya Sakim-Dehe
				9288	Private	Agriculture	0.204	Laxmi Sah & Mungalai Sah & Devial Sah S/o- Lt. Ramkisun Sah Sakim-Dehe and Bhagwat Sah S/o-Ramkisun Sah Sakim-Dehe
				9281	Government	Road	0.224	Bihar Govt.
				9283	Private	Agriculture	0.152	Brajnandan yadav & Chethu Yadav S/o-Rasiklal Yadav Sakim-Dehe
				9262	Private	Agriculture	0.072	Laxmi Sah & Mungalai Sah & Devial Sah S/o- Lt. Ramkisun Sah Sakim-Dehe
				9258	Private	Agriculture	0.112	Lalan Sah S/o-Laxmi Sah Sakim-Dehe, Pramod Sah S/o-Devial Sah Sakim-Dehe, Mungalai Sah S/o-Ramkisun Sah Sakim-Dehe and Bhagwat Sah S/o-Ramkisun Sah Sakim-Dehe
				9221	Private	Agriculture	0.14	Hari Nr. Yadav & Surya Nr. Yadav S/o-Lt. Abadhial Yadav Sakim-Dehe
				9180	Private	Agriculture	0.04	Ram Prakash Sah Bouslal Sah Sakim-Dehe
				9183	Private	Agriculture	0.04	Parmashwer Sah & Kameshwer Sah & Rameshwer Sah S/o- Ramchandra Sah Sakim-Dehe and Bachelal Sah S/o-Mushkun Sah Sakim-Dehe
				9119	Private	Agriculture	0.072	Jibachh yadav & Satya Nr. Yadav & Ramchandra Yadav & Ramrajee Yadav & Narayan Yadav & Debu Yadav S/o- Sifat Yadav Sakim-Dehe
				9121	Private	Agriculture	0.008	Prabhu Yadav S/o-Dhanpati Yadav Sakim-Dehe and Prabhu Yadav S/o-Dhanpati Yadav Sakim-Dehe
				9116	Private	Agriculture	0.04	Jibachh yadav & Satya Nr. Yadav & Ramchandra Yadav & Ramrajee Yadav & Narayan Yadav & Debu Yadav S/o- Sifat Yadav Alias Nakri Yadav Sakim-Dehe
				9117	Private	Agriculture	0.004	Jibachh yadav & Satya Nr. Yadav & Ramchandra Yadav & Ramrajee Yadav & Narayan Yadav & Debu Yadav S/o- Sifat Yadav Sakim-Dehe
				9118	Private	Agriculture	0.036	Jibachh yadav & Satya Nr. Yadav & Ramchandra Yadav & Ramrajee Yadav & Narayan Yadav & Debu Yadav S/o- Sifat Yadav Sakim-Dehe
				9115	Private	Agriculture	0.02	Jibachh yadav & Satya Nr. Yadav & Ramchandra Yadav & Ramrajee Yadav & Narayan Yadav & Debu Yadav S/o- Sifat Yadav Sakim-Dehe
				9114	Private	Agriculture	0.016	Jibachh yadav & Satya Nr. Yadav & Ramchandra Yadav & Ramrajee Yadav & Narayan Yadav & Debu Yadav S/o- Sifat Yadav Sakim-Dehe
				9113	Private	Agriculture	0.076	Prabhu Yadav S/o-Dhanpati Yadav Sakim-Dehe

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				9111	Private	Agriculture	0.008	Prabhu Yadav S/o-Dhanpati Yadav Sakim-Dehe
				9112	Private	Agriculture	0.002	Prabhu Yadav S/o-Dhanpati Yadav Sakim-Dehe
				9109	Private	Agriculture	0.01	Prabhu Yadav S/o-Dhanpati Yadav Sakim-Dehe
				9110	Private	Agriculture	0.004	Prabhu Yadav S/o-Dhanpati Yadav Sakim-Dehe
			(10)Siswa Barhi	2590	Private	Agriculture	0.004	Bajrang Lal Yadav S/o-Uttam Lal Yadav Sakim-Dehe
				2591	Private	Agriculture	0.052	Ram Gulam Yadav Sobhalei Yadav Sakim-Dehe
				2594	Private	Agriculture	0.032	Ram Adhin Yadav S/o- Chuni Yadav Sakim-Dehe
				2595	Private	Agriculture	0.192	Bali Yadav S/o-Jaylal Yadav & Bhoj Pd. Yadav S/o- Bhikhari Yadav
			(11) Narahiya	2994	Private	Agriculture	0.004	Bhagwati Sah S/o-Ram & Laxmi Sah S/o-Ksun Sah Sakim- Dehe
				3012	Government	Agriculture	0.148	Bihar Govt.
				3085	Private	Agriculture	0.024	Ramashis Yadav S/o-Khushilal Yadav Sakim-Dehe
				3087	Private	Agriculture	0.044	Bhole Sah S/o-Lt. Lehay Sah Sakim-Dehe
				3089	Private	Agriculture	0.088	Balchand Yadav S/o-Lt. Nathu Yadav Sakim-Dehe
				3093	Private	Agriculture	0.04	Balchand Yadav S/o-Lt. Nathu Yadav Sakim-Dehe
				3090	Private	Agriculture	0.104	Rajendra Agrawal S/o-Lt. Jagdish Agrawal Sakim-Dehe
				3092	Private	Agriculture	0.212	Laxmi Sah S/o-Lt. Rameshwar Sah & Abhishek Agrawal S/o-Deen Dayal Agrawal Sakim-Dehe, Bareilal Yadav S/o-Lt. Roopial Yadav Sakim-Dehe, Anirudh Pd. S/o-Lt. Babul Sah Sakim-Dehe and Manju Devi W/o-Binod Kr. Agrawal Sakim-Dehe
				3095	Private	Agriculture	0.1824	Satyra Nr. Agrawal S/o- Giriraj Agrawal Sakim-Dehe, Yasodi Agrawal S/o-Giriraj Agrawal Sakim-Dehe, Kailash Agrawal S/o-Giriraj Agrawal Sakim-Dehe and Shyam Sunder Agrawal S/o-Lt. Ram Kr. Agrawal Sakim-Dehe
				3111	Private	Agriculture	0.032	Yasodi Agrawal S/o-Giriraj Agrawal Sakim-Dehe Shyam Sunder Agrawal
				3096	Private	Agriculture	0.34	S/o-Lt. Ram Kr. Agrawal Sakim-Dehe and Laxmi Pd. Sah S/o-Lt. Rameshwar Sah Sakim-Dehe
				3097	Private	Agriculture	0.02	Laxmi Pd. Sah S/o-Lt. Rameshwar Sah Sakim-Dehe
				3098	Government	Non-Agriculture	0.084	Bihar Govt.
				3099	Government	Agriculture	0.018	Bihar Govt.
				3101	Government	Non-Agriculture	0.092	Bihar Govt.
				3100	Government	Agriculture	0.064	Bihar Govt.
				3138	Government	Agriculture	0.056	Bihar Govt.
				3149	Government	Agriculture	0.176	Bihar Govt.
				3150	Private	Agriculture	0.032	Abdulahai Pyasi S/o-Lt. Shakrula Sakim-Dehe
				3147	Private	Agriculture	0.048	Abdulahai Pyasi S/o-Lt. Shakrula Sakim-Dehe
				3148	Private	Agriculture	0.12	Abdulahai Pyasi S/o-Lt. Shakrula Sakim-Dehe
				3152	Private	Agriculture	0.092	Hari Sah S/o-Lt. Kan Sah & Bachu Sah S/o-Baldev Sah Sakim-Dehe
				3153	Private	Agriculture	0.144	Raj Kishore S/o-Lt. Laxmi Sah Sakim-Dehe, Dami Sah S/o-Ravi Sah Sakim-Dehe and Hem Nr. Sah S/o-Lt. Laxmi Sah Sakim-Dehe
				3154	Government	Agriculture	0.1	Bihar Govt.
				3155	Government	Agriculture	0.042	Bihar Govt.
				3156	Government	Agriculture	0.048	Bihar Govt.
				3151	Government	Agriculture	0.224	Bihar Govt.
				3581	Private	Agriculture	0.024	Hem Nr. Sah S/o-Lt. Laxmi Sah Sakim-Dehe
				3579	Government	Agriculture	0.276	Bihar Govt.
				3580	Government	Agriculture	0.216	Bihar Govt.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3751	Private	Non-Agriculture	0.08	Baidyanath Sah S/o-Jasho Sah Sakim-Dehe, Durga Pd. Sah S/o-Lt.Bhola Sah Sakim-Dehe, Shambhu Pd. Sah & Raju Pd. Sah S/o-Lt. Mishra Sah Sakim- Dehe, Lal Mohammad S/o-Lt.Juman Miya Sakim-Dehe, Anwarul Miya S/o-Lt.Juman Miya Sakim-Dehe, Samsul Miya S/o-Lt.Juman Miya Sakim-Dehe, Ayub Miya S/o-Lt.Harif Miya Sakim-Dehe, Md. Mostak S/o-Lt.Abdul Rahman Sakim-Dehe and Pranod Sah S/o-Lt.Baldev Sah Sakim-Dehe
				3757	Private	Non-Agriculture	0.04	Ram Janki Mandir
				3759	Private	Non-Agriculture	0.032	Laxmi Sah Sakim-Dehe Ram Janki Mandir Laxmi Sah Sakim-Dehe
				3758	Private	Non-Agriculture	0.06	Ram Janki Mandir Laxmi Sah Sakim-Dehe, Laxmi Sah S/o-Satan Sah & Laxmi Devi W/o-Upendra Sah Sakim-Dehe
				3752	Private	Non-Agriculture	0.028	Md.Abbas S/o-Md.jameer Sakim-Dehe and Pradeep Kr.Sah S/o-Lt.Lal Babu Sah Sakim-Dehe
				3754	Private	Non-Agriculture	0.008	Pradeep Kr.Sah S/o-Lt.Lal Babu Sah Sakim-Dehe
				3755	Private	Non-Agriculture	0.072	Lal Babu Sah S/o-Lt.Shivjee Sah Sakim-Dehe and Masomat Rabbul Khatun W/o-Lt.Mahmood Alam Sakim-Dehe
				5272	Private	Agriculture	0.048	Mohan Ram Din S/o-Lt.Yugeshwar Ram Sakim-Dehe
				5273	Private	Agriculture	0.052	Jay Prakash Sah S/o-Jagmuth Sah Sakim-Dehe
				5274	Private	Agriculture	0.008	Shambhu Pd. Sah S/o-Lt.Bindeshwar Sah Sakim-Dehe
				5275	Private	Agriculture	0.008	Prasad Sah S/o-Lt.Binod Pd. Sah Sakim-Dehe
				5279	Private	Non-Agriculture	0.004	Mohan Ram Din S/o-Lt.Yugeshwar Ram Sakim-Dehe
				5294	Private	Non-Agriculture	0.028	Madan Pd. Sah S/o-Lt.Rameshwar Sah Sakim-Dehe and Pawan Kr. Sah & Binod Kr.Sah S/o-Lt.Rameshwar Sah Sakim-Dehe
				5296	Government	Road	0.056	Bihar Govt.
				7780	Government	Agriculture	0.016	Bihar Govt.
				5297	Government	Agriculture	0.012	Bihar Govt.
				5558	Government	Road	0.148	Bihar Govt.
				5558	Private	Non-Agriculture	0.112	Lakhen Das S/o Lt Rajkumar Das, raghunath Das s/o Misri das, Jibbachh Das S/o Kiray Das Etc.
				7781	Private	Non-Agriculture	0.012	Munni Devi W/o- Mohan Mandal Sakim-Dehe
				5525	Private	Agriculture	0.024	Heera Sah S/o-Lt.Rameshwar Sah Sakim-Dehe
				5804	Private	Non-Agriculture	0.04	Bhagirath Pd. Singh S/o-Lt. Anuplal Singh Sakim-Dehe, Antesh Kr. Singh S/o-Lt.Anandilal Singh, Surya Nr. Singh S/o-Lt.Anuplal Singh and Laxmi Nr. Singh S/o-Lt. Tapeshwar Singh Sakim-Dehe
				5802	Private	Non-Agriculture	0.2	Surya Nr. Singh & Bhagirath Pd. Singh & Antesh Kr. Singh
				5800	Private	Agriculture	0.008	Biswanath Singh S/o-Lt.Babusahdev Singh Sakim-Dehe
				5801	Government	Road	0.02	Bihar Govt.
				5571	Private	Agriculture	0.004	Anirudh Pd. S/o-Lt.Babulal Sah Sakim-Dehe
				5589	Private	Non-Agriculture	0.388	Chandreshkhar Mahto & Bharat Mahto & Pramod Mahto & Manoj Mahto S/o- Lt. Surya Nr. Mahto Sakim-Dehe, Surya Nr. Singh S/o-Lt.Anuplal Singh Sakim-Dehe and Bhagirath Pd. Singh S/o-Lt. Anuplal Singh Sakim-Dehe
				5832	Private	Agriculture	0.024	Surya Nr.Singh S/o-Lt.Anup Lal Singh
				7877	Private	Non-Agriculture	0.016	Muri Manohar Sah S/o-Lt. Shivjee Sah Sakim-Dehe, Raj Kapoor Sah S/o- Dukhi Sah Sakim-Dehe and Ashok Sah S/o-Lt.Bittu Sah Sakim-Dehe

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4859	Private	Non-Agriculture	0.032	Doml Sah S/o-Ram Sah Sakim-Dehe and Shukul Sah S/o-Lt.Shobhi Sah Sakim-Dehe
				4857	Private	Non-Agriculture	0.084	Dev Nr. Sah S/o-Lt.Ram Lochan Sah Sakim-Dehe
				4851	Private	Non-Agriculture	0.012	Dev Nr. Sah S/o-Lt.Ram Lochan Sah Sakim-Dehe
				4852	Private	Non-Agriculture	0.04	Dev Nr. Sah S/o-Lt.Ram Lochan Sah Sakim-Dehe
				4855	Private	Non-Agriculture	0.004	Dev Nr. Sah S/o-Lt.Ram Lochan Sah Sakim-Dehe
				4853	Private	Non-Agriculture	0.012	Hem Nr. Sah & Kishore Kr. Sah S/o-Lt.Laxmi Sah Sakim-Dehe
				4850	Private	Non-Agriculture	0.02	Satyra Nr. Sah S/o-Lt.Sunder Sah Sakim-Dehe
				4844	Government	Non-Agriculture	0.004	Bihar Government
				4843	Government	Non-Agriculture	0.012	Bihar Government
				4835	Private	Non-Agriculture	0.038	Chandeshwer Thakur & Ram Sharan Thakur S/o- Laxmi Thakur Sakim-Dehe and Sanjay Gupta S/o-Raghnath Gupta Sakim-Dehe
				4834	Private	Non-Agriculture	0.032	Raj Kr. S/o-Kisan Roy Sakim-Dehe and Radhe Sah S/o-Lt.Shukl Sah Sakim-Dehe
				4833	Private	Non-Agriculture	0.044	Radhe Sah S/o-Lt.Shukl Sah Sakim-Dehe, Ghuran Sah Urf-Umesh Sah S/o-Jhanlal Sah Sakim-Dehe, Hari Roy S/o-Boudhu Sah Sakim-Dehe, Prabhu Sah S/o-Lt.Chaitra Sah Sakim-Dehe and Umakant Roy S/o-Badri Nr. Roy Sakim-Dehe
				4832	Private	Non-Agriculture	0.016	umakant Roy S/o-Badri Nr. Roy Sakim-Dehe and Ramdes S/o-Loudhu Das Sakim-Dehe
				4584	Private	Non-Agriculture	0.004	Deepak Kr. Sah S/o-Lt.Liladhar Sah Sakim-Dehe
				4585	Private	Non-Agriculture	0.024	Deepak Kr. Sah S/o-Lt.Liladhar Sah Sakim-Dehe, Abadh Nr. Sah S/o-Lt.Dev Nr. Sah Sakim-Dehe and Prasad Sah S/o-Lt.Binod Pd. Sah Sakim-Dehe
				4582	Private	Non-Agriculture	0.024	Prasad Sah S/o-Lt.Binod Pd. Sah Sakim-Dehe, Bhole Pd. Sah S/o-Lt.Bindeshwer Sah Sakim-Dehe and Bhuvneshwer Sah S/o-Lt. Bindeshwer Sah Sakim-Dehe
				4591	Private	Non-Agriculture	0.004	Bhuvneshwer Sah S/o-Lt. Bindeshwer Sah Sakim-Dehe
				4537	Private	Non-Agriculture	0.038	Liladhar Sah S/o-Lt.Ram Awtar Sah Sakim-Dehe, Baidyanath Sah S/o-Lt. Ramshobht Sah Sakim-Dehe and Thakay Sah & Janak Sah S/o-Lakhichandra Sah Sakim- Dehe
				4534	Private	Non-Agriculture	0.008	Bijay Sah S/o-Lt.Radhe Sah Sakim-Dehe
				4535	Private	Non-Agriculture	0.028	Krishna Pd. Sah S/o-Deep Nr. Sah Sakim-Dehe
				4536	Private	Non-Agriculture	0.028	Thakay Sah & Janak Sah S/o-Lakhichandra Sah Sakim- Dehe
				4538	Private	Non-Agriculture	0.004	Thakay Sah & Janak Sah S/o-Lakhichandra Sah Sakim- Dehe
				4539	Private	Non-Agriculture	0.008	Thakay Sah & Janak Sah S/o-Lakhichandra Sah Sakim- Dehe
				7878	Private	Non-Agriculture	0.008	Thakay Sah & Janak Sah S/o-Lakhichandra Sah Sakim- Dehe
				4513	Private	Non-Agriculture	0.036	Heera Pd. Sah S/o-Lt.Rameshwer Sah Sakim-Dehe, Lal Bahadur Dhanikar S/o-Lt.Achheal Dhanikar Sakim-Dehe, Chhed Dhanikar S/o-Dukhey Dhanikar Sakim-Dehe and Bittu Dhanikar & Jaylal Dhanikar S/o- Achheal Dhanikar Sakim-Dehe

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4491	Private	Non-Agriculture	0.132	Rameshwer Malik S/o-Baddu Dom Sakim-Dehe, Surya Nr. Singh S/o-Lt. Anuprat Singh, Bhagirath Pd. Singh S/o-Lt. Anuprat Singh Sakim-Dehe, Antesh Kr. Singh S/o-Lt. Anandilal Singh, Chhedi Dhanikar S/o-Dukhay Dhanikar Sakim-Dehe, Nathuri Dhanikar S/o-Kalar Dhanikar Sakim-Dehe, Heera Pd. Sah S/o-Lt. Rameshwer Sah Sakim-Dehe and Smt. Ram Kumari W/o- Shobhit Roy Sakim-Dehe
				4503	Government	Road	0.008	Bihar Govt.
				5261	Private	Non-Agriculture	0.064	Rambilas Sah S/o-Lt. Chulhay Sah Sakim-Dehe and Laibahadur Sah S/o- Shivjee Sah Sakim-Dehe
				5260	Private	Agriculture	0.012	Kisun Sah S/o- Laxman Sah Sakim-Dehe
				5259	Private	Agriculture	0.012	Kisun Sah S/o- Laxman Sah Sakim-Dehe
				4653	Private	Agriculture	0.016	Deepak Kr. Sah S/o-Lt. Ramlochan Sah Sakim-Dehe
				4850	Private	Non-Agriculture	0.012	Shivan Sah S/o-Janak Sah Sakim-Dehe
				4853	Private	Non-Agriculture	0.004	Shivan Sah S/o-Janak Sah Sakim-Dehe
				4851	Private	Non-Agriculture	0.008	Deepak Kr. Sah S/o-Lt. Ramlochan Sah Sakim-Dehe
				4852	Private	Non-Agriculture	0.004	Deepak Kr. Sah S/o-Lt. Ramlochan Sah Sakim-Dehe
				4849	Private	Non-Agriculture	0.012	Deepak Kr. Sah S/o-Lt. Ramlochan Sah Sakim-Dehe and Radhe Sah S/o-Lt. Shukl Sah Sakim-Dehe
				4848	Private	Non-Agriculture	0.004	Radhe Sah S/o-Lt. Shukl Sah Sakim-Dehe
				4847	Private	Non-Agriculture	0.004	Radhe Sah S/o-Lt. Shukl Sah Sakim-Dehe
				4846	Private	Non-Agriculture	0.004	Gopal Sah S/o-Lt. Ramsagar Sah Sakim-Dehe
				4845	Private	Non-Agriculture	0.008	Gopal Sah S/o-Lt. Ramsagar Sah Sakim-Dehe
				4844	Private	Non-Agriculture	0.004	Gopal Sah S/o-Lt. Ramsagar Sah Sakim-Dehe
				4843	Private	Non-Agriculture	0.004	Gopal Sah S/o-Lt. Ramsagar Sah Sakim-Dehe
				4842	Private	Non-Agriculture	0.004	Suraj Sah S/o-Lt. Rambihari Sah Sakim-Dehe
				4841	Private	Non-Agriculture	0.008	Suraj Sah S/o-Lt. Rambihari Sah Sakim-Dehe
				4840	Private	Non-Agriculture	0.004	Laibahadur Sah S/o- Shivjee Sah Sakim-Dehe
				4839	Private	Non-Agriculture	0.012	Laibahadur Sah S/o- Shivjee Sah Sakim-Dehe
				4858	Private	Non-Agriculture	0.004	Laibahadur Sah S/o- Shivjee Sah Sakim-Dehe
				4838	Private	Non-Agriculture	0.012	Laibahadur Sah S/o- Shivjee Sah Sakim-Dehe
				4859	Private	Non-Agriculture	0.008	Lalan Kr. Sah & Shambhu Pd. Sah S/o- Lt. Bindeshwer Sah Sakim-Dehe
				4860	Private	Non-Agriculture	0.008	Lalan Kr. Sah & Shambhu Pd. Sah S/o- Lt. Bindeshwer Sah Sakim-Dehe
				4861	Private	Non-Agriculture	0.004	Heera Pd. Sah S/o- Lt. Rameshwer Sah & Deepak Kr. S/o- Lt. Liladhar Sah Sakim-Dehe
				4862	Private	Non-Agriculture	0.004	Heera Pd. Sah S/o- Lt. Rameshwer Sah & Deepak Kr. S/o- Lt. Liladhar Sah Sakim-Dehe
				4863	Private	Non-Agriculture	0.004	Parmeshwer Sah S/o- Lt. Prithvilal Sah Sakim-Dehe
				4868	Private	Non-Agriculture	0.004	Bechan Sah S/o- Mishrilal Sah Sakim-Dehe
				4870	Private	Non-Agriculture	0.004	Sohan Lal Sah S/o-Lt. Ramchaitra Sah Sakim-Dehe
				4782	Government	Road	0.046	Bihar Govt.
				4831	Private	Non-Agriculture	0.008	Parmeshwer Sah S/o- Lt. Prithvilal Sah & Bechan Sah S/o- Mishrilal Sah Sakim-Dehe
				4830	Private	Non-Agriculture	0.004	Parmeshwer Sah S/o- Lt. Prithvilal Sah & Bechan Sah S/o- Mishrilal Sah Sakim-Dehe
				4829	Private	Non-Agriculture	0.004	Laxmi Sah S/o-Lt. Babulal Sah Sakim-Dehe
				4828	Private	Non-Agriculture	0.004	Laxmi Sah S/o-Lt. Babulal Sah Sakim-Dehe
				4827	Private	Non-Agriculture	0.004	Laxmi Sah S/o-Lt. Babulal Sah Sakim-Dehe

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4826	Private	Non-Agriculture	0.004	Laxmi Sah S/o-Lt. Babul Sah Sakim-Dehe
				4825	Private	Non-Agriculture	0.008	Laxmi Pd. Sah S/o-Lt. Rameshwar Sah Sakim-Dehe
				4824	Private	Non-Agriculture	0.008	Kago Devi W/o-Upendra Sah Sakim-Dehe
				4823	Government	Non-Agriculture	0.004	Bihar Govt. Bishwanath Sah
				4822	Private	Non-Agriculture	0.008	S/o-Lt. Mahaveer Sah Sakim-Dehe and Md. Inus Miya S/o-Rafik Miya Sakim-Dehe
				4821	Private	Non-Agriculture	0.004	Sadre Alam S/o-Md. Nayim Sakim-Dehe
				4820	Private	Non-Agriculture	0.008	Sadre Alam S/o-Md. Nayim Sakim-Dehe and Md. Ismail S/o- Lal Mohammad Sakim-Dehe
				4819	Private	Non-Agriculture	0.004	Md. Md. Ismail S/o- Lal Mohammad Sakim-Dehe
				4783	Private	Non-Agriculture	0.004	Md. Ismail S/o- Lal Mohammad Sakim-Dehe
				4817	Private	Non-Agriculture	0.012	Ashok Kr. Chopra S/o-Lt. Nemchandra Chopra Sakim-Dehe and Laxmi Pd. Sah S/o-Lt. Rameshwar Sah Sakim-Dehe
				4818	Private	Non-Agriculture	0.008	Ashok Kr. Chopra S/o-Lt. Nemchandra Chopra Sakim-Dehe and Laxmi Pd. Sah S/o-Lt. Rameshwar Sah Sakim-Dehe
				4815	Private	Non-Agriculture	0.006	Laxmi Pd. Sah S/o-Lt. Rameshwar Sah Sakim-Dehe
				4816	Private	Non-Agriculture	0.004	Laxmi Pd. Sah S/o-Lt. Rameshwar Sah Sakim-Dehe
				4813	Private	Non-Agriculture	0.004	Laxmi Pd. Sah S/o-Lt. Rameshwar Sah Sakim-Dehe
				4812	Private	Non-Agriculture	0.008	Laxmi Pd. Sah S/o-Lt. Rameshwar Sah Sakim-Dehe
				4814	Private	Non-Agriculture	0.008	Laxmi Pd. Sah S/o-Lt. Rameshwar Sah & Ramgulam Mandal S/o-Janaklal Mandal Sakim-Dehe and Sita Devi W/o-Lt. Dukhi Mandal Sakim-Dehe
				4808	Private	Non-Agriculture	0.012	Ramesh Chandra Chopra S/o-Lt. Chananmal Chopra Sakim-Dehe, Bhola Mahto & Satan Mahto & Khola Mahto & Ashok Mahto S/o-Sukan Mahto Sakim-Dehe and Chulhay Mahto S/o-Surej Mahto Sakim-Dehe
				4783	Government	Road	0.012	Bihar Govt.
				4807	Private	Non-Agriculture	0.016	Banarsi Mahto S/o-Lt. Bilal Mahto Sakim-Dehe, Bechan Sah S/o-Lt. Mishrilal Sah Sakim-Dehe, Yogendra Mahto & Mahendra Mahto and Satya Nr. Mahto Sukan Mahto Sakim-Dehe,
				4810	Private	Non-Agriculture	0.004	Laxmi Pd. Sah S/o-Lt. Rameshwar Sah Sakim-Dehe
				4811	Private	Non-Agriculture	0.008	Laxmi Pd. Sah S/o-Lt. Rameshwar Sah Sakim-Dehe and Ramesh Chandra Chopra S/o-Lt. Chananmal Chopra Sakim-Dehe
				4809	Private	Non-Agriculture	0.008	Ramesh Chandra Chopra S/o-Lt. Chananmal Chopra Sakim-Dehe
				4806	Private	Non-Agriculture	0.008	Rakesh Kr. Chopra S/o-Lt. Chananmal Chopra Sakim-Dehe
				4805	Private	Non-Agriculture	0.016	Rakesh Kr. Chopra S/o-Lt. Chananmal Chopra Sakim-Dehe
				4804	Private	Non-Agriculture	0.004	Pankaj Kr. Chopra S/o-Lt. Karichand Jain Sakim-Dehe
				4803	Private	Non-Agriculture	0.008	Pankaj Kr. Chopra S/o-Lt. Karichand Jain Sakim-Dehe
				4802	Private	Non-Agriculture	0.008	Anil Kr. Chopra S/o-Lt. Chananmal Chopra Sakim-Dehe and Mahaveer Chopra S/o-Lt. Tolaram Chopra Sakim-Dehe
				4801	Private	Non-Agriculture	0.008	Mahaveer Chopra S/o-Lt. Tolaram Chopra Sakim-Dehe
				4800	Private	Non-Agriculture	0.008	Mahaveer Chopra S/o-Lt. Tolaram Chopra Sakim-Dehe and Lal Chopra S/o-Tolaram Chopra Sakim-Dehe
				4798	Private	Non-Agriculture	0.012	Lal Chopra S/o-Tolaram Chopra Sakim-Dehe and Manoj Bothra S/o-Tejkar Bothra Sakim-Dehe
				4796	Private	Non-Agriculture	0.004	Kuldip Mishra S/o- Lt. Fakirchand Mishra Sakim-Dehe
				4795	Private	Non-Agriculture	0.004	Kuldip Mishra S/o- Lt. Fakirchand Mishra Sakim-Dehe

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4833	Private	Non-Agriculture	0.008	Chuni Lal Chopra S/o- Lt. ghar Chopra Sakim-Dehe
				4834	Private	Non-Agriculture	0.004	Chuni Lal Chopra S/o- Lt. jhar Chopra Sakim-Dehe
				4835	Private	Non-Agriculture	0.008	Chandresnagar Sharma S/o- Lt. Shrawan Kr. Sharma Sakim-Dehe
				4887	Private	Non-Agriculture	0.004	Shamohu Lal Sancheti S/o-Tolaram Sancheti
				4836	Government	Non-Agriculture	0.016	Bihar Govt.
				7629	Private	Non-Agriculture	0.032	Deepak Sah S/o Liladhar Sah and Ajid Das S/o Bhutai Das
				7814	Private	Non-Agriculture	0.016	Ajid Das S/o Bhutai Das and Mohan Das & Bangali Das S/o Naseeb Lal Das
				7798	Government	Non-Agriculture	0.068	Bihar Government
				7628	Private	Non-Agriculture	0.056	Jag Lal Das & Chhedri Das S/o Ali Das and Ranjit Das S/o Ramchandra Das, Rajendra Das & arun Das S/o Mahavir Das and Bholi Das S/o Utai Das
				7627	Private	Non-Agriculture	0.038	Shivan Das S/o Ramkhetawan Das
				7625	Private	Non-Agriculture	0.008	Ramchandra Das S/o Mahavir Das
				7624	Private	Non-Agriculture	0.028	Ramchandra Das S/o Mahavir Das, Sumrati Das S/o Jhari Das, shri Prasad Satu S/o Binod Sahu
				5675	Private	Agriculture	0.048	Shri Prasad Sah S/o-Lt. Binod Pd. Singh
				5963	Private	Agriculture	0.012	Pramod Sah S/o-Lt. Baldev Sah & Radhe Sah S/o-Lt. Shukal Sah
				7793	Government	Road	0.048	Bihar Govt.
				5823	Private	Agriculture	0.016	Lal Bahadur Sah S/o- Lt. Shivjee Sah Sakim-Dehe
				5830	Private	Non-Agriculture	0.036	Masomat DaraW/o Late Rambhish Sah and Mahendra Sah S/o-Lt. Shivnandan Sah & Mangal Sah S/o- Bahadur Sah Sakim-Dehe
				5843	Private	Agriculture	0.012	Mishrial Sah S/o-Lal Sah Sakim-Dehe
				7790	Private	Non-Agriculture	0.22	Shyam Roy S/o- Surya Nr. Roy & Kisundev Roy S/o- Laxman Roy Sakim-Dehe and masomat Belia Dewi Josie Sitaram rai
				5951	Private	Agriculture	0.076	Kisundev Roy S/o-Laxman Roy Sakim-Dehe, Kamlesh Pd. Yadav S/o-Kumar Pd. Yadav & Mahendra Purvey S/o-Tajilal Purvey, Binod Kr. Sah S/o-Bishnu Pd. Sah Sakim-Dehe and Boliya Dewi W/o-Sitaram Roy Sakim-Dehe
				5944	Private	Agriculture	0.048	Ramchandra Sah & Dev Nr. Sah S/o- Lt. Makhani Sah
				5942	Private	Agriculture	0.088	Kisundev Sah S/o- Laxman Sah
				5927	Government	Road	0.092	Bihar Govt.
				7630	Private	Agriculture	0.08	Manik Dasw S/o-Lt. Bhutay Das Sakim-Dehe
				7655	Government	Road	0.02	Bihar Govt.
				7657	Private	Agriculture	0.036	Manik Dasw S/o-Lt. Bhutay Das Sakim-Dehe
				5833	Government	Road	0.256	Bihar Govt.
				4513	Private	Agriculture	0.072	Mishrial Sah & Jagdis Sah
				4512	Private	Agriculture	0.018	S/o- Lt. Saryug Sayh Sakim-Dehe
				4511	Private	Agriculture	0.02	Kisun Dev Sah S/o-Lt. Laxman Sah
				4510	Private	Agriculture	0.008	Kisun Dev Sah S/o-Lt. Laxman Sah
				4509	Private	Agriculture	0.008	Kisun Dev Sah S/o-Lt. Laxman Sah
				4508	Private	Agriculture	0.012	Kisun Dev Sah S/o-Lt. Laxman Sah
		(12) Navtoli		830	Private	Non-Agriculture	0.108	Deepak Sah & S/o-Liladhar Sah & Prabhu Sah S/o- Lt. Chaitra Sah Sakim-Dehe, Khattar, Das S/o-Lt. Anup Das Sakim-Dehe, Khushi Lal Sah S/o- Shital Sah Sakim-Dehe, Chhutharu Das S/o-Ram Kisun Sah Sakim-Dehe and Pashapati Das S/o-Kiray Das Sakim-Dehe
				829	Private	Agriculture	0.028	Bhola Sah S/o Lt. Bindeshwer Sah Sakim-Dehe and Shambhu Sah S/o-Lt. Bindeshwer Sah Sakim-Dehe
				827	Private	Agriculture	0.04	Bhola Sah S/o-Lt. Bindeshwer Sah Sakim-Dehe and Shambhu Sah S/o-Lt. Bindeshwer Sah Sakim-Dehe
				1005	Private	Agriculture	0.032	Manik Das S/o-Lt. Bhutay Das Sakim-Dehe

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1483	Private	Agriculture	0.004	Pulkat Sah S/o-Lt. Tikak Sah Sakim-Dehe
				80	Private	Agriculture	0.06	Bindeshwar Sah S/o-Lt. Jhamet Sah Sakim-Dehe
				82	Private	Agriculture	0.018	Bharat Sah S/o-Nathuni Sah & Jagat Sah S/o-Nathuni Sah & Yadunandan Sah S/o-Lt. Shival Sah Sakim-Dehe
				83	Private	Agriculture	0.02	Santosh Kr. Sah S/o-Lt. Binod Pd. Sah Sakim-Dehe
				85	Private	Agriculture	0.008	Motilal Ram S/o-Latee Ram Sakim-Dehe
				94	Private	Agriculture	0.02	Ram Nr. Mandal S/o-Rastal Mandal Sakim-Dehe
				95	Private	Agriculture	0.004	Md Ayub Miya S/o-Lt. Md. Ibrahim Sakim-Dehe
				96	Government	Agriculture	0.048	Bihar Govt.
				97	Private	Agriculture	0.004	Jhoni Sah S/o-Lt. Bouku Sah Sakim-Dehe
				131	Private	Agriculture	0.004	Basdev Mandal S/o-Lt. Yogi Mandal Sakim-Dehe
				819	Government	Road	0.092	Bihar Govt.
				821	Government	Road	0.06	Bihar Govt.
				1150	Government	Road	0.024	Bihar Govt.
				1150	Private	Agriculture	0.024	Shiv Nr. Sah Jeyal Sah Sakim-Dehe
				1198	Government	Road	0.012	Bihar Govt.
				1170	Government	Road	0.092	Bihar Govt.
				1172	Government	Road	0.04	Bihar Govt.
				1270	Private	Agriculture	0.052	Hari Nandan Prasad S/o-Lt. Hanuman Prasad Sakim-Dehe
				1244	Private	Agriculture	0.072	Ramtahal Mandal & Dom Nr. Mandal S/o-Foual Mandal Sakim- Dehe
				1245	Private	Agriculture	0.028	Rajendra Sah S/o-Sandev Sah Sakim-Dehe
				1438	Government	Road	0.34	Bihar Govt.
				820	Private	Agriculture	0.018	Ramjesh Sah S/o-Lt. Ramchaitra Sah & Dukhi Sah S/o-Lt. Achhal Sah Sakim-Dehe
				818	Private	Agriculture	0.012	Uchit Thakur S/o-Khetter Thakur & Gangay Thakur S/o- Adhikari Thakur & Ramadhin Mukhiya S/o- Makhay Mukhya Sakim-Dehe
				818	Private	Non-Agriculture	0.016	Sohan Lal Sah S/o-Lt. Ramchaitra Sah Sakim-Dehe
				1452	Government	Road	0.248	Bihar Govt.
				1453	Private	Non-Agriculture	0.096	Sohan Lal Sah S/o-Lt. Ramchaitra Sah Sakim-Dehe
				1454	Government	Road	0.372	Bihar Govt.
				1458	Government	Road	0.092	Bihar Govt.
				818	Private	Non-Agriculture	0.02	Hek Nr. Sah S/o-Laxman Sah & Yadunandan Sah S/o- Shival Sah & Sohan Sah S/o-Mehaveer Sah
				811	Private	Agriculture	0.004	Ramchandra Sah & Abadh Nr. Sah & Sohan Sah S/o-Chaitra Sah Sakim-Dehe
				810	Private	Agriculture	0.004	Dhanikil Mandal S/o-Mohan Mandal Sakim-Dehe
				809	Private	Agriculture	0.016	Bubh Nr. Sah S/o-Asharti Sah Sakim-Dehe
				832	Government	Road	0.0392	Bihar Govt.
				146	Government	Road	0.2092	Bihar Govt.
		(13) Bhuxha		1089	Private	Agriculture	0.012	Mahendra Sah S/o-Lt. Ramprasad Sah Sakim-Dehe
				1113	Private	Agriculture	0.004	Raste Mandal & Shobhit Mandal & Abadh Mandal S/o- Khushi Lal Mandal Sakim-Dehe
				1127	Private	Agriculture	0.008	Niranjan Sah S/o-Lt. Mehaveer Sah Sakim-Dehe
				1129	Private	Agriculture	0.052	Ramaharan Sah & Ramakhan Sah S/o-Lt. Bhole Sah Sakim- Dehe
				1097	Private	Agriculture	0.02	Ramchandra Mandal S/o-Banwali Mandal Sakim-Dehe and Gangay Mandal S/o-Fudari Mandal Sakim-Dehe
				1372	Private	Agriculture	0.004	Raghunandan Sah & Dhip Sah S/o- Mishral Sah & Ramakant Sah Sakim-Dehe
				700	Private	Agriculture	0.084	Kisundev Sah S/o-Lt. Bhandari Sah Sakim-Dehe, Nageshwar Sah S/o- Bhamdev Sah Sakim-Dehe, Ram Nr. Sah S/o- Domi Sah Sakim-Dehe and Ramakhan Sah & Ram Nr. Sah S/o- Lt. Bhole Sah Sakim- Dehe
				1309	Government	Road	0.072	Bihar Govt.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1310	Government	Road	0.088	Bihar Govt.
				1312	Government	Road	0.188	Bihar Govt.
				1100	Government	Road	0.04	Bihar Govt.
				1103	Government	Road	0.024	Bihar Govt.
				1102	Government	Road	0.12	Bihar Govt.
				99	Government	Road	0.008	Bihar Govt.
				1130	Government	Road	0.04	Bihar Govt.
				1368	Government	Road	0.058	Bihar Govt.
				1388	Government	Road	0.008	Bihar Govt.
			(14) Bangama	9884	Private	Agriculture	0.044	Mahiraj Sah & Saryug Sah S/o-Lt. Ram Kisun Sah Sakim-Dehe
				9885	Private	Agriculture	0.038	Surendra Yadav S/o-Lt. Nageshwar Yadav Sakim-Dehe
				9883	Private	Agriculture	0.064	Syaram & Sitaram Sah S/o-Khushilal Sah Sakim-Dehe, Rambahadur Sah & Chhotku S/o-Lt. Soudagar Sah Sakim-Dehe and Shambhu Sah S/o-Musharu Sah Sakim-Dehe
				9872	Private	Agriculture	0.068	Laxmikant Jha & Kameshwar Jha S/o-Ramakant Jha Sakim-Dehe
				9871	Private	Agriculture	0.024	Bhagwant Jha & Dinesh Jha S/o-Lt. Madhukant Jha Sakim-Dehe
				9858	Private	Agriculture	0.0378	Syaram & Sitaram Sah S/o-Khushilal Sah Sakim-Dehe and Mishrilal Mandal
				9855	Private	Agriculture	0.06	S/o-Dhanik Lal Mandal Sakim-Dehe Mishrilal Mandal S/o-Dhanik Lal Mandal Sakim-Dehe
				9852	Private	Agriculture	0.12	Makun Mandal & Krishna Mandal S/o-Raghunath Mandal Sakim-Dehe, Laxmi Mandal S/o-Lt. boua Lal Mandal Sakim-Dehe and Surya Nr. Mandal S/o-Lt. Baycha Lal Mandal Sakim-Dehe
				9851	Private	Agriculture	0.086	Dhanraj Mandal S/o-Boualal Mandal
				9835	Private	Agriculture	0.04	Alok Jha S/o-Narayan Jha Sakim-Dehe
				9407	Private	Non-Agriculture	0.07	Binod Roy S/o-Ram Kisore Roy Sakim Dehe, Binod Roy S/o-Ram Kisore Roy Sakim Dehe, Mahendra Pd. Singh S/o-Ram Nr. Singh & Jay Prakash Jha S/o- Shiv Nr. Jha Sakim-Dehe, Nathuni Sah S/o-Batku Sah Sakim-Dehe, Manoj Kr. Poddar S/o-Ramdev Poddar Sakim-Dehe and Yogendra Roy S/o- Sriat Roy & Baju Roy S/o-Khushilal Roy Sakim-Dehe
				9417	Private	Non-Agriculture	0.004	Binod Roy S/o-Ram Kisore Roy Sakim Dehe
				9419	Private	Non-Agriculture	0.354	Binod Roy S/o-Ram Kisore Roy Sakim Dehe, Mahadev Rai S/o Sattan Rai & Mahendra singh S/o Ramnareyan Singh & Badri Singh S/o Sinerayan singh & Manoj Kumar Poddar s/o Ramdev Poddar & Bejula Rai s/o Khushilal Rai & Ramsevak Rai S/o Munshilal Rai and Yogi Sahu etc.
				9401	Government	Road	0.004	Bihar Govt.
				9393	Private	Non-Agriculture	0.024	Sahya Nr. Poddar & Hari Poddar S/o-Lt. Gopal Poddar Sakim- Dehe, Bechan Poddar & Bishnu Poddar S/o- Ram Pd. Poddar Sakim-Dehe and Ramkrishna Yadav S/o-Ram Bihari Yadav Sakim-Dehe
				9383	Government	Road	0.032	Bihar Govt.
				10528	Private	Non-Agriculture	0.058	Ravi Kamat & Raj Kr. Kamat S/o- Lt. Bathu Kamat Sakim- Dehe
				9428	Private	Non-Agriculture	0.014	Ravi Kamat & Raj Kr. Kamat S/o- Lt. Bathu Kamat Sakim- Dehe
				10529	Private	Non-Agriculture	0.1	Parneshwar Roy S/o-Khushilal Roy Sakim-Dehe, Shanker Sah S/o-Lt. Debu Roy Sakim-Dehe, Subodh Sah S/o-Hanuman Sah Sakim-Dehe, Shiv Kr. Sah S/o-Buchan Sah & Biswanath Sah S/o- Buchan Sah Sakim-Dehe Jageshwar Mukhiya S/o-Lt. Babujee Mukhiya Sakim-Dehe and Shiv Lal Mukhiya S/o-Uchit Mukhiya Sakim-Dehe

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				91543	Government	Road	0.086	Bihar Govt.
				9918	Government	Road	0.184	Bihar Govt.
				9871	Government	Road	0.32	Bihar Govt.
				10544	Government	Road	0.108	Bihar Govt.
				10396	Government	Road	0.108	Bihar Govt.
				10387	Government	Road	0.144	Bihar Govt.
				10545	Government	Road	0.088	Bihar Govt.
				13399	Government	Road	0.128	Bihar Govt.
				10400	Government	Road	0.08	Bihar Govt.
				10401	Government	Road	0.176	Bihar Govt.
				8824	Government	Road	0.048	Bihar Govt.
				7048	Private	Non-Agriculture	0.14	Bhole Roy S/o-Nanay Roy Sakim-Dehe, Sugdev Roy S/o-Nanay Roy Sakim-Dehe, Gulien Kamat S/o-Lt Adhikari Kamat & Shiv Nr. Kamat S/o- Adhikari Kamat, prem Lal Kamat S/o-Sajan Lal Kamat Sakim-Dehe, Sejan Lal Kamat S/o-Dheru Kamat Sakim-Dehe, Yogi Sah S/o-Khater Sah Sakim-Dehe, Prabhulal Kamat S/o-Tanukul Kamat & Motulal Kamat S/o- Lt. Baleshwar Kamat & ugan Kamat & Bidyand Kamat S/o-Ramyanat Kamat Sakim-Dehe, Narayan Roy S/o- Jinap Roy & Bhujungi Sah S/o-Ramlal Sah & Jaynath Sah S/o-Amrit Sah & Upendra Kamat & Soni Lal Kamat S/o-Chutharu Kamat Sakim-Dehe
				7036	Private	Non-Agriculture	0.004	Bhogi Jha S/o-Laxaswer Jha Sakim-Dehe
				7038	Private	Non-Agriculture	0.088	Raj Kr. Yadav & Shiv Kr. & Satya Nr. Yadav S/o- Ritlal Yadav Sakim-Dehe, Shiv Kr. Yadav S/o-Ritlal Yadav Sakim-Dehe, Upendra Kamat & Sonelal Kamat S/o-Chhutharu Kamat Sakim- Dehe, Shibu Kamat S/o-Gulien Kamat & Yogi Jha S/o-Laxaswer Jha Sakim-Dehe, Ramyanat Kamat S/o-Nand Lal Kamat Sakim-Dehe, Ugri Mishra S/o-Jagranath Mishra Sakim-Dehe, Mahendra Sah S/o-Khater Sah and Kusum Lal Sah S/o- Adhikari Sah Sakim-Dehe
				7047	Private	Non-Agriculture	0.012	Mahendra Sah S/o-Khater Sah & Kusum Lal Sah S/o- Adhikari Sah Sakim-Dehe
				7008	Government	Road	0.008	Bihar Govt.
				8987	Government	Road	0.024	Bihar Govt.
				7051	Private	Non-Agriculture	0.02	Ram Janki Mandir Manoj Kr. Poddar S/o-Ramdev Poddar & Ram Kripal Yadav S/o- Ram Bihar Yadav, Sakim-Dehe

[F. No. NHA/30050/3/99/Tech-III/Madhubani-1/3D]

PRABHAKAR, Dy. Secy.